जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

जयपुर, बुधवार 23 अक्टूबर, 2024

MARUTI SUZUKI ARENA

ड्रीम सीरीज के साथ खुशियों की बहार

आज ही अपना सपना साकार करें। कोई भी ड्रीम सीरीज एडिशन खरीदें @ ₹4.99L* में

3 years 100 000 km WARRANTY** EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

ज़्यादा सुरक्षा

रिवर्स पार्किंग कैमरा डिस्प्ले के साथ

डुअल एयरबैग्स

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

+10 अन्य सेफ्टी फीचर्स

ज़्यादा एंटरटेनमेंट

इन्फोटेनमेंट सिस्टम

स्पीकर

+10 अन्य एक्सेसरीज

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

ALTO K10 CELERIO S-PRESSO

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM OR VISIT YOUR NEAREST MARUTI SUZUKI DEALERSHIP.

MARUTI SUZUKI AUTHORISED DEALERS: JAIPUR CITY: AURIC MOTORS PVT LTD.: MANSAROVAR: CALL: 8929207471. KTL AUTOMOBILE PVT. LTD.: VAISHALI MARG, VAISHALI NAGAR: CALL: 8929400419. VIPUL MOTORS PVT. LTD.: TONK ROAD: CALL: 2727000, 7340045958. AJMER ROAD: CALL: 4065555, 7597422900. K.P. AUTOMOTIVES PVT. LTD.: ADARSH NAGAR: CALL: 4074444, 9549650361. BANIPARK: CALL: 0141-4072222, 9549651818. SATNAM MOTOCORP PVT. LTD.: MALVIYA NAGAR: CALL: 8302290000. PREM MOTORS PVT. LTD.: CORPORATE PARK, GOPAL BARI, AJMER ROAD: CALL: 9785034000. JAIPUR-VKI, ROAD NO.8: CALL: 9785023000. SANGA AUTONATION: TONK ROAD: CALL: 9057809150, 7734901000. JAIPUR: K.P. AUTOMOTIVES PVT. LTD.: TONK: CALL: 9549651924. CHAKSU: CALL: 7737913682. SHAHPURA: CALL: 8696925275. DEOLI: CALL: 9358219900. MALPURA: CALL: 6377203737. NIWAI: CALL: 9549651015. PAOTA: CALL: 8696925275. VIRATNAGAR: CALL: 8696925275. JAMWA RAMGARH: CALL: 9829094809. SATNAM MOTOCORP PVT. LTD.: CHOMU: CALL: 7412068453. KTL AUTOMOBILE PVT. LTD.: PHULERA: CALL: 7412077062. SAMBHAR: CALL: 7412068410. ACHROL: CALL: 7412077078. VIPUL MOTORS PVT. LTD.: DAUSA: CALL: 9773364861. LALSOT: CALL: 9773364862. BANDIKUI: CALL: 9773364864. MAHWA: CALL: 9773364862. MEHANDIPUR BALAJI: CALL: 9773364865. SIKRAI: CALL: 9773364861. GOVINDGARH: CALL: 9982370954. UNIARA: CALL: 7742944482. PREM MOTORS PVT. LTD.: BASSI: CALL: 8058794137. SAWAI MADHOPUR: CALL: 07462-220029 / 8058402211 / 7733900567. GANGAPUR CITY: CALL: 8058794021. BAGRU: CALL: 8058401166. KOTPUTLI: CALL: 8058794121. JOBNER: CALL: 8058796065. RENWAL: CALL: 8058600117. RENWAL-MANJHI: CALL: 8058406655. DUDU: CALL: 8058406655. PHAGI: CALL: 8058403338. KANOTA: CALL: 8058794167. TUNGA: CALL: 8058794137. KHANDER: CALL: 8058794181. FORTUNE CARS: KARAULI: CALL: 8875001175/ 8875005132. HINDAUN: CALL: 9214794314 / 8875007758. SAPOTRA: CALL: 8875007757. AJMER: AJMER AUTO: CALL: 9314531845,7412066454,7412066451,9314955538,9314962548 KEKRI: CALL:9413653279,8000951013 SAWAR: CALL: 9829310828. NASIRABAD: CALL: 9314683010, 7568174107. PEESANGAN: CALL: 7412023397. VIJAYNAGAR: CALL:9460964962. KISHANGARH: CALL:9829510610. RELAN MOTORS NASIRABAD ROAD: CALL: 6376631227. BEAWAR: CALL: 9782244068. SARWAR: CALL: 9667509515, 9269502259. BANDANWARA: CALL: 6378095532 ,9929867890 MASUDA: CALL: 9462525053, 6375817344. MG MOTORS: ALWAR: CALL: 9001795515, 9001795517, 8003692651, 8003692652, 8003090466. BEHROR: CALL: 9001795502, 9001795514. RAJGARH: CALL: 8003692654. LAXMANGARH: CALL: 7073155548. 9116149699. RAMGARH: CALL: 9001795505, 8003090467. THANAGAZI: CALL: 7340662293. KHERLI: CALL: 8003090465. FORTUNE CARS: BHIWADI: CALL: 9214794316, 9214794332. NEEMRANA: CALL: 9214794323. KISHANGARHBAS: CALL: 9214794302. TAPUKARA: CALL: 9214094339. KOTKASIM: CALL: 8875005117. MUNDAWAR: CALL: 8875004363. BANSUR: CALL: 8875001547. KHAIRTHAL: CALL: 9214794312. TIJARA: CALL: 9214094507. HINDAUN: CALL: 9214794314 / 8875007758. KAROLI: CALL: 8875005142. NARAYANPUR: CALL: 9214094304. TODABHIM: CALL: 8875007757. SHAHJAHANPUR: CALL: 8875004361. SAPOTRA: CALL: 8875007757. T.M. MOTORS: BHARATPUR: CALL: 05644-220970, 226392, 9251423393, 9251423395, 8094000626. AURIC MOTORS: BIKANER: CALL: 0151-2251819, 9529251819, 9636045111. NOKHA: CALL: 8875009041. HANUMANGARH: CALL: 01552-223485, 9636045222. SANGARIA: CALL: 8003098518. RAWATSAR: CALL: 8875911529. SURATGARH: CALL: 01509-224228, 9636045444. NOHAR: CALL: 01555-220485, 8094003519. SRI GANGA NAGAR: CALL: 0154-2466225, 9636045333. VIJAINAGAR: CALL: 8094003518. SRI DUNGARGARH: CALL: 8003098509. RAISINGH NAGAR: CALL: 8003098519. ANOOPGARH: CALL: 8094003505. BHADRA: CALL: 8003098515. DUDI AUTOMOBILES: BIKANER: CALL: 0151-2942222, 0151 -3550418, 7412075151. PADAMPUR: CALL: 7412075151. LUNKARANSAR: CALL: 7412075129. SRI KOLAYAT: CALL: 7412075129. TRS CHURU: CALL: 8882899302. AURIC MOTORS: SRIGANGANAGAR: CALL: 8955559963. VIJAINAGAR: CALL: 8094003518. HANUMANGARH: CALL: 9636045222, 9982638509. SANGARIA: CALL: 8003098518. RAWATSAR: CALL: 8875911529. SURATGARH: CALL: 01509-224228, 9982638599. NOHAR: CALL: 01555-220485, 8094003519. BIKANER: CALL: 0151-2251819, 9636045111. ANOOPGARH: CALL: 8094003505. SRI DUNGARGARH: CALL: 8003098509. BHADRA: CALL: 8003098515. RAISINGH NAGAR: CALL: 8875911507. SRIKARANPUR: CALL: 8875911501. SANGARIA: CALL: 8875010576. TIBBI: CALL:8875012666. SUJANGARH: CALL: 8875009043, 8875009036. NOKHA: CALL: 8875009041. JAMU AUTOMOBILES: SIKAR: CALL: (01572) 245515 / 246219. NEEM KA THANA: CALL: 9785644715. FATEHPUR: CALL: 01571-231007/ 9694086541. SRIMADHOPUR: CALL: 9694086547. RAMGARH, TEHSIL DANTARAMGARH: CALL: 9694086548. AURIC MOTORS: JHUNJHUNU: CALL: 8955664400. NAWALGARH: CALL: 8875010548. MANDAWA: 8696543579. BISSU: CALL: 7230081692. MALSISAR: CALL: 8875010557. GUDHA: CALL: 8875009037. UDAIPURWATI: CALL: 8696543577. CHIRAWA: CALL: 8875009031/32, 8875010550. SINGHANA: CALL: 8875009033, 7230081678. PILANI: CALL: 8875009034. SUJANGARH: CALL: 8875009043. SARDARSHAHAR: CALL: 8875911524, 7230081674. RATANGARH: CALL: 8875010549, 8875012686, 7230003526. TARANAGAR: CALL: 7230016987. RAJGARH: CALL: 8875009049 / 7230016275. BIDASAR: CALL: 8875012682. TRS: CHURU: CALL: 8882899302. KOTA: BHATIA & COMPANY: CORPORATE OFFICE: 23-24, INDUSTRIAL ESTATE, KOTA: CALL: 7230006839, 9829818018, 9784598109, 9829099081, 9829045729, 9829187004. DAKANIYA: SHOWROOM: G-11-12, AUTOMOBILE ZONE NEAR DAKANIYA STATION: CALL: 9829045729, 9001997116, 9001997113, 9587898054. SUWALKA MOTORS PVT. LTD.: KUNHARI: CALL: 0744-2370272, 9116312345, 7300308888. SULTANPUR: CALL: 9116178527. BHAWANIMANDI: CALL: 9116178557. KHANPUR: CALL: 07430-299240, 8306333715. BHATIA & COMPANY: BARAN ROAD, ANTHA: CALL: 9001997112. BUNDI: CALL: 9799497009. HINDOLI: CALL: 9001997142. NAINWA: CALL: 9929112923. BARAN: CALL: 9799497088. JHALAWAR: CALL: 07432-234005, 9929097092. RAMGANJMANDI: CALL: 07459-223399, 9928997200. RAWAT BHATA: CALL: 9829187004. CHHABRA: CALL: 9001997114. ITAWA: CALL: 9829818018. KAPREN: CALL: 9928354540. SANGODH: CALL: 9928907200. AKLERA: CALL: 9928318018. JODHPUR: L.M.J. SERVICES LTD: INDUSTRIAL ESTATE, OPP. UDYOG BHAWAN, NEW POWERHOUSE ROAD: CALL: 8094011123, 8094011151, 0291- 2630478/79/80. BALOTRA: CALL: 8094011142, 8094017705. BARMER: CALL: 8094011135, 8094017719. SHEO: CALL: 8094011135. BILARA: CALL: 8094019882. BHOPALGARH: CALL: 8094009857, 8094011128. JAISALMER: CALL: 02992-203222, 8094011137. OSIAN: CALL: 8094019882. PIPAR: CALL: 8094019893, 8094011128. POKHRAN: CALL: 8094002631. SIWANA: CALL: 8094017705. LUNI: CALL: 8094017715. BAYTU: CALL: 8094011135. GUDAMALANI: CALL: 8094011135. CHANDAN: CALL: 8094011137. SUMERPUR: 8094017723, 8094011136. FALNA: 8094002640. SOJAT: 8094017722.MARWAR JUNCTION: 8094002640. RAIPUR: 8094017722. TIWARI: CALL: 8094019882. ASOP: CALL: 8094011128. JAITARAN: CALL: 8094010933. AURIC MOTORS PVT LIMITED: SARSWATI NAGAR, NEW PALI ROAD: CALL: 9015900500. BALESAR: CALL: 9015900500. BORUNDA: CALL: 9015900500. BAORI: CALL: 9015900500. AHORE: CALL: 9015900500. SAYLA: CALL: 9015900500. SHRI KRISHNA AUTO SALES PVT. LTD.: PRATAP NAGAR: CALL: 291 2762064/65 9929244412, 9929244403. JALORE: CALL: 9116137669, 9929244436. BHINMAL: CALL: 9680059999. SANCHORE: CALL: 9928568669. RANIWARA: CALL: 7340061247. PHALODI: CALL: 9929244412, 9119180984. MANGALAM MOTORS: NAGAUR: CALL: 9116008626, 9116008630. KUCHMAN CITY: CALL: 9649518518. DIDWANA: CALL: 7231912912. MAKRANA: CALL: 7231913913. LADNU: CALL: 7230055912. MERTA: CALL: 7230055965. DEGANA: CALL: 9116009562. PARBATSAR: 7230055941. L.M.J. SERVICES LTD.: PALI: CALL: 02932 - 256177, 8094011136. SUMERPUR: CALL: 8094017723, 8094011136. FALNA: CALL: 8094010932. JAITARAN: CALL: 8094010933. SOJAT: CALL: 8094017722. MARWAR JUNCTION: CALL: 8094017701. RAIPUR: CALL: 8094017722. AURIC MOTORS PVT LIMITED: AHORE: CALL: 9015900500. SAYLA: CALL: 9015900500. SHRI KRISHNA AUTO SALES PVT. LTD.: JALORE: CALL: 9929244436, 9116137669. BHINMAL: CALL: 9680059999, 9929244436. SANCHORE: CALL: 9929244436, 9928568669. RANIWARA: CALL: 7340061247, 9929244436. TECHNOY MOTORS: REVDAR: CALL: 9530396802. JAWAL: CALL: 9530396910. R- OUTLET: JAWAL: CALL: 9530396910. NAVNEET MOTORS: SIROHI: CALL: 02972-222917/ 18, 7665010638. ABUROAD: CALL: 02974-220090, 7665016624. UDAIPUR: TECHNOY MOTORS: GOVARDHAN VILLAS: 9982666809. FATEHNAGAR: CALL: 9530396817. SAGWARA: CALL: 02966-254767, 9982667899. BHINDER: CALL: 9530396848. REVDAR: CALL: 9024361043. KHERWARA: 9928426647. JHADOL: 9773379028. SABLA: 9724135470, 9773361078. JAWAL: 9530396910. R- OUTLET: GOGUNDA: CALL: 9983176396. RAJSMAND: CALL: 9251988284. NAVNEET MOTORS: MADRI: CALL: 0294-2494454, 9828059107. SHOBHAGPURA: CALL: 9829043600. SIROHI: CALL: 02972-222917/18, 7665010162. ABUROAD: CALL: 7230046383, 7665016624. DUNGARPUR: CALL: 7665001684. SALUMBER: CALL: 7665010649. PINDWARA: CALL: 7230019850. SHEOGANJ: CALL: 8387079113. SIMALWARA: CALL: 8769599339. BHATIA & COMPANY: PRATAPGARH: 01478- 220999, 9672685999. NAVNEET MOTORS: BANSWARA: CALL: 9414159145, 7665010625, 7665010628. DUNGARPUR: CALL: 7665001684. PARTAPUR: CALL: 7665010627, 9414159145. TECHNOY MOTORS: SAGWARA: CALL: 9982667899. SABLA: CALL: 9724135470, 9773361078. R- OUTLET: SABLA: CALL: 9724135470, 9521433138.. BHILWARA: BHATIA AND COMPANY: BHILWARA: CALL: 9119179090. 8306976777. 9928998999. CHITTORGARH: CALL: 9414130799, 9001791753, 9587208999, 9414179006, 9413316117. NIMBAHERA: CALL: 9772378667, 9413316799. PRATAPGARH: CALL: 9116665219, 9672683999. BEGUN: CALL: 9116652801, 9413316299. MANGALWAD: CALL: 9414038599. CHAMPION CARS: BHILWARA: CALL: 01482-267135, 9602892423, 7727863720. MANDALGARH: CALL: 9602892417. ASIND: CALL: 9602892432. BHARATPUR: TM MOTORS: BHARATPUR: CALL: 05644-220970, 226392, 9251423393, 9251423395, 8094000626. DHOLPUR: CALL: 8094777002, 8094519222. NAGAR: CALL: 8094777876, 8094000622.

*Terms & Conditions apply. Offers applicable on selected models. Car models and accessories shown may vary from the actual product. Images used are for illustration purposes only. Black glass shade on the vehicle is due to lighting effect. Car colour shown may vary from actual body colour due to printing on paper. **3 years or 100 000 km whichever is earlier. Applicable Terms and condition available at Maruti Suzuki Dealerships. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time without any advance notice. Offer valid for limited models and in select states only. Offers may vary subject to the model and variant purchased. Inclusive of offers available at the time invoicing.

विचार बिन्दु

निश्चंत मन, भरी थैली से अच्छा है। –अरबी कहावत

निवेश लाने की कवायद एक बार फिर क्या रंग लाएगी!

दीपावली का त्यौहारी मौसम चल रहा है। फ़ज़ाओं में उत्सव का माहौल है। घर और बाज़ार सज रहे हैं। सभी उत्सव के रंग से सराबोर हैं। अधिकांश लोगों के लिये यह माहौल आभासी होते हुए भी प्यारा है। प्रदेश की सरकार ने भी अपने लिये उत्सव का एक सबब खोज लिया है। अगले महीने आयोजित होने वाले निवेशकों के महासम्मेलन के लिये वह जो तैयारी कर रही है उसे ही, राइज़िंग राजस्थान कह कर, उसने उत्सव बना लिया है। इस वर्ष दिसंबर में जयपुर में 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024' के आयोजन की तैयारी के सिलसिले में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में टोलियां विदेशों की यात्राएं करके आई हैं। ऐसे प्रयास नये नहीं हैं। ऐसे कार्यक्रम पहले भी धूम-धाम से आयोजन किये जाते रहे हैं। विडंबना यह है कि इतने उद्यमों के बाद भी चाहा गया निवेश राजस्थान तक नहीं पहुंचता है। निवेश के लिये सम्मेलन होते और करोड़ों रुपयों के निवेश के लिये एमओयू होते और बाद में उनको फ़ाइलों में दफ़न होते सभी ने बार-बार देखा है। प्रदेश को उद्योगों तथा कारोबार का हब बनाने के अनेक बार देखे गये सपनों को फिर देखते हुए यह उद्यम फिर हो रहा है। रेडियो पर जयपुर विकास प्राधिकरण का एक विज्ञापन आता है जिसमें एक महिला कहती है कि सुनो जी, जयपुर में हम किसी अच्छी जगह पर प्लॉट क्यों नहीं खरीद लेते। वह ऐसे बोलती है जैसे कोई टॉफी खरीदनी हो। राज्य सरकार को भी शायद ऐसा ही लगता है कि किसी देशी-विदेशी निवेशक के लिये राजस्थान में पैसा लगाना कोई टॉफी खरीदने जैसा काम होगा। यह भ्रम पहले की सरकारों ने भी पाला हुआ था कि दुनिया भर से निवेशकों को जलसे में बुला कर अपनी टॉफी दिखाएंगे और निवेशक हमें मालामाल करने दौड़े चले आएंगे। पांच साल के लिये प्रदेश के नियंता बनने वाले राजनेताओं को कौन समझाए कि संभावित निवेशकों को प्रभावी ढंग से आकर्षित करने के लिए, प्रदेश के पास एक सुदृढ़ आधारभूत ढांचा, एक सुविचारित रणनीति तथा उसके लिये एक अच्छे प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने वाली प्रशासनिक मशीनरी जब अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हो तब हम किस प्रकार निवेशकों को पधारो म्हारे देस का न्योता दे सकते हैं, और वे इसे क्योंकर स्वीकार करेंगे? यह सवाल पूछा जाना माकूल होगा कि आखिर प्रचार-तंत्र के जरिए, वह भी राजकोष के पैसे से, किसे भ्रमित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है? बड़े निवेशक, जिन्हें चप्पे-चप्पे की जानकारी होती है, को आकर्षित करने का यदि कोई ख्वाब देखता है तो वह खुद ही मुगालते में है क्योंकि निवेश करने वाली बड़ी कंपनियां बहुत चतुर होती हैं जिन्हें सिर्फ अपने पैसे, अपने मुनाफे और अपनी सुविधा की चिंता होती है। वे खुद परेशान होने और परोपकार करने के लिये निवेश की मंज़िल नहीं तय करती। वास्तविकता तो यह है कि निवेश के लिये प्रयासों का ऐसा माहौल सत्तारूढ़ नेता आम नागरिकों में अपनी छवि चमकाने के इरादे से करते हैं। विदेश में निवेशकों के साथ दो-तीन दिन की मीटिंगें करके लौटने पर दो उंगलियों से वी फॉर विक्ट्री की आकृति बना कर खड़े नेता के बड़े-बड़े होर्डिंग और उनकी वापसी पर जश्न के आयोजनों के पीछे यही कहानी होती है। मगर ऐसा करने वाले यह भूल जाते हैं कि जिन नागरिकों को हर जगह अव्यवस्थाओं को रोज ही भुगतता पड़ता है उनके लिये यह प्रचार कोई मायने नहीं रखता।

राइज़िंग इंडिया की तर्ज़ पर राइज़िंग राजस्थान का जुमला उधार लेना ही बताता है कि आपके पास खुद की कोई दृष्टि नहीं है। ऐसे प्रचार के जुमले अधकचरी विज्ञापन और ईवेंट एजेंसियां कहीं से नकल करके लाती हैं जो सिर्फ उन अनपढ़ राजनेताओं को भ्रमित करने के लिये होते हैं जिनके दस्तखतों से प्रचार के बजट पास होते हैं। सच तो यह है कि चुनावों के बाद आने वाली प्रत्येक सरकार राजस्थान को देश में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हब के रूप में स्थापित करने की बातें करती रही है, मगर उसके लिये जरूरी व्यवस्था का आधारभूत ढांचा बनाने का ठोस प्रयास किसी ने नहीं किया क्योंकि ऐसा नारों से नहीं होता। उसके लिये लंबे समय तक धैर्य से काम करना पड़ता है, और पहले खुद निवेश करना पड़ता है। खुद का यह निवेश स्थानीय मानव संसाधन विकास पर होता है। ऐसा भी नहीं है कि इसे कैसे किया जाए इसकी समझ के लिये बाहर से निवेश लाने की जरूरत हो। हमारी पहली जरूरत है हमारी 80 प्रतिशत गरीब आबादी को अर्थव्यवस्था में भागीदार बनने के काबिल बनाना। इसके लिये शहरों और गावों में अच्छी तरह से काम करने वाली नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिनमें सभी को गुणवत्ता वाली शिक्षा देने और सभी के लिये चिकित्सा और स्वास्थ्य के इंतजाम हो। इसके लिये हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सारा दारोमदार कार्यपालिका पर है जिसने पेशेवर तरीके और ईमानदारी से काम करना कब का छोड़ दिया है। जिस प्रकार फ़र्जी तरीकों से इसमें घुस आए लोगों में से कुछ पेपर लीक प्रकरणों में पकड़े जा रहे हैं उससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस जमीन पर हम निवेश लाने की कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते हैं वह जमीन कितनी फिसलन भरी है। निवेश कोई लॉलीपॉप नहीं है और न निवेशक नन्हें बच्चे कि उसे दिखाई और वे भागे-भागे चले आएं। उनके सामने एक स्पष्ट वैल्यू प्रस्ताव और एक परिभाषित मॉडल लेकर जाना पड़ता है। निवेशक हमारी मदद के लिये नहीं आने वाले। उनका लोकसेवा का काम नहीं हैं। उनके लिये बाजार की मांग और अपने विस्तार की क्षमता महत्वपूर्ण होती है, जिसके आधार पर वे पेशकश को आंकते हैं और फैसले लेते हैं। वे ज़मीनी हक़ीकत जानते हैं और प्रचार तंत्र से दिखाई जा रही तस्वीर देख कर निर्णय नहीं लेते। वास्तव में उनमें से ही अनेक निवेशक प्रचार तंत्र के संस्थान खुद चलाते हैं और ज़न्नत की हक़ीकत जानते हैं। एक दो मीटिंगें या रोड शो कर लेने से निवेशकों को आकर्षित नहीं किया जा सकता और न उनका भरोसा जीता जा सकता है। मेहमान आने पर थोड़े समय के लिये एक सामान्य परिवार जिस प्रकार अपने घर का एक कमरा सजा लेता है वैसा निवेशकों को लुभाने के लिये नहीं किया जा सकता। असली चीज है ईमानदार कार्य-संस्कृति जो हम आजादी के इतने बरसों बाद भी नहीं बना पाए हैं। ऐसी चीजें खांचों में नहीं होती। उसके लिये पहले हमें अपने आप को पूरी तरह तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि निवेश आएंगे तो हम स्वत: ही तैयार होते चले जाएंगे। हमें जिस पहली चीज को याद रखना है वह है कि बिना मानव संसाधन को तैयार किए न प्रदेश का विकास हो सकता है और न निवेश आ सकता है। मानव संसाधन के विकास की पहली सीढ़ी है सबके लिये समान गुणवत्ता वाली शिक्षा। चीन इसी एक चीज पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर आज दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बना बैठा है।

> **एक दो मीटिंगें या रोड़ शो कर लेने से निवेशकों को आकर्षित नहीं किया जा सकता और न उनका भरोसा जीता जा सकता है। मेहमान आने पर थोड़े समय के लिये एक सामान्य परिवार जिस प्रकार अपने घर का एक कमरा सजा लेता है वैसा निवेशकों को लुभाने के लिये नहीं किया जा सकता। असली चीज है ईमानदार कार्य-संस्कृति जो हम आजादी के इतने बरसों बाद भी नहीं बना पाए हैं।**

प्रचार एजेंसियों द्वारा बनाये गये 'राइज़िंग राजस्थान' के रंगीन दस्तावेज़ में कहा गया है कि 2036 तक, इस प्रदेश का शहरी विस्तार कुल जनसंख्या वृद्धि का 73 प्रतिशत हिस्सा हो जाने की उम्मीद है। इस तेज़ शहरीकरण को समायोजित करने के लिए, और बढ़ती शहरी आबादी की बुनियादी ढांचे की मांगों को पूरा करने के लिए अगले 15 वर्षों में विशाल निवेश करने की आवश्यकता होगी। यहीं पर बड़ा पेच है। हम निवेशकों से अपनी बढ़ती शहरी आबादी को आधारभूत सुविधाएं दिलाने के लिये मदद चाहते हैं, मगर वे यहां दान-पुण्य करने को अथवा हमारी मदद करने को आने वाले नहीं हैं। यह बात पिछले दशकों के इसी पिटे-पिटाये रास्ते पर चलके कहीं न पहुंचने के बाद भी हमारे नीति और विधि निर्माताओं की समझ में नहीं या रही है। यह हमारी विडंबना है। राज्य सरकार की प्रस्तुति पूछती है कि निवेश के लिये राजस्थान ही क्यों? इसका जवाब वह खुद ही देती है कि राजस्थान में देश के कुछ सबसे बेहतरीन नियोजित शहर हैं। क्या सच में ऐसा है? राजधानी जयपुर के लिये एक टैग लाइन बनी थी कि नियोजन जहां परंपरा है। मगर इस नगर में एक की बजाय दो नगर निगम बना देने के बाद भी राजधानी का जैसा हाल बेहाल है वह भारी प्रचार तंत्र से ढांपने से नहीं छुप जाने वाला। राजस्थान के लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीरें बदली हैं और आज वे देश के नामी-गिरामी औद्योगिक और कारोबारी घराने बने बैठे हैं। लेकिन उनके पुरखों को अपनी धरती छोड़ कर बाहर जाना पड़ा और कमा कर वहीं निवेश करना पड़ा। अपने घर आए भी तो वे दान या परोपकार के लिये आए अथवा अपने सांस्कृतिक रिश्तों के कारण आए जो उनकी नई पीढ़ी के लिये शायद बहुत अधिक मायने नहीं रखते। इन्हीं में से एक बजाज घराने के प्रमुख ऐसे ही एक निवेशकों के जलसे में हमारे नेताओं के मुंह पर कह कर जा चुके हैं कि निवेशक आपकी नहीं अपनी जरूरतों के हिसाब से आयेगा। निवेश लाने की यह कवायद नये चुनावों के बाद हर बार होती रहती है। इस बार मुख्यमंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि अगले माह के निवेशकों के शिखर सम्मेलन में जो फैसले होंगे वे अगले चार वर्षों में धरती पर नज़र आएंगे। राजस्थान जैसे प्राचीन प्रदेश के वासियों के लिये चार साल कोई लंबी अवधि नहीं है। वे अपनी तक़दीर बदलने का इतना इंतजार तो कर ही लेंगे।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

शीर्ष विद्यालयों के बीच अंतर-विद्यालय तकनीकी प्रतियोगिता का आयोजन

यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (यूईएम), जयपुर/कोलकाता द्वारा झुंझुनू अकादमी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया गया

झुंझुनू में जिले के शीर्ष विद्यालयों के बीच सबसे बड़ी अंतर-विद्यालय तकनीकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

झुंझुनू। यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (UEM), जयपुर/कोलकाता द्वारा नरबदा भवन, झुंझुनू में जिले के शीर्ष विद्यालयों के बीच सबसे बड़ी अंतर विद्यालयीय तकनीकी प्रतियोगिता CONNECTECH (UEM तकनीकी बोनांजा) का आयोजन किया गया। अंतर-विद्यालयीय तकनीकी प्रतियोगिता CONNECTECH (UEM तकनीकी बोनांजा) कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (यूईएम), जयपुर के वाईस चांसलर प्रो. डॉ. बिस्वजॉय चटर्जी, रजिस्ट्रार डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा, कृशानु बनर्जी, सचिन पांडेय आदि ने माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया।

अंतर-विद्यालयीय तकनीकी प्रतियोगिता CONNECTECH (UEM तकनीकी बोनांजा) में ए.बी.एन. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री रानी सेइंग जी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिशु विद्या विहार स्कूल, ज्योति विद्यापीठ, रवीन्द्र पब्लिक स्कूल, झुंझुनू अकादमी, अरविंद पब्लिक स्कूल, ए.बी.एन. एसआर. माध्यमिक विद्यालय, एस.एस. मोदी विद्या विहार, रवीन्द्र पब्लिक स्कूल, जी. बी. मोदी पब्लिक स्कूल, आदि सहित झुंझुनू के अधिकतम टॉप स्कूलों से विज्ञान के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (यूईएम), जयपुर/कोलकाता द्वारा झुंझुनू अकादमी को अंतर-विद्यालयीय तकनीकी प्रतियोगिता CONNECTECH (UEM तकनीकी बोनांजा) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर चैंपियन स्कूल व जी.बी. मोदी पब्लिक स्कूल झुंझुनू को उपविजेता स्कूल वर्ष 2024 का ख़िताब देकर पुरस्कृत किया गया।

अंतर-विद्यालयीय तकनीकी प्रतियोगिता CONNECTECH (UEM तकनीकी बोनांजा) कार्यक्रम में छात्रों ने पांच स्पर्धाओं NIRMANA - विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता-कक्षा 9 से 12 तक, पाइथागोरस स्टार-मैथ्स टेस्ट-कक्षा 9 और कक्षा 10 तक, PYPHAGORAS - मैथ्स टेस्ट-कक्षा 11 और 12 तक, जिज्ञासा प्रतियोगिता कक्षा-11 से 12 तक व जनरल- क्विज प्रतियोगिता कक्षा 9 से 12 में भाग लिया। सभी प्रतियोगिताओं का परिणाम इस प्रकार रहा जिसमें प्रतियोगिता टेक कला में प्रथम पुरस्कार राधिका केडिया, ए.बी.एन. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वितीय पुरस्कार लताशा रोहिल्ला श्री रानी सेइंग जी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तीसरा पुरस्कार अप्सरा शिशु विद्या विहार स्कूल, वहीं पाइथागोरस प्रो में प्रथम पुरस्कार प्रिया चाहर झुंझुनू अकादमी, द्वितीय पुरस्कार सृष्टि खेतान जी. बी. मोदी पब्लिक स्कूल, तीसरा पुरस्कार महक जालान जी. बी. मोदी पब्लिक स्कूल, वहीं पाइथागोरस स्टार में प्रथम पुरस्कार अनन्या शर्मा जी. बी. मोदी पब्लिक स्कूल, द्वितीय पुरस्कार अरव सैनी ए.बी.एन. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तीसरा पुरस्कार जी. बी. मोदी पब्लिक स्कूल NIRMANA वहीं विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार सोहा अख्तर, वंशिका, कनिका, पायल अरविंद पब्लिक स्कूल, द्वितीय पुरस्कार सुधांशु जांगिड़ व मोक्ष स्वामी ए.बी.एन. एसआर. माध्यमिक विद्यालय, तीसरा पुरस्कार विनायक सैनी व गुरु अंश एस.एस. मोदी विद्या विहार, झुंझुनू, क्यूरियोसिटी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार इंद्रपाल रवीन्द्र पब्लिक स्कूल, द्वितीय पुरस्कार नंदिनी शर्मा झुंझुनू अकादमी, तीसरा पुरस्कार अयितेश झुंझुनू अकादमी। वहीं बायो ब्रिलियंस में प्रथम पुरस्कार देवप्रिया ज्योति विद्यापीठ, द्वितीय पुरस्कार हर्ष रवीन्द्र पब्लिक स्कूल, तीसरा पुरस्कार नकुल शर्मा को दिया गया। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (यूईएम), जयपुर/कोलकाता की और से नकद पुरस्कार के साथ-साथ योग्यता प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह तथा कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य छात्रों को भागीदारी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विश्विद्यालय के रविंद्र मांजू, ऋदय बनर्जी, शुभदीप घोष, पिनाकी करमाकर के अलावा एडमिशन विभाग के आशुतोष गौतम, विष्णु जगाका, महेश चौधरी, बाबूलाल शर्मा, अभिषेक शर्मा, शशि कांत मधुकर, श्याम प्रताप भी शामिल हुए साथ ही कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथिओं का यूनिवर्सिटी कुलपति प्रो. डॉ. बिस्वजॉय चटर्जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

आयुर्वेद डॉक्टर को 60 साल पर रिटायर करने पर हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया

आदेश की पालना नहीं करने पर आयुर्वेद विभाग के शासन उप सचिव को तलब किया

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आयुर्वेद विभाग के शासन उप सचिव सावन कुमार चायल को तलब किया और आदेशित किया कि आदेश की अवज्ञा और दुराग्रही कृत्य के लिए क्यों नहीं उसके खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही शुरू की जाएं। आयुर्वेद डॉक्टर को कोर्ट के आदेश के बावजूद 60 साल पर रिटायर कर देने पर हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया। रिट याचिका की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट न्यायाधीश फरजंद अली की एकलपीठ ने आदेश जारी किया है।

■ **राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेशित किया कि आदेश की अवज्ञा और दुराग्रही कृत्य के लिए क्यों नहीं उसके खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही शुरू की जाए**

डूंगरपुर निवासी डॉ. प्रवीण कुमार पांड्या की ओर से अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी और विनीता चांगल ने रिट याचिका दायर कर बताया कि याचिकाकर्ता आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है और आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 से 62 वर्ष करने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है तथा हॉल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश पुनर्विचार याचिका भी ख़ारिज कर दी है।

याचिकाकर्ता के अधिवार्षिकी आयु 60 साल 30 सिंतबर 2024 को पूरी होने से पूर्व ही उसने रिट याचिका दायर कर उसे 62 वर्ष से पूर्व रिटायर नहीं करने की गुहार लगाई, जिस पर हाइकोर्ट के एकलपीठ न्यायाधीश फरजंद अली ने निर्णय दिनांक 20 सितंबर 2024 से याची को 62 वर्ष से पूर्व रिटायर नहीं करने के आदेश दिए थे। बावजूद इस आदेश के, जानबूझकर निर्लज्ज अवज्ञा करते हुए और दुराग्रह से ग्रसित होकर आयुष विभाग के शासन उप सचिव ने 30 सितंबर 2024 को आदेश जारी कर याची को जबरन रिटायर कर दिया। उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, डूंगरपुर और निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर से निवेदन करने पर उनके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि कोर्ट के आदेश के वनिस्पत राज्य सरकार का आदेश मानना जरूरी होता है, इसलिए निवेदन करने के बावजूद और कोर्ट के आदेश का संज्ञान होने के बाद भी याची को 30 सितंबर 2024 को जानबूझकर रिटायर कर दिया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने पुन: नई रिट याचिका पेश कर आयुर्वेद विभाग के उप शासन सचिव को कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर याची को राजकीय सेवा में पुन: वापिस लेने की गुहार लगाई गई।

अधिवक्ता ख़िलेरी ने बताया कि आयुर्वेद विभाग के वर्तमान शासन उपसचिव जोकि राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के विशेष सहायक भी है की हठधर्मिता और दुराग्रहिता के कारण हाइकोर्ट द्वारा पारित किसी भी आदेश की पालना नहीं की जा रही है और जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का मख़ौल उड़ाया जा रहा है औऱ प्रत्येक आदेश की पालना के लिए अवमानना याचिकाएं दायर करनी पड़ रही हैं।

याचिकाकर्ता के तर्क और मामले की परिस्थितियां और आदेशों की निर्लज्ज अवज्ञा को देखते हुए हाइकोर्ट न्यायाधीश फरजंद अली की एकलपीठ ने प्रतिवादी संख्या 4 आयुष विभाग के शासन उप सचिव सावन कुमार चायल को अगली सुनवाई तारीख 18 नवंबर पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित रहने के निर्देश देते हुए यह कहा कि उसके खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही क्यों न शुरू की जाएं। साथ ही याचिकाकर्ता को अविलम्ब पुन: राजकीय सेवा में लेने का भी अंतरिम आदेश दिया।

7 साल के लड़के की बारात रवाना होने से पहले पहुंचा प्रशासन

श्रीगंगानगर, (निसं)। गोविंदपुरा/18 जीजी गांव में प्रशासनिक टीम ने बाल विवाह रुकवाया। इस कार्रवाई में ग्राम पंचायत के सरपंच की विशेष भूमिका रही है। दूल्हे की बारात गांव से रवाना होने वाली थी। तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान प्रशासनिक अमले ने पहुंचकर शादी में कानून का पेंच खड़ा कर दिया। दूल्हा बनाए गए लड़के की आयु शादी के तय नियमों के तहत नहीं थी। वहीं शादी को रुकवा दिया गया।

■ **प्रशासन ने परिवार के सदस्यों को लड़के की शादी 21 साल पूरी होने से पहले नहीं करने को लेकर पाबंद किया**

जानकारी के अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन को 1098 टोल फ्री नंबर पर रविवार को सूचना मिली थी। कॉलर ने बताया कि गांव 18 जीजी/गोविन्दपुरा में वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा एक लड़के का बाल विवाह किया जा रहा है। सूचना मिलने पर बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजीव जाखड़ के निर्देश पर चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक त्रिलोक वर्मा, राजस्व पटवारी रेणु गिरी, काउंसलर दीपक चौधरी, सदर थाना से ड्यूटी अधिकारी हैड कांस्टेबल सतवीर सिंह राठौड़, सिपाही संदीप कुमार एवं मनजीत सिंह शादी वाले घर पर पहुंचे। टीम जब मौके पर पहुंची तो बारात विजयनगर जाने के लिए तैयार थी। टीम द्वारा दूल्हे की आयु की जानकारी को परिवार से दस्तावेज मांगे गए। दूल्हे के माता-पिता ने आधार कार्ड एवं 10 वीं कक्षा की अंक तालिका को पेश किया। इनमें दूल्हे की जन्मतिथि 21 जून 2007 थी। इस हिसाब से दूल्हे की उम्र 17 साल और चार माह ही थी, जबकि लड़के की शादी की उम्र सरकार की ओर से कम से कम 21 साल तय की हुई है। इस पर परिवार के सदस्यों को लड़के की शादी 21 साल पूरी होने से पहले नहीं करने को पाबंद किया गया। मौका फर्द बनाकर परिवार व रिश्तेदारों के हस्ताक्षर करवाए गए। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जोगेंद्र कौशिक ने गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, साथिन और सदर पुलिस के एक कांस्टेबल को निगरानी के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के दौरान हलवाई व टैंट वाले को कानून की जानकारी दी, जबकि पंडित मौका पाकर फरार हो गये।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 23 अक्टूबर, 2024

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2081, पुनर्वसु नक्षत्र गुरूवार प्रात: 6:16 तक, शिव योग प्रात: 6:59 तक, विष्टि करण दिन 1:24 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:02 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरू-वृष, शुक्र-वृश्चिक, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग रात्रि 12:42 से प्रात: 6:16 तक है। भद्रा दिन 1:24 तक रहेगी। आज से राष्ट्रीय कार्तिक मास आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:13 तक, शुभ 10:47 से 12:11 तक, चर 2:59 से 4:23 तक, लाभ 4:23 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 4:35, सूर्यास्त 5:48

मेष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

वृष

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन

नौकरीपेशा व्यक्तियों को बाहर जाना पड़ सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

कर्क

व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। मन में असंतोष रहेगा। अनावश्यक समय खराब होगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी।

सिंह



आर्थिक/वित्तिय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कन्या

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

धनु

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

मकर

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 83 प्रभात जयपुर, बुधवार 23 अक्टूबर, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Jews Can Defend Themselves

The big change in the world for Jews has been the fact that Jews are no longer unable to defend themselves. For 2,000 years, Jews were always a minority.

Candy Leaf from Assam

Happy Da Dhabha @ Monarch

यू.ए.ई. ने राजस्थान के साथ तीन लाख करोड़ का एम.ओ.यू. किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यू.ए.ई. के निवेश मंत्री सुवैदी ने 60 गीगावॉट की सोलर, विंड व हाइब्रिड परियोजना फाइनल की

जयपुर, 22 अक्टूबर। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐतिहासिक एम.ओ.यू. पर मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यू.ए.ई. के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह निवेश प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए, एक दीर्घ अवधि की विद्युत परियोजना की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया। इस पहल के अंतर्गत यू.ए.ई. एक योग्य एवं सक्षम डेवलपर की नियुक्ति भी करेगा, जो प्रदेश में शासन-प्रशासन के स्तर पर समन्वय स्थापित कर परियोजना को तेजी से साकार रूप प्रदान करेगा।

- **इस परियोजना में अक्षय ऊर्जा से संबंधित आधुनिकतम तकनीक के उपयोग से दीर्घ अवधि विद्युत परियोजना स्थापित की जायेगी। यू.ए.ई. एक योग्य व सक्षम डवलपर नियुक्त करेगा जो राजस्थान में शासन व प्रशासन के स्तर पर समन्वय स्थापित रखेगा।**
- **संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा सरकारी फंड से तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा यू.ए.ई. के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी की उपस्थिति में राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐतिहासिक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए।

किया जाएगा।

यू.ए.ई. के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने इस एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक एम.ओ.यू. अक्षय ऊर्जा से संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट के तहत किए जा रहे प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में निवेश की विश्वसनीयता बढ़ी है। समिट के तहत, अब तक निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया जा रहा था। लेकिन अब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जे.पी.सी. की बैठक में बोतल फैंकी गई अध्यक्ष पर

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। वक़्फ़ बोर्ड के सम्बन्ध में मंगलवार को जे.पी.सी. की मीटिंग गर्मा-गर्मी तथा आक्रोश की स्थिति तक पहुँच गई।

उत्तेजनापूर्ण स्थिति में पहुँच गई मीटिंग में वस्तुत: खून भी बहा, बोतलें भी टूटीं, तू-तू मैं-मैं भी हुई तथा एक सांसद निलम्बित भी कर दिये गये।

टी.एम.सी. सांसद कल्याण बनर्जी जे.पी.सी. की अगली मीटिंग से निलम्बित कर दिये गये हैं क्योंकि उन्होंने

- **वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर गठित जे.पी.सी. की मीटिंग के दौरान तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी काफी उग्र हो गए और उन्होंने अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर बोतल फेंक दी। कल्याण बनर्जी को निलम्बित कर दिया गया है।**

जे.पी.सी. के चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर काँच की बोतल तक फैंक दी। ऐसा करने में कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट लग गई तथा खून बहने लगा।

दरअसल, पश्चिम बंगाल के एक भाजपा सांसद के साथ बनर्जी की उत्तेजनापूर्ण बहस हो गई थी, जिसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्रिक्स सम्मेलन में भारत छाया रहा

हालांकि चीन ने सम्मेलन को अमेरिका एवं पश्चिमी देश विरोधी बनाने की कोशिश की पर भारत एवं रूस ने ऐसा नहीं होने दिया

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। रूस के कज़ान शहर में आयोजित ब्रिक्स समिट को रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन द्वारा सबसे बड़े राजनयिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। गत वर्ष, पुतिन ब्रिक्स मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि इन्टरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया हुआ था।

प्रारंभ से ही ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशन्स के सदस्य के रूप में भारत का इसमें अग्रणी स्थान रहा है तथा जब कई देश, एक प्रमुख कूटनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत को पूर्ण कूटनीतिक समर्थन प्राप्त था। यू.एस. तथा कैनडा, दोनों ही सिख अलगावावादी की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता के आरोप लगाकर भारत को परेशान कर रहे थे।

- **रूस अभी उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका में ट्रम्प जीतकर आएंगे। इसके बाद ट्रम्प से दोस्ती अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में रूस को उसका उचित स्थान दिलाएगी।**
- **भारत के बढ़ते रूतबे ने भारत विरोधी देशों, कैनडा आदि को भी अपना राग बदलने को मजबूर कर दिया है।**

जहां, एक तरफ चीन के शी जिनपिंग ब्रिक्स के सम्मेलन को, अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ गठबंधन के रूप में पेश करना चाहते हैं, वहीं, पुतिन इसे "पश्चिम विरोधी गठबंधन" के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं।

ऐसा इसलिए, क्योंकि निकट भविष्य में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों से दो सप्ताह पहले पुतिन, डॉनल्ड ट्रम्प की जीत की उम्मीद को जीवित रखे हैं। यदि ऐसा होता है तो, पश्चिम में कई लोगों का मानना है कि, ब्लादिमिर पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठे होंगे।

यदि ट्रम्प जीतते हैं तो पुतिन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहते, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी को विश्वास है कि चुनाव के बाद जो भी सत्ता में आएगा, अमेरिका हमेशा की तरह अपना चीन विरोधी कार्ड खेलना जारी रखेगा। अत: चीन के राष्ट्रपति एक पूर्ण पश्चिम विरोधी गठबंधन पर जोर दे रहे हैं, जिसका नेतृत्व शी करना चाहते हैं।

झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच हुआ सीटों का बंटरवारा

जे.एम.एम. 41, कांग्रेस 29, राजद 9 और वामपंथी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। झारखण्ड में इण्डिया ब्लॉक का प्रमुख सहयोगी दल, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जे.एम.एम.) मुश्किल का सामना कर रहा है, क्योंकि, उसके गठबंधन पार्टनर सामर्थ्य से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि, राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग व्यवस्था को अंतिम रुप दे दिया गया है, जिसमें जे.एम.एम. के लिए 41 सीटें, कांग्रेस के लिए 29, आर.जे.डी. के लिए 9 तथा सी.पी.आई.एम.एल. के लिए 2 सीटें हैं। जे.एम.एम. ने 50 सीटों की अपनी पूर्व की मांग को कम कर दिया है, लेकिन लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं हुआ है।

आर.जे.डी. के मनोज झा के इस कथन से भारी वाद विवाद छिड़ गया कि

- **जे.एम.एम. पहले 50 सीटों पर लड़ने वाली थी पर सहयोगी दलों को एडजस्ट करने के लिए उसने 41 सीटों पर संतोष कर लिया।**
- **पर इससे भी कोई लाभ होता नहीं लग रहा, क्योंकि राजद के मनोज झा ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी 18 से कम सीटों पर नहीं मानेगी।**
- **इंडिया गठबंधन की इस तकरार से निस्संदेह राज्य में भाजपा को फायदा होगा।**

उनकी पार्टी 18 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। यदि ऐसा हुआ तो इण्डिया ब्लॉक का सीट शेयरिंग फार्मूला ठप्प हो जाएगा।

पूर्व में योजना यह थी कि जे.एम.एम. 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा तथा वाम पार्टियों को अपने कोटा में एडजस्ट करेगा और कांग्रेस, 31 सीटों के अपने कोटा में आर.जे.डी. को एडजस्ट करेगी। कांग्रेस, 29 सीटों के अपने संशोधित कोटा में आर.जे.डी. को समायोजित करने को राजी नहीं है, जबकि आर.जे.डी., जिसने गत विधानसभा चुनावों में केवल एक सीट जीती थी, ने आश्चर्यजनक रुप से बड़ा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बजरंग पूनिया किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन बने

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। पहलवान बजरंग पूनिया, जो हरियाणा विधानसभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस में शामिल हुए थे, को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है यह जानकारी किसान कांग्रेस के

- **ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा ने ए.आई.सी.सी. मुख्यालय में यह घोषणा की।**

अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा ने ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए दी।

इस दौरान ए.आई.सी.सी. महासचिव कुमारी सैलजा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री चौधरी बिरेन्दर सिंह और विनेश फोगाट भी मौजूद थे। कार्यक्रम में पूनिया व विनेश का फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया गया।

खैरा ने कहा कि पूनिया किसानों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सेबी चीफ माधबी पुरी बुच को केन्द्र सरकार ने क्लीन चिट दी

सरकारी सूत्रों ने कहा कि जांच में माधबी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ नहीं मिला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिये हैं कि सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच की जाँच-पड़ताल में उनके या उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया, तथा इसलिये उनके खिलाफ किसी कार्यवाही की योजना नहीं है। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि सेबी प्रमुख अपना कार्यकाल पूरा करेंगी।

सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे टी.वी. को बताया कि सिक्यूरिटीज़ एंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एस.ई.बी.आई.-सेबी) की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच पर लगाये गये आरोपों की जाँच-पड़ताल में कुछ भी दोषपूर्ण नहीं पाया गया है। सूत्रों ने कहा कि फरवरी, 2025 में समाप्त होने वाला अपना कार्यकाल पूरा करेंगी।

सूत्रों ने कहा कि जाँच कराया जाना तो इसलिये आवश्यक हो गया था,

- **सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा कि माधबी पर किसी भी किस्म की कार्यवाही की योजना नहीं है, वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, जो फरवरी 2025 में समाप्त हो रहा है।**
- **सेबी चीफ पर अमेरिकन शॉर्ट सैलर हिंडन बर्ग ने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, इसके बाद कांग्रेस ने माधबी बुच व उनके पति पर हितों के टकराव और वित्तीय दूराचरण तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।**

क्योंकि अमेरिकन शॉर्ट-सैलर हिन्डनबर्ग रिसर्च तथा कांग्रेस पार्टी ने सेबी-प्रमुख के खिलाफ हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्ट्रेस्ट) एवं वित्तीय दुराचरण के गम्भीर आरोप लगाये थे। सूत्रों ने कहा कि एजेंसियों से उक्त आरोपों की तह में जाने के लिये कहा गया था। इसके साथ ही, वित्त मंत्रालय ने भी इस मामले की जाँच शुरू कर दी थी।

कांग्रेस द्वारा लगाया गया एक प्राथमिक आरोप यह था कि बुच द्वारा किये गये रियल ऐस्टेट इन्वैस्टमेन्ट ट्रस्ट्स (आर.ई.आई.टी) के प्रमोशन से एक वैश्विक निवेश फर्म "ब्लैकस्टोन" का लाभ पहुँचा था तथा इस फर्म से सेबी प्रमुख के पति जुड़े हुये थे। विपक्ष ने उन पर यह आरोप लगाया था कि सेबी चेयरपर्सन के रूप में, उन्होंने "ब्लैक स्टोन" को लाभ पहुँचाने के लिये अपने पद का दुरूपयोग किया था। लेकिन आर.ई.आई.टी. सर्व प्रथम 2007 में प्रस्तावित की गई थी तथा उस समय यू.पी.ए. की सत्ता थी।

2016 में, सेबी ने मानकों का सैट जारी किया था। बुच 1 मार्च 2022 को, अजय त्यागी के बाद, सेबी की चेयरपर्सन नियुक्त हुई थीं।

सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे टी.वी. को बताया कि जहाँ बुच को ऐसे महत्वपूर्ण सुधार लागू करने का श्रेय जाता है जिनसे "ब्लैक स्टोन" सहित, विभिन्न ग्लोबल प्लेयर्स प्रभावित हुये थे। सूत्रों ने बुच पर लगाये गये आरोपों को राजनीति-प्रेरित तथा आधारहीन बताया।

बुच पर लगाया गया दूसरा आरोप यह था कि उन्होंने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में अपनी पूर्ववर्ती सेवा से प्राप्त आय को उजागर नहीं किया। यह दावा किया गया था कि उन्होंने बैंक से प्राप्त धनराशि की जानकारी सही तरीके से नहीं दी थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपभोक्ता आयोग ने आई.सी.आई.सी. आई. बैंक की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिये

जयपुर, 22 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता आयोग, क्रम-4 ने आयोग के आदेश के बावजूद, परिवादी को बीमा क्लेम के 9.50 लाख रुपए का ब्याज सहित भुगतान नहीं करने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने विपक्षी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक

- **परिवादी को बीमा क्लेम की 9.50 लाख रुपये की राशि मय ब्याज अदा करने के अदालती आदेश की क्रियान्विति नहीं करने के कारण अहिंसा सर्किल स्थित आई.सी.आई.सी. आई. बैंक की चल-अचल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिये गये।**

की अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम स्थित चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार सैनी और सदस्य अशोक शर्मा ने जिला कलेक्टर को वसूली के लिए पत्रावली भेजने को कहा है। आयोग ने यह आदेश वंदना बोहरा के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिवसेना-कांग्रेस सीट बंटवारे में देरी से अफवाहें फैलीं

महाराष्ट्र में सत्तारुढ़ गठबन्धन के नजदीकी न्यूज चैनलों ने उक्त अफवाहों को हवा दी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। महाराष्ट्र के आसन्न विधानसभा चुनावों के लिये कांग्रेस और शिव सेना (यू.बी.टी.) के बीच सीट -शेयरिंग को लेकर गतिरोध बना हुआ है तथा भाजपा इसका फायदा उठा रही है। सत्तारुढ़ गठबंधन -समर्थक कुछ समाचार चैनल कांग्रेस सूत्रों का हवाला देते हुये ऐसी अफवाहें प्रचालित-प्रसारित कर रहे हैं कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा शिव सेना प्रवक्ता संजय राउत के बीच कोई मीटिंग हुई है।

जहाँ राउत ने ऐसी किसी भी मीटिंग का खंडन किया है, लेकिन ये समाचार चैनल बड़े दावे के साथ जनता में सन्देह पैदा करने में लगे हुये हैं।

इस बीच, आसन्न महाराष्ट्र चुनावों के

- **एक "अफवाह" के अनुसार केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के बीच बैठक हुई। संजय राउत ने ऐसी किसी भी बैठक से इन्कार किया, पर न्यूज़ चैनल बाद में भी बैठक की न्यूज़ ही चलाते रहे।**
- **शरद पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने उत्साह के साथ कहा कि सीटों का गतिरोध जल्दी खत्म हो जाएगा। विवाद वाली सीटें अधिक नहीं हैं। हम जल्द ही उन्हें निपटा लेंगे।**

लिये सीट -शेयरिंग को लेकर महा विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) के अन्दरुनी मतभेदों का समाधान करने की कोशिश के तहत, राज्य के कांग्रेस नेताओं ने आज नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.-एस.सी.पी.) प्रमुख शरद पवार के साथ मीटिंग की।

मीटिंग के बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने आशावादी स्वर में कहा, "गतिरोध का समाधान शीघ्र ही हो जायेगा। (जिन सीटों पर मतभेद हैं), उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। ....हमारे पास समय है। ... हम यह सब जल्दी ही कर लेंगे।"

थोराट का यह उस वक्त आया है, क्योंकि एम.वी.ए. पार्टनरों- शिव सेना (यू.बी.टी.), कांग्रेस तथा एन.सी.पी. (एस.सी.पी.) के बीच सीट-वितरण को लेकर तनाव बना हुआ है।

रिपोर्टों के अनुसार, एम.वी.ए. गठबन्धन के पार्टनरों, खास तौर से कांग्रेस एवं शिव सेना (यू.बी.टी.) के बीच, सीट- शेयरिंग वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया है क्योंकि दोनों ही दल प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों पर दोनों ही पार्टियों को मान्य आधार ढूंढने के लिये संघर्षरत हैं।

पवार के साथ हुई मीटिंग के बाद, थोराट ने कहा कि वे अगली मीटिंग शिव सेना (यू.बी.टी.) प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ करेंगे। उन्होंने कहा, "अब मैं वहीं जा रहा हूँ।"

हाल ही के दिनों में, असहमतियाँ जोरदार तरीके से उभर कर आई हैं। इस बीच, शिव सेना (यू.बी.टी.) नेता संजय राउत ने सोमवार को दृढ़तापूर्वक कहा कि गठबन्धनों के अन्दर समझौत आवश्यक हुआ करते हैं।

मुम्बई में पत्रकारों से बात करते हुये, राउत ने कहा, "हम लोग सालों से राजनीति में हैं, हर पार्टी यह महसूस करती है कि उसके कार्यकर्ता प्रत्याशी बनाये जाने चाहिये। .....लेकिन यह एक गठबन्धन है। (गठबन्धन में) हर पार्टी को कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं तथा कदम पीछे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय गृह सचिव और सी.आर.पी. एफ. के डी.जी. को अवमानना नोटिस

जयपुर, 22 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद सिपाही को सेवा परिलाभ नहीं देने पर केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार और सी.आर.पी.एफ. के डी.जी. अनीस दयाल सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि उनकी ओर से अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की गई। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश सतीश कुमार की अवमानना याचिका

- **राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद सिपाही को सेवा परिलाभ नहीं देने के कारण अवमानना नोटिस जारी किये।**

पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अवमानना याचिका में अधिवक्ता एल.के. शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता को सी.आर.पी.एफ. के सिपाही पद से हटा दिया गया था। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गत वर्ष 16 मई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को समस्त सेवा परिलाभ के साथ पुन: सेवा में लेने के आदेश दिए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हमारी पार्टी में कहीं कोई बगावत नहीं है : मदन राठौड़

जयपुर। प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इनमें से भाजपा ने 6 सीटों पर अपनी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। टिकट वितरण के साथ ही पार्टी में बगावत भी खुलकर सामने आई है। झुंझुनूं, रामगढ़ और सलूंबर, देवली उनियारा सहित अन्य विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बगावती तेवर दिखाए। पार्टी में उठी बगावत को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन पहले सलूंबर से बागी तेवर दिखा रहे नरेंद्र मीणा से मुख्यमंत्री ने मुलाकात करके उनकी नाराजगी को दूर किया, तो अब झुंझुनूं और रामगढ़ सीट को लेकर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सभी एकजुट

■ **'सभी एकजुट हैं और संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे'**

हैं और सातों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। राठौड़ ने इसके साथ कांग्रेस के आरोपों पर भी पलटवार किया।

बागियों से मान-मनौव्वल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हमारी पार्टी में कहीं कोई बगावत नहीं है। सभी एकजुट हैं और संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे। सभी सातों सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा। राठौड़ ने कहा कि कई बार टिकट की उम्मीद होती है, लेकिन जब टिकट नहीं मिलता है तो थोड़ी बहुत निराशा और नाराजगी होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की बात सामने आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं, इसलिए "मैं सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में कहीं पर भी किसी भी सीट पर कोई बगावत नहीं है। सभी सातों सीटों पर हम मजबूत हैं, एकजुट हैं और तय मान कर चलिए कि हम सभी सातों सीट जीतने जा रहे हैं।" मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों से उनकी कमजोरी साफ तरीके से झलक रही है। हमारी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार घोषित होना बाकी है, उसकी भी जल्द घोषणा जो जाएगी, लेकिन कांग्रेस तो अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा ही नहीं कर पा रही है। कांग्रेस में अंतरकलह इस कदर है कि उनके किसी भी एक सीट पर भी आपसी सहमति नहीं बन रही है। इसलिए कांग्रेस हम पर बयानबाजी करने की बजाय अपनी पार्टी को संभालें। कांग्रेस हमसे क्या सवाल कर रही है, हम तो हमारी सभी तैयारी पूरी करके बैठे हैं। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा की ओर कांग्रेस नेताओं के इशारे पर हो रहे काम वाले बयान पर मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार सबका ध्यान रखकर काम करती है। कानून सम्मत व्यवहार करती है। किसी को अगर कहीं कुछ लगा है तो वह अपनी बात को समझाएं और बताएं, हम उस पर भी ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे विधायक गोपाल शर्मा की बात है तो वह गंभीर हैं, समझदार हैं, हो सकता है उनके कुछ कहने सुनने में कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन सबका सम्मान है। सत्ता और संगठन में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक ऐसा हुआ या हो सकता है तो यह सब काल्पनिक बात है। यह यदि वाला शब्द है, यह काल्पनिक सवाल है।

सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव कराने की मांग

जयपुर। राष्ट्रीय सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न प्रतिनिधियों ने पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से उनके आवास पर भेंट कर अपनी मांगों को रखा। सरपंचों ने कहा कि आज तक की एफ एफ सी एवं एस एफ सी तथा मनरेगा की राशि पंचायत को हस्तांतरित की जाए। सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी का सरपंच समर्थन करते हैं परंतु सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही चुनाव कराए जाएं तथा जिनका कार्यकाल जनवरी माह में साफ हो रहा है उनका कार्यकाल 6 माह बढ़ाया जाए। कोटेशन की सीमा बढ़कर 10 लाख की जाए एवं कार्य को पोर्टल पर प्रदर्शित करने का आदेश निकल जाए। पंचायती राज मंत्री मदन रावत ने सरपंचों की मांगों को सुनने के बाद सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने और बकाया पैसे दीपावली से पूर्व स्थानांतरित करने तथा एफ एफ सी का पैसा भी पंचायत को दीपावली के तुरंत बाद हस्तांतरित करने का आश्वासन दिया।

दिपावली मेले का आयोजन 21 से 27 अक्टूबर तक

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) ग्रामीण विकास विभाग के तहत आयोजित दीपावली मेले का ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने निरीक्षण किया।

जयपुर। ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) ग्रामीण विकास विभाग के तहत आयोजित दीपावली मेले का उद्घाटन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में फीता काटकर एवं गणपति जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। गुहा ने मेले में आयी महिला सदस्यों से स्टॉल्स पर प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी ली एवं हस्तनिर्मित समस्त उत्पादों को सराहा।

दीपावली मेले का आयोजन 21 से 27 अक्टूबर तक प्रातः 11 से रात्रि 9 बजे तक इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान परिसर, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस दीपावली मेले में विभिन्न जिलों की संस्कृति, परिधान, भाषा एवं पारंपरिक उत्पादों का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। राजस्थान के ब्लू पोटरी, कोटा डोरिया, लोहे के सामान, रोज प्रोडक्ट्स, लाख की चूड़ियां, आचार, नमकीन, मंगोड़ी, पापड़, टेरा कोटा, जूट के उत्पाद, बाजरे के उत्पाद, सांगानेरी प्रिंट, कैर सांगरी, कसूरी मेथी, पेपर प्रोडक्ट्स, तीर कमान, सॉफ्ट टॉयज, राजस्थानी जूतियाँ मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही मेले में आने वाले आमजन फूड जोन में राजस्थानी व्यंजन का लुफ्त उठा सकेंगे।

इस दीपावली मेले में प्रदेश के समस्त जिलों से 65 स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य, अपने उत्पादों को प्रदर्शित एवं विक्रय का कार्य कर रही है। यह दीपावली मेला ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनकी आय में वृद्धि के लिए एक प्रमुख पहल है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा।

इस अवसर पर विभाग के सचिव आशुतोष ए टी पेडणेकर, परियोजना निदेशक अजय कुमार आर्य, सुनील दत्तात्रेय उपस्थित रहे।

निष्ठा से राज्य सेवाओं की प्रतिष्ठा बढाये : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्य लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों का आव्हान किया है कि वे ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करके राज्य सेवाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाये। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता और संतुष्टि का आधार भी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य निर्वहन ही है। देवनानी मंगलवार को यहां विधान सभा में राज्य लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। विधान सभा अध्यक्ष ने प्रत्येक प्रशिक्षु अधिकारी का परिचय लिया। देवनानी ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को राज्य सेवा में चयन होने की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा लोकतंत्र का पवित्र स्थल है। सदन में चर्चा होने के पश्चात ही यहां बजट पारित होता है। उन्होंने कहा कि विधान सभा नियमों, विनियमों और श्रेष्ठ परम्पराओं से चलती है। देवनानी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है।

विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के. के. शर्मा, उप सचिव संजीव शर्मा और वितीय सलाहकार अपूर्व जोशी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं नियमों के बारे में जानकारी दी।

वेटरिनरी कॉलेज के अस्पताल को रेफरल के रूप में काम करना चाहिए : डॉ.समित शर्मा

जयपुर। "पशु चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य में सुधार की संभावनाएं" विषय पर मंगलवार को शासन सचिवालय के मुख्य सभागार में सेमिनार आयोजित हुआ। बतौर मुख्य अतिथि, पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि सभी वेटरिनरी कॉलेज को उत्कृष्टता का केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

डॉ.शर्मा ने कहा कि पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी काम कर रहे हैं परंतु अभी भी सुधार की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। हमें अपने पशु चिकित्सा शिक्षा के संस्थान देश में अव्वल स्थान पर लाने के लिए प्रयास करने होंगे। ग्रेडिंग के पहले 10 स्थानों में राजस्थान के पशु चिकित्सा शिक्षा संस्थान आएं इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं हम उनका अधिक से अधिक और बेहतर उपयोग करें।

उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सभी कॉलेज अपने विद्यार्थियों को सम्मानपूर्वक डिग्री देने के लिए समारोह आयोजित करें, विद्यार्थियों के सभी दस्तावेज डिजी लॉकर में रखें, सप्ताह के अंत में पढ़ाए गए विषयों का मूल्यांकन

शासन सचिवालय के मुख्य सभागार में आयोजित सेमीनार में पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा मौजूद रहे।

करें, पढ़ाए जाने वाले विषयों की जानकारी विद्यार्थियों को पूर्व में दें, कॉलेज में इनडोर ऑपरेशन करने का प्रयास करें।

विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉ. उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि हमारा काम केवल पशु चिकित्सक तैयार करना नहीं है बल्कि उनके अंदर संवेदनशीलता विकसित करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक होना भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने सभी निजी और सरकारी कॉलेजों को 31 मार्च तक फैकल्टी पूरी करने को कहा। डॉ. शर्मा ने कहा कि जिस तरह से देश में पशुओं पर कई घातक बीमारियां अटैक करती रहती हैं उसके लिए जरूरी है कि डिजीज सर्विलांस सिस्टम को और हाईटेक बनाया जाए। मानव स्वास्थ्य पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों का समन्वय करते हुए वन हेल्थ मिशन चलाया जाए।

सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए राजूवास के उपकुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्षेत्र में काम कर रहे पशु चिकित्सा अधिकारियों और शिक्षा संस्थानों के बीच अच्छा तालमेल होना भी आवश्यक है। इस अवसर पर पशुपालन निदेशक डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ नवाचारों को भी स्थान देना होगा। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर कुशलता के साथ अच्छा आउटपुट देंगे और विभाग को नई ऊचाईयों तक ले जाएंगे। सेमिनार में राजस्थान के सभी पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं ने अपने अपने कॉलेज के कार्यक्रमों और भावी कार्ययोजना की प्रस्तुति दी। सेमिनार का समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ।

भ्रष्टाचार से जुड़े केस में आरोप पत्र पेश

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत में एसीबी ने जेडीए जोन-9 में भ्रष्टाचार से जुडे मामले में आरोपी तहसीलदार लक्ष्मीकांत गुप्ता, पटवारी श्रीराम शर्मा, गिरदावर रविकांत शर्मा, जेईएन खेमराज, विमला, दलाल महेश चन्द्र मीणा सहित विमला के पति महेश के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। आरोप पत्र में एसीबी ने आरोपियों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए हैं। वहीं अदालत ने दलाल महेश चन्द्र मीणा की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है।

इंदिरा महिला शब्द हटाना भाजपा सरकार की संकीर्ण मानसिकता : जूली

जयपुर। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी 7 योजनाओं के नाम बदलने पर आपत्ति करते हुए राज्य की भाजपा सरकार की कड़ी निंदा की है। जूली ने कहा कि युग निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से कांग्रेस शासन के समय से संचालित इन जनकल्याणकारी योजनाओं से इंदिरा महिला शब्द हटाना भाजपा की संकीर्ण मानसिकता का घोतक है।

जूली ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि योजना की घोषणा की थी। जिसे अब मौजूदा सरकार ने बदल दिया है। भजनलाल सरकार ने इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना सहित इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र योजना के भी नाम बदले हैं। इसी तरह इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम के अलावा इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना का भी नाम बदल दिया गया है। जूली ने कहा कि ये सभी योजनाएं महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। इनके नाम में से महिला शब्द विलोपित करना भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता

■ **नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इतिहास प्रसिद्ध महिलाओं के नाम से नयी योजनाएं शुरू करते, लेकिन भाजपा को महान् नेता इंदिरा गांधी के नाम से चुभन है**

को दर्शाता है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूरे विश्व में युगांतरकारी नेता के रूप में जानी जाती हैं। वे भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही हैं और उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये हैं। ऐसी महान् नेता का नाम विलोपित करके भाजपा सरकार ने अपनी पार्टी की नकारात्मक राजनीति को प्रदर्शित किया है।

बार कौंसिल सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों का कार्यकाल बढाने और इस संबंध में बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से नियम 32 में किए गए संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर बीसीआई और बीसीआर से जवाब तलब किया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम बिहारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

■ **हाईकोर्ट ने बीसीआई व बीसीआर से मांगा जवाब**

याचिका में अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अदालत को बताया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के 25 सदस्य के लिए 28 मार्च 2018 को चुनाव हुए और 17 जुलाई, 2018 को परिणाम घोषित किया गया। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 8 के तहत बार कौंसिल सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का था। इन सदस्यों का कार्यकाल 16 जुलाई 2023 को खत्म हो गया। वहीं बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के निवेदन पर बीसीआई ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड के आधार पर कार्यकाल छह माह के लिए बढा दिया। यह बढी हुई अवधि भी 16 जनवरी 2024 को खत्म हो गई है। इस दौरान ही बीसीआई ने 23 जून 2023 को अपने प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल्स के नियम 32 में संशोधन कर प्रावधान किया कि यदि वकीलों का सत्यापन करने या मतदाता सूची बनाने में देरी होती है तो 18 माह में सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर अगले छह माह में नए चुना कराए जाएंगे और इस दौरान कौंसिल सदस्य पद पर बने रहेंगे। इस प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा गया कि धारा 32 में किए गए संशोधन अधिवक्ता अधिनियम की धारा 8 और 8ए के विपरीत है। क्योंकि धारा 8 स्पष्ट करती है कि सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल पांच साल व इसके बाद 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। वहीं इस दौरान चुनाव नहीं होने पर धारा 8ए के तहत कमेटी गठन कर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। दूसरी ओर नियमों में संशोधन कर इस अवधि को दो साल या उससे अधिक बढाने का प्रावधान किया गया है। याचिका में गुहार की गई है कि धारा 32 में किए गए संशोधन को अवैध घोषित कर रद्द किए जाए। वहीं कमेटी गठित कर कौंसिल के चुनाव कराए जाए और 16 जनवरी, 2024 के बाद कौंसिल की ओर से लिए गए निर्णयों को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने बीसीआई और बीसीआर से जवाब तलब किया है।

शेखावत की जयंती आज

जयपुर। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एंव राज्य के मुख्य रहे स्व. भैरोंसिंह शेखावत की 101वीं जयंती 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। भैरोंसिंह शेखावत स्मृति संस्थान के तत्वावधान में जयपुर के विद्याधर नगर स्थित भैरोंसिंह शेखावत स्मृति स्थल पर प्रति वर्ष की तरह पुष्पांजलि एंव प्रार्थना सभा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

संस्थान के सचिव अभिमन्यु सिंह राजवी ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे।

याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा मेडिकल ऑफिसर भर्ती का परीक्षा परिणाम

जयपुर। हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती-2024 परीक्षा में अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं देने से जुडे मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। वहीं भर्ती के परीक्षा परिणाम को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का निर्देश दिया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस जीआर मीना की खंडपीठ ने यह निर्देश डॉ. नितेश डागर व अन्य की याचिका पर दिया।

मामले से जुडे अधिवक्ता नितेश ने बताया कि आरयूएचएस ने 9 सितंबर 2024 को भर्ती विज्ञापन जारी कर मेडिकल ऑफिसर के 1220 पदों के लिए आवेदन मांगे। वहीं इस भर्ती में राज्य सरकार व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य अनुभव रखने वाले डॉक्टर्स को इसके लिए बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा। जबकि राज्य सरकार की सभी अन्य मेडिकल प्रोफेशनल यानि आयुर्वेद डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर एवं फार्मासिस्ट की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को उनके संविदा कार्य अनुभव के अधिकतम 30 बोनस अंक दिए जा रहे हैं।

गोबरधन योजना में कार्बन क्रेडिट की पहली किश्त जारी

जयपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोबरधन योजना के अन्तर्गत आ रहे क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए राजस्थान राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने भीलवाड़ा में लागू की जा रही गोबरधन योजना के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोबर उठाने वाली महिलाएं अब कार्बन क्रेडिट जमा कर अतिरिक्त आय पैदा कर रही हैं और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि देश में कार्बन क्रेडिट

■ **केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने की आर.सी.डी.एफ. की सराहना**

के मुद्रीकरण के लिये डेयरी क्षेत्र में प्रथम बार की गई इस प्रकार की पहल दुग्ध उत्पादकों के लिये अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि गोबरधन योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादको को चुल्हे के लिये गैस, खेत के लिये खाद और कार्बन क्रेडिट के रुप में अतिरिक्त आय मिल रही है।

अमित शाह मंगलवार को आणंद में एनडीडीबी के टी.के. पटेल सभागार में एनडीडीबी के हीरक जयन्ती वर्ष और श्री त्रिभुवन दास पटेल की जयन्ती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद से बोल रहे थे।

उन्होंने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज और भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी माया देवी कुमावत को कार्बन क्रेडिट का चैक भेंट किया। आरसीडीएफ

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आणंद में एनडीडीबी के टी.के. पटेल सभागार में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज और भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी माया देवी कुमावत को कार्बन क्रेडिट का चैक भेंट किया।

की एमडी भारद्वाज ने राजस्थान राज्य के लाखों दुग्ध उत्पादकों की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनकी अच्छी सेहत की कामना भी की। इस अवसर पर केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, केन्द्रीय पशुपालन राज्यमंत्री डॉ.एस.पी. सिंह बघेल, गुजरात के पशुपालन एवं गोपालन मंत्री राघव भाई पटेल, सहकारिता राज्यमंत्री जगदीश विश्वकर्मा, केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी सचिव अलका उपाध्याय और एनडीडीबी के चैयरमेन डॉ. मीनेश शाह भी उपस्थित थे।

फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि एनडीडीबी के सहयोग से भीलवाड़ा दुग्ध में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से छोटी क्षमता के बॉयोगेस संयंत्र लगवाये गये है। इन बॉयोगेस संयंत्रों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों की रसोई गैस की जरुरत के साथ-साथ खेतों के लिये उच्च गुणवत्ता का जैविक खाद भी उपलब्ध हो जाता है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़कर बॉयोगेस प्लान्टों के माध्यम से मिथेन उत्सर्जन द्वारा कार्बन क्रेडिट्स अर्जित किये जा सकते हैं, जिसके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। इसी कार्बन क्रेडिट के एवज में आज केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा भीलवाड़ा के दुग्ध उत्पादकों को पहली किश्त दी गई है। उन्होंने कहा कि राईजिंग राजस्थान के दौरान भी आरसीडीएफ द्वारा अपने सहयोगी एनडीडीबी और सुजुकी आर एण्ड डी सेंटर इण्डिया के बीच एक कम्प्रेस्ट बॉयोगेस संयंत्र स्थापित करने के लिये साझेदारी की जावेगी जो सतत् उर्जा को बढ़ायेगा। उन्होंने कहा कि राज्यभर में 10 हजार से अधिक फलैक्सी बॉयोगेस संयंत्र लगाकर दुग्ध उत्पादकों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित की जावेगी।

भारद्वाज ने राजस्थान राज्य के सभी दुग्ध उत्पादकों को आश्वस्त किया है कि दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिये आरसीडीएफ काम कर रहा है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

अनिल कुमार पुत्र कमलसिंह, कमलसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह एवं विनोद कुमारी पत्नी सुमेरसिंह (सिरोही गृहनिर्माण सहकारी समिति, बालाजी नगर स्कीम, हरसोली) प्लॉट नंबर- 27, 28, 29, 31, 32 , 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49 एवं अनिलकुमार कुमार पुत्र कमलसिंह (जानकी विहार स्कीम, रामगड्डा) प्लॉट नंबर ए-44, 25 नाम के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, कुल 17 प्लॉटों का मूलपट्टा, रसीद एवं साइडप्लान-गोविन्द नगर, दादीका फाटक से निवारू रोड के बीच कहीं गिर गए। मिलने पर सूचित करें- 7027402509

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पति स्व. कैलाश चंद मीना पुत्र बंशी लाल का निधन दिनांक 03.04.2024 को हो चुका है। जिनके नाम एक गाड़ी मारुति सुजुकी सेलेरियो रजि. नं. आर.जे.25सीबी2981 है। जिसे मैं अपने नाम करवाना चाहती हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अन्दर जिला परिवहन कार्यालय सवाई माधोपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
यशोदा देवी पत्नी कैलाश चंद
ग्राम धमून खुर्द, जिला सवाई माधोपुर

प्ररूप-5 (नियम 6 (2) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिका मण्डल जोबनेर जयपुर
सं. 1308 **लोक सूचना** दिनांक-22.10.2024
श्री हंसराज खटीक पुत्र श्री भैरूराम, निवासी ज्वाला नगर जोबनेर ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर पालिका पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।
जिले सहित नगर का नाम-माच्छरखानी-जोबनेर जिला-जयपुर, ग्राम का नाम-माच्छरखानी तहसील जोबनेर जिला-जयपुर, खसरा नं.- 1975/1539, क्षेत्र-10227.52 वर्गमीटर को आवासीय
इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22.10.2024 को जारी की गयी।
प्राधिकारी अधिकारी
(अधिशाषी अधिकारी) नगर पालिका जोबनेर

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से उप मुख्य बिजली इंजीनियर (निर्माण), उत्तर-पश्चिम रेलवे, जोधपुर निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा (खुली निविदा दोहरी पैकेट पद्धति) आमंत्रित करते हैं। **निविदा सूचना संख्या:** ELC-LUNI-SMR-BLDI24-25T06, **कार्य का नाम स्थान सहित:** Design, Supply, Erection, Testing and commissioning of Railway Electrification work of 2x25Kv High Rise OHE system in LUNI-SMR-BLDI section of Jodhpur Division, NWR in connection with doubling work, **कार्य की अनुमानित लागत:** रुपये 2515752372.40, **जमा की जाने वाली बयाना राशि:** रूपये 10000000.00, **ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय:** 18.11.2024 को 15.00 बजे तक, **वेबसाईट का विवरण, जहां पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती हैं:** www.ireps.gov.in, **कार्यालय ई-मेल का पता:** dyceecju@gmail.com. (No. ELC-LUNI-SMR-BLDI24-25T06, dated 18.10.2024) E-file No. 1226-PS/24

आम-सूचना मेरे ऑफिस करीम नगर विस्तार खोह नागोरियान, जयपुर से मेरे व मेरे पत्नी के नाम के प्लाट नम्बर 1 व 2 करीम नगर विस्तार खोह नागोरियान, जयपुर के असल पट्टे, नक्शे व रसीदे तथा मेरे खाता संख्या 675505111027 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के डी.डी नम्बर 3050, 3052, 3049, दिनांकित-14.05.2018, ई.ओ. नगर पालिका आबू रोड़ सिरोही, डी.डी. नम्बर 2840, 2847, 2842, 2844, 2838, 2849, 2845, 2839, 2846, 2843 व 2848, दिनांकित 24.04.2018, ई.ओ. नगर पालिका रतन नगर चुरू, डी.डी. नम्बर 5898, दिनांकित 03.06.2024, नगर पालिका बिदासर, डी.डी. नम्बर 5896, दिनांकित 03.06.2024, एमडीआरआईएसएल, डी.डी. नम्बर 3075, दिनांकित 25.05.2018, नगर पालिका पाली, डी.डी. नम्बर 6043, दिनांकित 15.06.2020, नगर पालिका परबतसर, डी.डी. नम्बर 0769, 0776, 0781, 0770 दिनांकित 13.08.2021, नगर पालिका महवा, डी.डी. नम्बर 2345, दिनांकित 12.01.2023, नगर पालिका नगर, डी.डी. नम्बर 3676, दिनांकित 06.03.2023, नगर पालिका बसेडी, डी.डी. नम्बर 7122, दिनांकित 20.03.2023, नगर पालिका सीकर, डी.डी. नम्बर 8228, दिनांकित 31.12.2023, नगर पालिका बस्सी, डी.डी. नम्बर 7684, दिनांकित 27.03.2023, नगर पालिका मंगरोल, डी.डी. नम्बर 8270, दिनांकित 06.02.2024, नगर पालिका महीपुरबा व मेरे भतीजे की फर्म मै.ए. जी. एन्टरप्राईजेज के डी.डी. नम्बर 7566, दिनांकित 06.03.2024, नगर पालिका बसेडी, डी.डी. नम्बर 0750, 0749, 0751, 0747, 0741, 0753, 0743, 0748, 0752, दिनांकित 12.08.2021, नगर पालिका महवा, डी.डी. नम्बर 502029, दिनांकित 05.10.2023, नगर पालिका थानागाजी, डी.डी. नम्बर 1085, दिनांकित 12.01.2023, नगर पालिका सीकरी, डी.डी. नम्बर 3131, दिनांकित 20.03.2023, नगर पालिका सीकरी, डी.डी. नम्बर 9521, दिनांकित 26.09.2023, नगर पालिका वैर, डी.डी. नम्बर 1084, दिनांकित 12.01.2023, नगर पालिका नगर के गुम हो गये हैं। मिलने पर सूचित करे।
सईद अहमद, मो.-9351604671

आम सूचना **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**
क्रमांक : जविप्रा/जोन-9/2024/डी-8248 दिनांक: 22.10.2024
जयपुर विकास प्राधिकरण की 200 फीट सैक्टर सडक हेतु समर्पित भूमि के बदले विकसित भूमि के आवंटन के बदले जविप्रा की योजना टीलावाला के भूखण्ड संख्या ए-32 क्षेत्रफल 162.00 व.मी. एवं भूखण्ड संख्या ए-40 क्षेत्रफल 162.00 व.मी. की जविप्रा द्वारा लीजडीड श्री गोपाल, कन्हैया पुत्रान श्री छाजू के नाम से जारी की गयी है। तत्पश्चात उक्त प्रार्थीगण गोपाल, कन्हैया द्वारा भूखण्ड संख्या ए-32 एवं ए-40 का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06. 01.2023 के द्वारा श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री गंगाशरण शर्मा एवं मुकेश शर्मा पुत्र स्व. श्री घीसा लाल शर्मा को कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्डों का प्रार्थी को कब्जा नही मिलने के कारण जविप्रा द्वारा उक्त दोनो भूखण्डों के बदले जविप्रा की योजना महल विस्तार जी ब्लॉक मे भूखण्ड संख्या जी-6 क्षेत्रफल 340.00 वर्ग मीटर का आवंटन पत्र दिनांक 06.10.2023 श्री गोपाल, कन्हैया पुत्रान श्री छाजू के नाम से जारी कर दिया गया। खातेदारों को जारी आरक्षण पत्र मे शेष रही व्यावसायिक भूमि 77.50 मी. का बेचान श्री गोपाल पुत्र छाजू द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.01.23 के द्वारा श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री घीसा लाल शर्मा को कर दिया गया एवं 77.50 व.मी. भूमि का बेचान खातेदार श्री कन्हैया पुत्र श्री छाजू द्वारा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.01.23 के द्वारा श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री गंगाशरण शर्मा को कर दिया गया। क्रेतागण द्वारा उक्त व्यावसायिक कुल भूमि 155.00 व.मी. की दुगुनी आवासीय भूमि 310.00 के बदले जविप्रा की योजना महल विस्तार जी ब्लॉक में भूखण्ड संख्या जी-10 क्षेत्रफल 295.00 वर्ग मीटर का आवंटन पत्र श्री गोपाल, कन्हैया पुत्रान श्री छाजू के नाम जारी किया जा चुका है परन्तु खातेदार गोपाल, कन्हैया द्वारा उक्त व्यावसायिक भूमि का बेचान पूर्व मे ही दिनांक 06.01.2023 को श्री सीताराम शर्मा एवं श्री मुकेश शर्मा को कर दिया गया। श्री सीताराम शर्मा एवं मुकेश शर्मा द्वारा जविप्रा मे उक्त भूखण्डों का स्वामित्व / नाम हस्तान्तरण किये जाने से पुनः जविप्रा द्वारा आवंटन श्री गोपाल, कन्हैया पुत्रान श्री छाजू के नाम से जारी कर दिया गया है। वर्तमान में क्रेता श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री गंगाशरण शर्मा एवं श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री घीसा लाल शर्मा द्वारा उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्रार्थीगण को भूखण्ड संख्या जी-6 एवं जी-10 योजना महल विस्तार जी ब्लॉक का पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध मे कार्यवाही की जानी है। इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो [illegible]

नाम परिवर्तन

मैं रोडा पिता नाथू निवासी-194 भोईवाडा दांतीसर उदयपुर राजस्थान-313703 मैंने मेरा नाम बदलकर रोड़ी लाल भोई पिता का नाम नाथूलाल भोई रख लिया है तथा मेरी जन्म दिनांक पूर्व में 01.01.1968 से अब मेरी जन्म दिनांक 15.06.1969 रखा है और भविष्य में मेरे को इसी नाम से जाना जायेगा।

मैं बिजेन्द्र सिंह जावट पता-166 गोविन्द नगर, वैशाली नगर, जयपुर-302021, अपना नाम बदलकर बिजेन्द्र सिंह जाटव से बिजेन्द्र सिंह रख लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें।

गिरीश कोठारी तथा गिरीश कुमार कोठारी दोनों मेरे स्वयं के ही नाम है। निवासी-246, विड्सर अपार्टमेंट एफ-2, श्री गोपाल नगर, गणेश कॉलोनी, महेश नगर, जयपुर। भविष्य में मुझे गिरीश कोठारी पुत्र श्री आनंद राज कोठारी के नाम से जाना पहचाना जावें।

I service no 13899876A Ex NK/TS yogesh kumar S/o Shiv Ram Sharma R/o Plot No. 6 annu vihar 132 kv power house ke samne sirsi road jaipur that have changed my mother name from Mayawati Devi is wrong entered in service record to Maya Devi (DOB 01.01.1947) vide affidavit dated 18 Oct.2024 before district notary Jaipur.

जे.डी.ए. द्वारा अजमेर रोड पर एक सप्ताह पहले बनाई गई सड़क के सैंपल फेल हुए

2 वर्ष पुराने वर्क ऑर्डर पर जोन-7 के इंजीनियर्स ने पिछले सप्ताह बनवायी थी यह सड़क

जयपुर (कासं)। अजमेर रोड पर पुलिस कमिश्नरेट के सामने से जे.डी.ए. के जोन-7 द्वारा बनाई गई नई डामर सड़क तथा सोडाला में बिछाई गई मैस्टिक डामर के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल हो गए हैं। यह रोड पिछले दिनों ही जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-7 के इंजीनियर्स ने बनायी है। दोनों जगहों पर सैम्पल में ना तो सड़क पर डामर की मोटाई सही मिली और न ही बिछाई गई बिटुमिन में डामर की मात्रा सही मिली। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या जेडीए कमिश्नर आनंदी की चेतावनी का इंजीनियर्स पर कोई असर नहीं है? क्योंकि उन्होंने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले इंजीनियर्स की बैठक लेकर चेतावनी दी थी कि घटिया काम किया और शिकायत मिली तो किसी को बख्शा नहीं जायेगा। लेकिन अब ठेकेदारों व इंजीनियर्स के गठजोड़ के कारण जिस तरह से घटिया सड़कें बन रही है, उससे जे.डी.ए. प्रशासन की साख की किरकिरी हो रही है। इसके बावजूद भी दोषी इंजीनियर्स पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

ताज्जुब की बात तो यह है कि जोन-7 के अधिशाषी अभियंता तरूण सिंघल ने पहले तो 2 वर्ष पुराने वर्क ऑर्डर पर अजमेर रोड पर डामर बिछाने का काम कराया। जबकि यह सड़क पूर्व में अच्छी-खासी स्थिति में थी। पूर्व जेडीए कमिश्नर मंजू राजपाल के कार्यकाल में जब अच्छी सड़क पर डामर डालने का मामला सामने आया था तो उन्होंने काम रूकवा दिया था। परंतु जैसे ही जे.डी.ए. में आयुक्त बदली तो जोन-7 के इंजीनियर्स ने 7 करोड़ की रिकार्पेटिंग का यह काम पुन: शुरू कर दिया।

करीब 5-6 दिन पहले जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-7 ने पुलिस कमिश्नरेट के सामने से लेकर अजमेर रोड पर सड़क निर्माण शुरू कराया था। यह सड़क पहले ही बेहतर थी,

कुछ खड्डे थे जिन्हें पेचवर्क से टीक किया जा सकता था। यहां के इंजीनियर्स ने पेचवर्क नहीं करा कर इस पर नए सिरे से डामर करा दी थी। डामर भी इतनी खराब थी की वह सड़क पर बिछाते ही बिखर रही थी। इसके अलावा सड़क पर बिछाई गई डामर की मात्रा भी कम थी। यह काम आरएम कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था, जिसने यह काम लटाला कंस्ट्रक्शन को सबलेट कर दिया था। दो साल पहले वर्क आर्डर दिया गया था जिसका समय भी खत्म हो चुका था।

ज्ञात रहे कि जे.डी.ए. ने अजमेर रोड पर सड़क वर्ष 2014 में बनाई थी। इसके बाद 2017 में फिर 6 करोड़ के काम की "ए एंड एफ" (वित्तीय स्वीकृति) जारी करा ली थी। उस समय सड़क की बेहतर हालत थी। इस कारण तत्कालीन जेडीसी गौरव गोयल और मंजू राजपाल ने सड़क की अच्छी स्थिति देखते हुए यहां काम कराने की मंजूरी नहीं दी थी। जेडीए के इंजीनियर्स की कमेटी ने भी सड़क को अच्छी हालत में बताते हुए सिर्फ पेचवर्क कराने की सिफारिश की थी। इन सबके बाद अब जब नई जेडीसी आनंदी आई तो इंजीनियर्स ने मौका देख कर सड़क को रिनोवेट करा लिया। इसी तरह सोडाला अजमेर रोड, क्वींस रोड तिराहे पर ट्रेफिक जंक्शन में सुधार के बहाने सड़क पर मेस्टिक वाली डामर बिछाई गई, लेकिन इसकी भी गुणवत्ता खराब थी।

डामर-बिटुमिन कंक्रीट की मोटाई कम मिली

सूत्रों की मानें तो जेडीए के गुणवत्ता प्रकोष्ठ ने पुलिस कमिश्नरेट के सामने अजमेर रोड से एलीवेटेड रोड तक की गुणवत्ता जांच की थी। संबंधित एक्सईएन तरूण सिंघल को मौके पर बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए। इसके बाद जब इसकी जांच निजी लैब में कराई गई तो सड़क पर बिछाई गई डामर की मोटाई 20 एम.एम. से भी कम मिली जबकि यह मात्रा 35 से 40 प्रतिशत तक होनी चाहिए। इसी तरह बिटुमिन कंक्रीट में डामर की मात्रा लगभग 3.5 प्रतिशत ही मिली,

■ **पिछले दिनों अभियांत्रिकी निदेशक अजय गर्ग ने भी मौका निरीक्षण के बाद अधिशाषी अभियंता से मांगी थी रिपोर्ट**

जबकि डामर की मात्रा 5 प्रतिशत होनी चाहिए। इसी तरह सोडाला अजमेर रोड पर की गई मेस्टिक की मोटाई भी 18 प्रतिशत से भी कम मिली, जबकि यह 25 प्रतिशत होनी चाहिए। पिछले दिनों अभियांत्रिकी निदेशक अजय गर्ग ने भी मौका निरीक्षण के बाद अधिशाषी अभियंता तरूण सिंघल से रिपोर्ट मांगी थी।

छह महीने भी नहीं टिकेगी यह सड़क

एमएनआईटी के एक्सपर्ट के मुताबिक पुलिस कमिश्नरेट के सामने बनाई गई सड़क की मोटाई 20 एम.एम. से भी कम मिली है तो यह सड़क छह महीने भी नहीं चल पाएगी। यहां पर दिन-रात हैवी ट्रेफिक गुजरता है। रोजाना गुजरने वाले वाहनों के भार से सड़क बैठ सकती है, क्योंकि इसमें डामर की मात्रा काफी कम है।

> **अजमेर रोड पर सड़क निर्माण के सैंपल फेल होने की गुणवत्ता प्रकोष्ठ की जांच रिपोर्ट अभी तक मुझे नहीं मिली है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकूंगा।**
>
> देवेन्द्र गुप्ता, निदेशक
> इंजीनियरिंग, जेडीए

झोटवाड़ा में हॉलमार्किंग सेंटर पर कार्रवाई

जयपुर। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को जयपुर में बीआईएस हॉलमार्क के दुरुपयोग की सूचना मिलने पर झोटवाड़ा स्थित मैसर्स श्री सालासर बालाजी हॉलमार्किंग सेंटर, दुकान नं-5,6, 798/1286, सहकार नगर पर कार्रवाई की। इस दौरान सेंटर पर पुरानी हॉलमार्किंग वाले सोने के आभूषण पाए गए। यह भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 2016 की धारा 14 और 15 का उल्लंघन है और इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

सोने के ज़ेवरातों की खरीदी करते समय ग्राहकों को पूर्ण हॉल्मार्क को जेवरात पर जांच लेना चाहिए। भारत सरकार के आदेशनुसार बिना हॉल्मार्क या गलत हॉल्मार्क के साथ जेवरातों को बेचना कानूनन जुर्म है। सही हॉल्मार्क में बी.आई.एस. का लोगो, कैरट में शुद्धता और एचयूआईडी कोड (6 अंकीय ऐल्फनूमेरिक कोड) होना आवश्यक है। कोड (6 अंकीय ऐल्फनूमेरिक कोड) को बीआईएस केयर एप के माध्यम से सत्यापित कर जेवरात पर हॉलमार्किंग की प्रामाणिकता जान सकते हैं।

'प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे'

जयपुर। राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत आयोजित हो रहे एमएसएमई कॉन्क्लेव के लिए लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने संगठन को आयोजन में सहभागी बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आभार जताया। जयपुर में लघु उद्योग भारती राजस्थान प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने बताया कि इस समिट के माध्यम से देश और विदेश से निवेश के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, उनसे प्रदेश में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे।

सार-समाचार

स्व. रतन टाटा की याद में रक्तदान

जयपुर। रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन द्वारा जयपुर की विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर 10 रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को गाँधी नगर मोड स्थित आकृति लैब्स में आठवाँ रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में अब तक 1000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है। खास बात यह रही कि शिविर में 80 प्रतिशत महिलाओं का योगदान था। रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन के अध्यक्ष दिनेश बज ने बताया कि इन 10 रक्तदान शिविरों में कुल 3000 यूनिट रक्त इकठ्ठा करने का लक्ष्य रखा है। यह शिविर देश के महान उद्योगपति स्व. रतन टाटा को समर्पित किए गए हैं। मंगलवार को शिविर में मुख्य अतिथि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर रश्मि शर्मा ने स्वर्गीय रतन टाटा को रत्नांजलि अर्पित कर युवा रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन किया। शिविरों में अब तक करीब 1000 युवाओं ने रक्तदान कर दिया। दिनेश बज ने बताया कि 23 अक्टूबर को इस महा आयोजन का आखिरी व सबसे बड़ा रक्तदान शिविर होगा। इस महा आयोजन में रोटेरियन दिनेश बज, भारत भूषण जैन, संजय अग्रवाल, चिन्मय जैन, अजय जैन, रश्मिकांत सोनी, नरेंद्र मित्तल , नीरज काला और अमित अग्रवाल ने वॉलिंटियर के तौर पर बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और शिविर के दौरान सभी व्यवस्थाओं में अपनी सेवायें प्रदान की।

सहकार मेले में शिवकाशी के पटाखे

जयपुर। सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने मंगलवार को यहां भवानी सिंह रोड स्थित नवजीवन सहकारी बाजार में उपभोक्ता संघ के उपहार सहकार दीपोत्सव मेले का विधिवत शुभारम्भ किया। यह मेला 30 अक्टूबर तक प्रात: 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारिता गुणवत्ता का प्रतीक है। आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकार दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को गुणवतापूर्ण वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संघ की अपनी एक विशेष साख है और उत्पादों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। श्रीमती राजपाल ने कहा कि सहकारिता विभाग सहकार से समृद्धि की दिशा में कार्य करता है और लोकल के प्रति वोकल पर हमारा खास फोकस रहता है। मेले का मुख्य आकर्षण शिवकाशी (तमिलनाडू) के ग्रीन पटाखे हैं, जिन पर 65 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। मंजू राजपाल ने कहा कि मेले में डिमांड के अनुरूप पटाखों की उपलबधता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेले के प्रति लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारा प्रयास है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक बिक्री हो। राजपाल ने मेले में लगी सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि मेले में एमएमटीसी के चांदी के सिक्के भी उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार ने अधिकारियों से व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और मेले में सुरक्षा एवं अग्निशमन संबंधी व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए। उपभोक्ता संघ की प्रबंध संचालक शिल्पी पांडे ने बताया कि उपहार दीपोत्सव मेले में जयपुरवासियों के लिए खुले व गिफ्ट पैक में ग्रीन पटाखे, बर्तन, सजावटी फ्लावर, डिजाइनदार कैन्डल्स, बेडशीट्स के साथ ही पूजन सामग्री भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

लिपिका साहित्य संगम की काव्य गोष्ठी

जयपुर। लिपिका साहित्य संगम द्वारा जयपुर के दुर्गापुरा में स्थित एक निजी होटल में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कवियों व रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। यहां हास्य एवं श्रृंगार कवि पारस (हिंडौन सिटी), गीतकार अरविंद अधर (दिल्ली), हास्य कवि रौशु रौशन (देवघर), ओज कवि वैरागी महाकाल (लखनऊ), कवि रामाश्रित, शायर कौशल कामरा, शायर संदीप चराग, राष्ट्रीय ओज कवि रणदीप राहुल, विक्की चौधरी,महेंद्र मेघवंशी, अभिषेक सैनी, मुग्धा, निर्भय चौहान , सोनाली खत्री, सुधांशु पांडे, अविनाश स्वामी, राधेश्याम कुमावत, असीम राज, अर्चना सहाय, जयंत, वीरू योगी, कबीर यश आदि ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार हुकुम सिंह ने की। मुख्य अतिथि लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता देवेन्द्र जोशी थे। लिपिका साहित्य संगम प्रबंधकों का कहना है कि युवा कवियों को मंच देने का यह कार्यक्रम इसी प्रकार से निरंतर जारी रहेगा।

खेल मंत्री ने किया रक्षित को सम्मानित

जयपुर। युवा मामलात व खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पीएचईडी स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ी रक्षित कायथ को सम्मानित किया। रक्षित ने हांगकांग में आयोजित 15वीं एशियन ड्रेगन बोट (वॉटर स्पोर्ट्स) प्रतियोगता में भाग लिया और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर राजस्थान जयपुर का नाम रोशन कर पदक जीता। इस मौके पर खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, पीएचईडी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत व सचिव महेश कायथ ने रक्षित को पदक जीतने पर पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

बोरोसिल का ग्लास प्रोडक्शन प्लांट शुरू

जयपुर। भारत के प्रमुख ग्लासवेयर ब्रांड, बोरोसिल लिमिटेड ने जयपुर में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की है। यह यूनिट देश की पहली बोरोसिलिकेट ग्लास फर्नेस है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत स्थापित की गई यह यूनिट बोरोसिल के मिशन को दर्शाती है, जो कि भारत के ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले ग्लासवेयर की बढ़ती माँग को पूरा करने पर आधारित है। बोरोसिल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, श्रीवर खेरुका ने बताया कि नए प्लांट में बोरोसिलिकेट और ओपल ग्लास प्रोडक्ट्स की एक विविध रेंज की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिसमें टेबलवेयर, स्टोरेज सॉल्यूशंस, बेकवेयर और सर्विंग आइटम्स शामिल हैं। यह प्लांट प्रति वर्ष 9,125 मीट्रिक टन बोरोसिलिकेट ग्लास और 30,660 मीट्रिक टन ओपल ग्लास की उत्पादन क्षमता से लैस है। इस प्लांट से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 2 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनमें 25 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं भी हैं।

दस्तावेज सत्यापन का आखिरी मौका

जयपुर। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की संगणक भर्ती परीक्षा-2023 में अब तक दस्तावेज सत्यापन से अनुपस्थित रहे अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी बुधवार को सत्यापन के लिए अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा में अनन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर में 23 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक सत्यापित किए गए थे। अब तक सत्यापन से अनुपस्थित रहे अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 23 अक्टूबर को दस्तावेज प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है।

'केडिया सेजस्थान' में कोठी खरीदने के लिए उमड़ी भीड़

जयपुर (कासं)। 'केडिया सेजस्थान' आवास योजना में कोठी खरीदने के लिए लोगों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। केडिया ग्रुप का कहना है कि इस दिवाली 'केडिया सेजस्थान' में महा दिवाली मनेगी, क्योंकि दीपावली के बाद 15 लाख रेट बढ़ेगी, इससे अभी कोठी खरीदने वाले लोगों को 15 लाख रु. का महा-लाभ होगा।

ऐसे में दीपावली से पूर्व अपना मकान खरीदने के लिए लोगो की भारी भीड़ 'केडिया सेजस्थान' प्रोजेक्ट को देखने उमड़ रही है। साथ ही लोग पुष्य नक्षत्र और धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर बुकिंग करने के लिए अपनी यूनिट रिजर्व्ड करवा कर जा रहे हैं, क्योंकि केडिया सेजस्थान में अब गिनती की कुछ ही कोठी बची हैं। दिवाली के बाद यह कोठी लाखों में नहीं एक करोड़ रु. में मिलेगी।

केडिया ग्रुप का यह प्रोजेक्ट जयपुर में अजमेर रोड पर स्थित है। यहाँ 2-3 वॉक-अप अपार्टमेंट और 3-4 बीएचके कोठियां उपलब्ध हैं। वॉक-

■ **केडिया ग्रुप का कहना है कि, इस प्रोजेक्ट वॉकअप अपार्टमेंट व कोठी की कीमतें दीपावली के बाद 15 लाख रु. बढ़ेंगी, इसलिए पुष्य नक्षत्र और धनतेरस पर बुकिंग के लिए लोग अपनी यूनिट्स रिजर्व करवा रहे हैं।**

अप अपार्टमेंट्स की कीमतें 63.45 लाख से शुरू हैं, जबकि कोठियों की कीमतें 84.60 लाख से आरंभ हैं, जो कि दिवाली बाद करीब एक करोड़ रु. की बेची जाएंगी। इस टाउनशिप में 60 विश्वस्तरीय सुख-सुविधाएं होंगी, जो एक शानदार जीवनशैली का अनुभव कराएगी। रिसोर्ट जैसा खुलेपन का अनुभव देने वाले इन घरों में आराम और लग्ज़री का अद्वितीय मेल मिलेगा। यहाँ की कोठी और फ्लैट्स दोनों तरफ से खुले हैं।

कम मापतौल पर 89 फर्मों पर कार्रवाई

जयपुर। खाद्य-नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान में दूसरे दिन में प्रदेशभर में 89 फर्मों पर कार्रवाई गई। जिनमें में डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 13 फर्मों पर तथा 56 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये गये। टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाकर 1 लाख 84 हजार रु. का जुर्माना लगाया है। जयपुर में कौशल किशोर गुप्ता के पर्यवेक्षण में नेशनल स्टोर अनाज मंडी मालपुरा गेट सांगानेर पर कार्यवाही करते हुए 29 कांटे जब्त किए गए। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है।

नगर निगम में भाजपा के पोस्टर पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई

जयपुर। जयपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मुख्यालय में भाजपा सदस्यता अभियान का पोस्टर चस्पा होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि एक सरकारी कार्यालय में एक राजनीतिक दल के सदस्यता अभियान का पोस्टर चस्पा होना अनुचित है। भाजपा प्रदेश में सत्ताधारी दल है और नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर भी भाजपा से हैं। इस तरह भाजपा और महापौर दोनों मिलकर सत्ता का दुरूपयोग कर रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर के प्रशासन को महापौर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दोनों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए।

राजीव चौधरी ने कहा कि भाजपा की सत्ता का दुरूपयोग करने की पुरानी आदत रही है और इसने एक बार फिर जयपुर नगर निगम का भाजपाईकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कार्यालय के भीतर किसी राजनीतिक दल का पोस्टर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन महापौर ने यह जानबूझकर किया है ताकि निगम मुख्यालय में अपनी समस्याएं लेकर

आने वाली जनता पर दबाव बनाया जा सके। समाज के गरीब, कमजोर, मजदूर वर्ग पर दबाव बनाकर भाजपा अपने सदस्य बना सके। इस समय भाजपा का सदस्यता अभियान विफल हो गया है और लोग भाजपा से जुड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में भाजपा कई हथकंडे अपना कर अपने बोगस सदस्य बनाना चाहती है। राजीव चौधरी ने कहा कि यही स्थिति रही तो जयपुर के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों, सरकारी बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी भाजपा जबरन सदस्य बनाने का प्रयास करेगी।

465 ग्राम स्मैक के साथ जयपुर में तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन "क्लीन स्वीप" के तहत ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक तस्कर फैसल कुरैशी, शरीफ उर्फ टेम्पू एवं समीर खान को गिरफ्तार कर उनके पास से 465 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक एवं बिक्री राशि 17 लाख 31 हजार 210 रुपये बरामद किए है।

पुलिस ने बताया कि आरोपित स्मैक अकलेरा झालवाड़ से लाकर जयपुर शहर में सप्लाई करते है। आरोपितों से जब्त की गई मादक पदार्थ स्मैक की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीएसटी ने ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले तस्कर फैसल कुरैशी (25), शरीफ उर्फ टेम्पू (23) और समीर खान (19) को गिरफ्तार किया है और तीनों ही आरोपित शक्ति कॉलोनी आमागढ दिल्ली बाईपास रोड ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर के रहने वाले है। गिरफ्तार आरोपित् फैसल कुरैशी, शरीफ उर्फ टेम्पू एवं समीर खान जो अवैध मादक पदार्थ के बड़े तस्कर है। आरोपित यह स्मैक अकलेरा झालावाड़ के तस्करों से लेकर आते है। जयपुर में 1-1 ग्राम की पुड़ियों में युवा एवं मजदूर वर्ग को बेचते है। आरोपी फैजल कुरैशी मुख्य तस्कर है, जिसने अपने साथ 8-10 लड़कों की टीम बना रखी है।

जो जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों

■ **झालावाड़ के अकलेरा से मादक पदार्थ लाकर जयपुर शहर में सप्लाई करते थे बदमाश**

■ **पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्मैक बिक्री के 17.31 लाख रु. जब्त किए**

पर मादक पदार्थ का बेचा करते है। आरोपियों की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करते है व धमकी देते है। आरोपी फैजल कुरैशी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं मारपीट के सात प्रकरण दर्ज है। पुलिस आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ स्मैक के प्राप्ति स्त्रोत एवं सप्लायर के संबंध में पूछताछ करने में जुटी है।

इसी तरह गलता गेट पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर उत्तर ने एक आरोपी को पकड़कर उसके पास से 7.57 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त की है। पुलिस उपायुक्त जयपुर राशि डोगरा डूडी ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गलता गेट थाना पुलिस और डीएसटी उत्तर ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले शातिर तस्कर अलफेज कुरैशी निवासी लालकोठी को गिरफ्तार किया है जो बास बदनपुरा चौकी की तरफ जाने वाले रोड स्थित मुरली-मनोहर मंदिर के पास से किसी को अवैध मादक पदार्थ स्मैक बेचने की फिराक में खडा था।

'जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाएं पेयजल'

जयपुर (कासं)। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत ने राजस्थान में जल जीवन मिशन की प्रमुख परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने में आ रही समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि ग्रामीण इलाकों में हर व्यक्ति के घर तक नल का पानी पहुंचे।

सावंत मंगलवार को जल भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत चल रही प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण में देरी, वन विभाग से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने में विलंब और ठेकेदारों द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बिखरे हुई आबादी वाले गांवों में हर घर में नल पहुंचाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए समुचित कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाना चाहिये।

सावंत ने आईएमआईएस पोर्टल पर सभी परियोजनाओं की प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही धीमी गति से काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी परियोजना स्थलों का नियमित रूप से दौरा करें और आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान करें।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हासिल करेंगे नेट जीरो का लक्ष्य : ऊर्जा मंत्री नागर

जयपुर में मंगलवार को साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम का कार्यक्रम आयोजित हुआ।

जयपुर। ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर वर्ष-2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जीरो) के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि हमारे देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से अधिक हो गई है और राजस्थान 29.85 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ इसमें सर्वाधिक योगदान दे रहा है।

नागर मंगलवार को जयपुर के होटल हयात में साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्कॉटलैंड में वर्ष-2021 में आयोजित यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए पांच सूत्री पंचामृत एजेंडा प्रस्तुत किया था। इसके माध्यम से उन्होंने साल 2030 तक भारत की ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से पूरा करने तथा कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नागर ने कहा कि क्लाइमेट चेंज से

■ **क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से मुकाबले के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी : नागर**

उत्पन्न चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने तथा अक्षय ऊर्जा तक आमजन की पहुंच सुनिश्चित करने के सामूहिक प्रयास जरूरी हैं और राजस्थान इस दिशा में उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम के माध्यम से नीति निर्माता, स्टेक होल्डर्स, डवलपमेंट पार्टनर्स तथा विशेषज्ञ एक ही मंच पर आकर ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य की नीतियों को आकार देंगे। उन्होंने नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश आदि के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने के लिए भारत में अमरीकी राजदूत एरिक गार्सेटी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि विश्व की करीब एक-चौथाई जनसंख्या तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में 28 प्रतिशत भागीदारी रखने वाले इस उप महाद्वीप में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना समय की मांग है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के कारण पर्यावरण पर बढ़ते खतरों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। अमेरिकी राजदूत ने इस अवसर पर दक्षिण एशियाई रीजन में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए तीन नए कार्यक्रमों-शहरों के पर्यावरण अनुकूल विकास पर अमेरिका-दक्षिण एशिया मेयरल प्लेटफॉर्म, इंडो-अमेरिकी लो कार्बन कम्फर्ट एंड कूलिंग कलेक्टिव तथा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कूलिंग कलेक्टिव प्रोग्राम के माध्यम से वर्ष 2030 तक सुपर एफिशिएंट कूलिंग तकनीक के लिए एक बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य है।

फोरम को मालदीव सरकार की ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन सचिव मरियम शहाना, भूटान सरकार के एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज सचिव दाशो करमा शेरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट सचिव दाशो फुंशो टोबगे, नेपाल सरकार में एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज एंड इरीगेशन सचिव सुरेश आचार्य, श्रीलंका सरकार में पावर एंड एनर्जी के अतिरिक्त सचिव एके एन विक्रमसिंघे, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने संबोधित किया।

International Snow Leopard Day

Snow Leopards are captivating and powerful animals. However, they are also vulnerable to loss of prey and poaching. These animals are distributed sparsely across 12 different countries in Central Asia. These majestic creatures prowl the mountains with grace and power, their stunning coats blending seamlessly into the snowy landscape. They tend to be found in rugged, high mountain landscapes, at elevations between 3,000 and 4,500 m. The key to protecting this species is raising awareness. That's what *International Snow Leopard Day* is all about.

#HEALTH BENEFITS

Candy Leaf from Assam

PKC is connected to inflammatory, autoimmune, endocrine, and cardiovascular illnesses. Stevia suppresses PKC phosphorylation, which alters downstream pathways that cause inflammation, a significant cause of endocrine, metabolic and cardiovascular issues. The study shows Stevia's promise in this field for the first time.

Candy Leaf (Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni), a plant recognized for its natural non-caloric sweetening characteristics, also has therapeutic properties for diseases like endocrine, metabolic, immune, and cardiovascular diseases because of its effect on cellular signalling systems according to a new study. Assam exports Stevia worldwide. The North Eastern Council (Government of India) also highlighted stevia cultivation's potential to help the northeast Indian economy due to high demand and use.

At the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST) in Guwahati, an autonomous institute of Department of Science and Technology, a team of researchers Dr. Asis Bala, Associate Professor, Prof. Ashis K. Mukherjee, Director, and Ms. Piyali Devroy, Research Scholar did pioneering research on Stevia's medicinal properties, effects on cellular signalling mechanisms to prove the Assam's Stevia's therapeutic qualities.

Their multimodal strategy integrated network pharmacology with in-vitro and in-vivo techniques, showing that the plant used phosphorylation of Protein Kinase C (PKC) to inhibit a crucial cellular signalling route.

PKC is connected to inflammatory, autoimmune, endocrine, and cardiovascular illnesses. Stevia suppresses PKC phosphorylation, which alters downstream pathways that cause inflammation, a significant cause of endocrine, metabolic and cardiovascular issues.

The study shows Stevia's promise in this field for the first time. The study also found that active stevia molecules strongly interact with AMPK, highlighting the need for additional research.

This work published in the journal *Food Bioscience* revealed Stevia's potential and identified new targets for immunological endocrine and cardiovascular problems. It could have therapeutic effect on diabetes, type 1, type 2, autoimmune diabetes, prediabetes, chronic inflammation related autoimmune disease, rheumatoid arthritis, chronic kidney diseases and cardiovascular diseases like hypertension, vasculopathy and so on.

The study illuminates an undiscovered facet of Stevia, underlining the necessity of creative tactics and scientific data to support traditional therapeutic practices.

War Anniversary Month...

Jews Can Defend Themselves

PART:1

For the masses, there is indeed something annoying to people about a group that refuses to fall in line with everyone else. That's one part of it. There are different things in the Muslim world. Again, the refusal to adopt the main faith is part of it. And then, there is another theory which says that it goes back even further, which is Judaism, the religion, and offered the form of the Ten *Commandments* (which were the first sort of moral rules). People don't like rules and they don't like to behave in a certain way and Jews have been in this theory. I'm not saying that I necessarily agree with it. Jews have been like a guilty conscience to mankind.

Jonathan Freedland.
Credit: Philippa Gedge

Jonathan Freedland speaking at an event.

Shailaza Singh
Published Author, Poet and a YouTuber

Ever since I met him at the Jaipur Literature Festival this year, it has been an ongoing conversation about a plethora of topics including the year-long raging war between Israel and Palestine and the Jewish community with the award-winning British author, and journalist, Jonathan Freedland. He is also a columnist at the Guardian and the host of the Guardian's *Politics Weekly America* Podcast. He also presents *BBC Radio 4's The Long View* and is the author of the award-winning *The Escape Artist: The Man Who Broke Out of Auschwitz to Warn the World*, along with several thrillers under the pseudonym Sam Bourne. He is a past winner of an Orwell Prize for journalism.

When we met at the Jaipur Literature Festival, the very first question that I asked him was about why is there so much hatred for Jews. Hitler persecuted them. They have always been talking about the 'promised land' but their promised land has always been besieged with wars.

Jonathan said, "I don't think the explanation will lie with Jews, but instead, it will lie with the people who hate them. And so have to ask why is it that there has been this hate throughout history. There are all kinds of theories about it. The one that is probably the heart of the matter is that in the Christian world, the Jews stood out for refusing to embrace Christianity and that became very irritating for the followers of Christianity for centuries. It was an irritant to them that there was this group of people, who was refusing to fall in line and the very fact they continued to exist proved that there was another way. For example, in England, the country I am from, the only minority at all in the 12th century in England were Jews. Everybody else was Christian. Today, we're used to minorities. But for many centuries, the only minority in all of Europe, before there were Muslims, for example in Europe, would have been Jews. So, for the masses, there is indeed something annoying to people about a group that refuses to fall in line with everyone else. That's one part of it. There are different things in the Muslim world. Again, the refusal to adopt the main faith is part of it. And then, there is another theory which says that it goes back even further, which is Judaism, the religion, and offered the form of the Ten *Commandments* (which were the first sort of moral rules). People don't like rules and they don't like to behave in a certain way and Jews have been in this theory. I'm not saying that I necessarily agree with it. Jews have been like a guilty conscience to mankind.

Jews are around, sort of, saying that you should behave better, you shouldn't kill, you shouldn't commit adultery, etc. according to the rule. Therefore, people would rather not have a voice in their ear saying to behave better. I believe this was also because 5,000 years ago, Judaism was the first religion to insist on there being one God. *Monotheism* begins with Abraham and the Jews, and then, Christianity comes next, and then, Islam after that. And therefore, before then, with many gods, you could live differently and Judaism has, sort of, come along early and spoiled that way of living. But all said and done, the truth is that it is hard to work out why there is prejudice against black people, why there is prejudice against people who are not white or people who are brown. It's a very hard thing to explain why prejudices live on."

> The one that is probably the heart of the matter is that in the Christian world, the Jews stood out for refusing to embrace Christianity and that became very irritating for the followers of Christianity for centuries. It was an irritant to them that there was this group of people, who was refusing to fall in line and the very fact they continued to exist proved that there was another way.

#ISRAEL PALESTINE WAR

Author Kai Bird with Jonathan Freedland at the Jaipur Literature Festival 2024.

Jonathan Freedland at the New Israel Fund Human Rights Dinner.

Jonathan Freedland's book.

- **Why do you think Hitler hated the Jews?**

"Well, he was steeped in anti-Semitism and anti-Jewish racism for centuries. I don't think there's any value in trying to think of there being a rational or logical reason why people hate minorities. They always have."

- **From Hitler's time to this time, when the wars are continuing, what has changed?**

"The big change in the world for Jews anyway has been the fact that Jews are no longer unable to defend themselves. For 2,000 years, Jews were always a minority who were vulnerable because they never had any means to defend themselves. It's fascinating. In 1947, there were two big partitions in the world, one that created India and Pakistan and the other one that created Israel. That vote of the United Nations in 1947 said that there should be a Jewish state, and from 1948 onwards, there has been a Jewish state. And now for the first time in 2,000 years, Jews have an army and can defend themselves and that is a very big difference. In the big sweep of Jewish history, that's the big change."

- **So, now that the Jews have a great army and are defending themselves, can it put an end to this hatred in the long run?**

"No. It has been there for many decades. But it is as strong now. Anti-Semitic attacks in London are high, they're up. More now than in many decades. Same in the United States. So, it has not ended the hatred. But I think it has meant that people, the attitude is different because there is now a place where Jews are defended. Now as it happens, the act of defending themselves has been part of this war between Israel and Hamas, which, of course, has brought out a whole lot more hatred for Israel, and therefore, for people who stand with Israel. So, the ability of Jews to defend themselves has not ended the hatred, it has, in a way, just created a new set of problems."

- **Can you relate some anecdotes that have shaped your writing?**

"There is this stereotype about Jews that they are miserly with money, that they hold on to money. It goes back a thousand years, actually to the time when Jews were not allowed to do other jobs and the only job that they were allowed to do was to lend money. The king would allow them to collect taxes or lend money. And so, this arose this idea that Jews are somehow mean with money. So, years back, my wife and I, were a young couple looking to buy our first home in England. We were at a flat that we liked and we asked the agent, who was showing us around, about the place cost. The agent told us the price and said that we could negotiate with the owners of the flat. He said that the owners are Jewish and added that they might squeal a bit. He used the word squeal, which one would use for the noise that a pig makes. It was a very racist thing to say that the people, who owned the flat, would somehow want more money and would behave like animals. It was just a small moment, you know, it came and it went, but it was proof to me that there are still these attitudes. This man didn't know that we were Jewish. We told him we were and he was very embarrassed. It was just a prejudice that just came out.

But all the time, you know, even if it's not me personally, there are these stereotypes that, sort of, live on, you know, this idea that Jews operate and conspire in secret networks. And so, I remember once at work, a friend of mine had phoned and left a message with a number, and the colleague who took the number said that one of your networks called. He didn't say one of your friends, he said one of your networks. And he would never say that to somebody else, but the word came to his mind because he knew I was Jewish. And so immediately, he thought Jews have networks as if they are sort of secretive."

> There is this stereotype about Jews that they are miserly with money, that they hold on to money. It goes back a thousand years, actually to the time when Jews were not allowed to do other jobs and the only job that they were allowed to do was to lend money. The king would allow them to collect taxes or lend money. And so, this arose this idea that Jews are somehow mean with money.

- **In India, there are two worlds. In one, there's a caste system where people are treated differently on the basis of their castes, and in the other India, the caste system doesn't matter. It is more cosmopolitan. Is it the same for Jews as well?**

"I think that's very interesting, what you said about India. Maybe, it is something like that, where both things can exist at once, where on the one hand, you know, you can grow up and live without really encountering these prejudices. On the other, it's there. So, for example, if you go past any Jewish building in London, or Paris, or Berlin, well, I don't know about America, but certainly in Europe, you will always see a security guard outside the door of a Jewish school, a kindergarten even, for three and four-year-old children because even these buildings are prone to attack. If you go to a synagogue or a Jewish house of worship, there has to be security anywhere in the places I've mentioned. We get used to it now, we're just, that's part of life. But that's not there because people want to do it, that's there because they have to do it. There is a security threat. So, these communities are living under threat. I'm not a particularly religious Jew, so, I don't wear a cap, but people who do wear a skull cap, are vulnerable in travelling around. Some choose now not to. Even if you just get on with your life, it's there."



To be continued...

rajeshsharma1049@gmail.com

Jonathan Freedland in his 20s.

#PUNJABI FOOD FEST

Happy Da Dhabha @ Monarch

So, at the *Happy ka Daba*, you have *Paneer* cubes and *Hara bhara kebab* with mild seasoning, keeping in mind the foreign travellers.

Sadhana Garg
Journalist & Social Entrepreneur

Kahao, Piyo aur Khush Raho says a poster at *Happy Singh ka Dhabha*. Wait a minute. This is no bustling roadside dhaba but a makeover at Monarch, the fine dining restaurant at Holiday Inn City Center, Bais Godam. The streams of colourful buntings complete the rustic dhabha look for the ongoing *Punjabi food Festival*.

Think Punjab and one thinks of the rich cuisine. Culinary journey for vegetarians is overloaded with dairy products as Punjab has the highest per capita usage of dairy in the country. Obviously, a later addition, *Paneer*, must have come with the Afgans of the Northwest Frontier as there is no mention of it in Hindu text, despite us having been obsessed with dairy.

So, at the *Happy ka Daba*, you have *Paneer* cubes and *Hara bhara kebab* with mild seasoning, keeping in mind the foreign travellers.

The *golgappas* with *hing*, *pudina*, orange, *keri* and sweet *imllipani* were a 'chaatful' beginning to a culinary journey that that had been carefully curated for every city foodie. Also, if life is too short to eat bad food, then one should head for this Punjabi food festival.

For the vegetarians, other than the soup, there was *palak kadhi*, beans, *mughlai dal*, *paneer lebabdar, mattar*, *dhaba style aloo mattar* and *baigan*.

The food was easy on one's pallet and it was extremely comforting to see that layers of fat and red chillies was missing. The *Amritsari Kulcha* was a delight, spicy yet soft and sans reeking fat. For those, who prefer to go gluten-free, there is *Makkai roti* and *Missy roti*.

I somewhat longed for the traditional *Punjabi Kadhi* with deep-fried *pakoras*, lots of onion and garlic and the *Pindi Chanas*, or even the iconic *Chola Bhaturas* that no matter what age and time of the day, you cannot have enough. Notwithstanding that they are all calorie bombshells. Given a dynamic menu that changes everyday, it was my turn to go without the above Punjabi dishes but the one on the menu of the day were delectable and as good as any to create memories and give calorie counting a miss. And if you think you deserve dessert first, then there was a lavish spread. The *Kulfi*, *Badam Halwa* and *Pinnis,* made to look like small *laddoos,* took serving happiness to another level. The *baked boondi,* not essentially a *Punjabi* dessert, was accompanied by many other bakery products and cakes for the continental travellers. Says Jai Kapoor, a Punjabi foodie, "I had the pleasure of dining at the Holiday Inn for a Punjabi Food Festival, and it was an incredible experience. From the juicy and tender *Amritsari Ghost Ke Kabab* to the creamy and perfectly balanced *Butter Chicken Masala*, each dish was crafted with care. The *Tandoori Wings* were smoky, spicy, and cooked to perfection, while the *Mutton Keema Masala* was rich and flavourful. I thoroughly enjoyed the *Chicken Kaleji*, with its distinct blend of spices, and the *Golgappas* added a refreshing, tangy burst of flavour. The soft, fluffy *Amritsari Kulche* were the perfect accompaniment, and the *Mutton Biryani*, with its aromatic rice and tender pieces of mutton, was a true highlight. Overall, every dish was a delightful blend of authentic flavours, making it a memorable and highly satisfying meal." So, go check out the *Punjab da Zaika* at Monarch.



THE WALL



BABY BLUES

By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS

By Jerry Scott & Jim Borgman



मोबाइल टावरों से नेटवर्क डिवाइस चुराने वाली गैंग का खुलासा, आठ गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपये व करीब दो करोड़ की कीमत के चुराए गए आरआरयू डिवाइस बरामद किए हैं, जिन्हें विदेश में बेचने की फिराक में थे

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की प्रताप नगर थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से आरआरयू नेटवर्क डिवाइस चुराने वाली गैंग का खुलासा करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने भीलवाड़ा, राजसमन्द, चितौड़गढ़ तथा राजस्थान व मध्यप्रदेश की 100 से अधिक वारदातों का भी खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपये व करीब दो करोड़ की कीमत के चुराए गए डिवाइस बरामद किए हैं, जिन्हें आरोपी विदेश में बेचने की फिराक में थे।

पुलिस ने मोबाइल टावर से आरआरयू नेटवर्क डिवाइस चुराने वाली गैंग का खुलासा किया।

प्रताप नगर थाना प्रभारी गजेंद्रसिंह नरूका ने बताया कि गत 13 सितंबर को थाने पर इण्डस कम्पनी के सिक्योरिटी सुपरवाईजर राजेन्द्र सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मानसरोवर झील के पास एयरटेल कम्पनी का टॉवर लगा हुआ है। जिस पर लगे आरआरयू नेटवर्क डिवाइस चोर चुरा ले गये। इस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने जिले में बढ़ती मोबाइल टावर की आरआरयू डिवाइस चोरी की वारदातों पर अंकुश के लिए एएसपी पारस जैन के निर्देशन व डीएसपी सिटी मनीष बड़गुर्जर के सुपरविजन में एक टीम गठित की। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरु की। साइबर सेल ने सभी घटनास्थल के 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों एवं बीटीएस के विश्लेषण से वारदात में शामिल गैंग के मुख्य सरगना सहित सभी आरोपियों को नामजद कर गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए। कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार इस गैंग से छह आरआरयू नेटवर्क डिवाइस बरामद किये गये।

पुलिस ने शिवलाल शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा निवासी उदलियास थाना कोटड़ी, नीरज उर्फ गोपाल पुरोहित निवासी ढोकलिया, अनिल पुत्र कैलाश चन्द्र खटीक निवासी आकोला थाना बड़लियास, भंवर खारोल पुत्र भैरू लाल उदलियास, अतुल तिवाड़ी पुत्र गोपाल लाल निवासी ढोकलिया, गौतम शर्मा पुत्र पप्पु लाल ढोकलिया, शिवलाल पुरोहित पुत्र सत्यनारायण ढोकलिया और जित्या निवासी चन्द्रप्रकाश उर्फ रोशन शर्मा पुत्र मूलचन्द को गिरफ्तार कर करीब दो करोड़ की कीमत के चुराए गए डिवाइस बरामद किए हैं, जिन्हे आरोपी विदेश में बेचने की फिराक में थे।

पिकअप के पलटने से तीन घायल

गंभीर रुप से दो घायलों को जयपुर रैफर किया

गंगापुर सिटी, (निसं)। गंगापुर सिटी-जयपुर मेगा हाईवे सड़क मार्ग स्थित कोयला के पास मंगलवार को एक पिकअप की कमानी में से पार्ट्स निकलने से पिकअप पलट गई। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की सहायता से गंगापुर सिटी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया।

पिपलाई निवासी शहजाद (35), इस्लाम (32) और समीर पिकअप से पिपलाई से गंगापुर सिटी कबाड भरने आ रहे थे। इस दौरान कोयला के पास अचानक पिकअप की कमानी में से पार्ट्स (कटोरी) निकलने से पिकअप पलट गई। जिससे शहजाद, इस्लाम घायल हो गए, जबकि समीर को मामूली चोट आई। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में एम्बुलेंस की सहायता से तीनों को गंगापुर सिटी के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां शहजाद और इस्लाम को गंभीर चोट आने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। समीर को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

गंगापुर सिटी के राजकीय चिकित्सालय में घायलों का उपचार किया।

महेंद्र का शव जोधपुर लाया जाएगा

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के प्रताप नगर कच्ची बस्ती निवासी रमेश जीनगर के पुत्र महेंद्र राठौड़ की 19 अक्टूबर को अफ्रीका के कांगो शहर में मौत हो गई। परिजनों ने शव जोधपुर मंगवाने के लिए सरकार से गुहार लगाई। वहीं राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका न्यूयॉर्क (राना) के अध्यक्ष प्रेम भंडारी को भी पत्र लिखा। इस पर प्रेम भंडारी ने जल्द ही शव जोधपुर भिजवाने को लेकर आश्वस्त किया। भंडारी ने बताया कि इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय के इकोनॉमिक रिलेशन सेक्रेट्री दामु रवि से भी संपर्क किया और बात कर शव को जोधपुर भिजवाने की प्रक्रिया में जुट गए है।

मोहन मेघवाल को अंतिम विदाई दी

जोधपुर, (कासं)। पूर्व राज्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन मेघवाल को मंगलवाद दोपहर अंतिम विदाई दी गई। उनकी पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पूर्व राज्यमंत्री मोहन मेघवाल का सोमवार को दोपहर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनकी अंतिम यात्रा प्रतापनगर स्थित यूआईटी कॉलोनी से रवाना होकर सूरसागर बायपास पर स्थित मेघवाल श्मशान घाट गई। उनकी अंतिम यात्रा में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, शहर विधायक अतुल भंसाली, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जगतनारायण जोशी सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने मोहन मेघवाल के शव को कंधा भी दिया। जानकारी के अनुसार भाजपा के साथ स्थापना के समय से ही जुड़े वरिष्ठ नेता मोहन मेघवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में की थी। वे 1977 में नगर विकास न्यास के सदस्य बनाए गए। इसके बाद वे कई अहम पदों पर रहे। उनके पुत्र और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री महेन्द्र मेघवाल ने बताया कि 1980 से 89 तक वे लगातार भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे।

निःशुल्क हेलमेट वितरण किए

जयपुर। सड़क सुरक्षा के महत्व को प्रोत्साहित करते हुए सोमवार को रोड सेफ्टी लाइन द्वारा छठवें निःशुल्क आईएसआई प्रमाणित हेलमेट वितरण शिविर का आयोजन राजा पार्क स्थित भाटिया भवन में किया गया। इस अवसर पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रथम) राजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि समाजसेवी सुभाष आर्य ने कार्यक्रम को प्रायोजित किया। शिविर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के लिए शहर आने वाले व्यक्तियों और दोपहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही 15 लड़कियों सहित कुल 100 हेलमेट वितरित किए गए। इस अवसर पर शेखावत ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल का कारावास

जालोर, (कासं)। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी महेन्द्रसिंह को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार पीड़िता के भाई ने पुलिस थाना में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग बहन महेन्द्र पुत्र जगदीश कुमार विश्नोई की मेडिकल की दुकान पर दवाई व सामान खरीदने जाती थी। करीब 6-7 महिने पूर्व उसकी बहन महेन्द्र की दुकान पर दवाई लेने गयी। उस दौरान उसने उसे बहला फुसलाकर दुकान के अंदर ले गया। उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने का डर बताकर उसकी बहन के साथ दो तीन बार दुष्कर्म किया। जिस पर उसकी बहन ने महेन्द्र की दुकान पर जाना बंद कर दिया।

महेन्द्र उसकी बहन पर गंदी नजर रखता था और उसके अकेली देखकर दुष्कर्म करने की नियत से जबरन उनके घर में घुसा व उसकी बहन के साथ जबरन बलात्कार करने लगा। उसकी बहन ने विरोध किया तो उसकी बहन के साथ मारपीट की। उसकी बहन के चिल्लाने पर उसकी चाची दौड़कर आयी और उसने महेन्द्र से छुड़ाया। इसके बाद उसकी मां भी आ गई तथा महेन्द्र मौका देखकर भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महेन्द्रसिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा।

पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने महेन्द्र सिंह को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वही दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने की।

28 लाख की बोरिंग मशीन चुराई

अजमेर, (कासं)। अजमेर में चोरों के हौंसले बुलंद होने जा रहे हैं। सूने मकानों के साथ दुकानों के बाहर खड़े वाहन भी अब सुरक्षित नहीं हैं। अज्ञात शातिर नकबजनों ने आदर्शनगर थाना क्षेत्र में एक बोरिंग कारोबारी के ऑफिस के बाहर खड़े 22 लाख रुपए कीमत का कम्प्रेशर और 6 लाख रुपए कीमत के ट्रैक्टर को चुरा लिया। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। बोरिंग कारोबारी कमलेश जैन बताया कि आदर्शनगर आड़ी पुलिया के पास उनका ऑफिस है। ऑफिस के बाहर बोरिंग के नए वाहन खड़े थे। सोमवार देर रात को अज्ञात चोर उनके आफिस के बाहर खड़े वाहनों को चुराकर ले गए। कारोबारी की शिकायत पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने आस पास लगे सीसी टीवी कैमरे खंगाले है। इलाके के संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है।

समाजसेवी गीगराज सारस्वत की मूर्ति का अनावरण

पंडित गीगराज सारस्वत ने लगभग सौ वर्ष पूर्व इच्छा मृत्यु का वरण किया था

रतनगढ़ में समाजसेवी गीगराज सारस्वत की मूर्ति का विधिवत अनावरण किया गया।

रतनगढ़। समाजसेवी गीगराज सारस्वत की मूर्ति का रतनगढ़ के वार्ड नंबर 28 में स्थित गींदड़ चौक में विधिवत अनावरण किया गया।

पंडित गीगराज ने लगभग सौ वर्ष पूर्व इच्छा मृत्यु का वरण किया था। पंडित पंकज आत्रेय के सानिध्य में वैदिक मंत्रों के साथ मुख्य यजमान और उनके प्रपौत्र संजय सारस्वत के बेटे राहुल सारस्वत ने पूजा-अर्चना की व पांच वर्षीय बालिका दर्शिका शर्मा ने विधिवत रूप से मूर्ति का अनावरण किया। जानकारी के अनुसार स्व. पंडित गीगराज ने अपने जीवनकाल में समाज सेवा के अनेक उल्लेखनीय कार्य किये।

उन्होंने सार्वजनिक धर्मशाला, मंदिर, कुआं सहित गायों के लिए पानी-चारे की व्यवस्था के साथ पीपल के अनेक वृक्ष लगाए थे। पंडित सारस्वत गींदड़ नृत्य के बड़े शौकीन थे। यह स्थान वर्तमान में गीगजी चौक के नाम से प्रसिद्ध है। इस अवसर पर नंद किशोर भार्गव, कुन्दन मल आत्रेय, अनंत राम माली, ओम प्रकाश टांक, संजय सरस्वत नरेंद्र शर्मा, प्रमोद स्वामी, जगदीश बाबरेवाल, भगवती प्रसाद चोटिया, राजकुमार चौधरी, दिनेश हरितवाल, चुन्नीलाल सारस्वत, अजय सारस्वत, शंभू सारस्वत, ललित आत्रेय सहित अनेक गणमान्यजनों ने पं. सारस्वत के योगदान को याद करते उनकी मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किये। गीगराज के वंशज अजय सारस्वत ने हाल ही आंगनबाड़ी के संचालन के लिए 812 वर्गगज भूमि दान में दी थी।

सी.ई.टी.(सीनियर सेकेंडरी लेवल) परीक्षा शुरू

जोधपुर/अजमेर, (कासं)। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) सीनियर सेकेंडरी लेवल का आयोजन आज से शुरू हो गया जो 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। इन तीन दिन में यह परीक्षा 2 पारियों में यानि कुल 6 पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। जोधपुर में इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए। जोधपुर, जयपुर, अजमेर समेत प्रदेश के 28 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया।

जयपुर के एक केन्द्र पर सीईटी परीक्षा देकर बाहर आते परीक्षार्थी।

परीक्षा के पहले दिन मंगलवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों से अलग-अलग नजारे देखने को मिले। एंट्री के दौरान कड़ी सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया गया। महिला परीक्षार्थियों के गहने उतरवा दिए गए, तो कहीं पर पुरूष उम्मीदवारों को पूरी बांह की शर्ट होने पर प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम देखने को मिले। उम्मीदवारों को कड़ी चैकिंग से गुजरना पड़ा। यहां सुबह साढ़े सात बजे से परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी गई। इससे पहले उम्मीदवारों की कड़ी चैकिंग की गई। यहां परीक्षा केंद्रों पर महिलाओं को कान के कुंडल, मंगलसूत्र, बालों की क्लीप सहित सभी धातु की वस्तुएं बाहर रखवाकर प्रवेश दिया गया। इसी तरह पुरूष उम्मीदवारों को पूरी बांह की शर्ट, कलाया उतरवाकर प्रवेश दिया गया।

अजमेर जिला मुख्यालय पर सीईटी परीक्षा शुरू :- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित सीईटी-2024 (सीनियर सैकंडरी लेवल) परीक्षा मंगलवार से अजमेर जिला मुख्यालय के 53 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई। अजमेर के परीक्षों केंद्रों पर करीब 27 हजार 550 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। दो शिफ्टों में आयोजित होने वाली परीक्षा में पहली शिफ्ट में 13 हजार 775 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समय से एक घंटे पहले सघन जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। सीईटी परीक्षा 2024 मंगलवार को पहली पारी में आयोजित परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू हुई। परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे तक ही प्रवेश दिया गया। प्रवेश के दौरान सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया। इसी प्रकार दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 6 बजे आयोजित की गई। दूसरी पानी में भी दोपहर 2 बजे तक ही प्रवेश दिया गया।

■ कड़ी जांच के बाद एंट्री दी, छात्राओं के जेवर उतरवाए

अजमेर में परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण और परीक्षार्थियों पर निगरानी रखने के लिए 9 उडन दस्ते बनाए हैं। नोडल अधिकारी वंदना खोरवाल बताया कि 53 केंद्रों के लिए उडन दस्ते गठित किए गए हैं।

अजमेर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान

अस्पताल प्रशासन का व्यवस्थाएं सुचारू होने का दावा

अजमेर, (कासं)। गत दो दिनों से रेजीडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से संभाग के सबसे बड़े जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था लडख़ड़ा रही है, तो वहीं अस्पताल प्रशासन का दावा है कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं से अस्पताल आने वाले मरीजों के इलाज में हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों का परेशानी उठानी पड़ रही है।

रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले अजमेर संभाग के जेएलएन अस्पताल के सभी रेजीडेंट डॉक्टर्स संपूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ हड़ताल पर हैं। मंगलवार को भी आपातकालीन विभाग के बाहर एकत्रित हुए रेजीडेंट डाक्टरों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. दिलराज मीणा ने बताया कि जब तक उनकी आठ सूत्रीय मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। रेजीडेंट की हड़ताल के चलते अस्पताल के आउटडोर में आने वाले मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आउटडोर में मरीजों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई, चिकित्सक को दिखाने के लिए अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि एमडी और एमएस के रेजीडेंट हड़ताल पर हैं, जबकि एसआर, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर रेजीडेंट और फैकल्टी मैंमर्स को व्यवस्थाओं जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओपीडी, आईपीडी की व्यवस्थाएं पूर्व की भांति संचालित है। ओपीड़ी में 5 हजार से अधिक मरीजों को चिकित्सकों द्वारा जांच कर दवाई लिखी गई है, जबकि 334 से अधिक मरीज को भर्ती किया, 45 मेजर और माइनर ऑपरेशन किए गए।

रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, सीनियर डॉक्टरों ने कमान संभाली

जोधपुर, (कासं)। डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रही। उन्होंने मंगलवार को भी संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया। इस हड़ताल के कारण कॉलेज से संबद्ध एमडीएम, एमजीएच, उम्मेद व केएन टीबी एंड चेस्ट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं पटरी से उतर चुकी है। हालांकि ओपीडी व इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टरों ने कार्य संभाला है लेकिन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के अभाव में वहां मरीजों की लंबी लाइनें लग गई हैं।

जानकारी के अनुसार दो माह पहले राज्य सरकार के साथ हुए समझौते की शर्तों की पालना नहीं होने के विरोध में पूरे राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर तीन दिन से हड़ताल पर हैं। इसमें जोधपुर के डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं।

बिजली विभाग की लापरवाही का दंश झेल रहे एक ही परिवार के तीन बच्चे

बिजली विभाग की लापरवाही से मकानों में फैले करंट से तीन बच्चे झुलस गए थे

अलवर, (निसं)। बिजली विभाग की लापरवाही से मकानों में फैले करंट से एक ही परिवार के तीन बच्चे झुलस गए, जिनमें एक बच्चा तो विकलांग हो गया, वहीं दो बच्चों की जिन्दगी खराब हो चुकी है। गरीब परिवार मुआवजे के लिए पिछले एक साल से भटक रहा है लेकिन उन्हें मुआवजा आज तक नहीं मिला है। ना ही पुलिस ने अभी तक बिजली विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

सावडी ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले गांव सूकल की राम नगरी कॉलोनी में 23 सितंबर 2023 को विद्युत विभाग की लापरवाही से उमरैण जीएसएस की डीपी से 11 हजार केवी का करंट घरों में प्रभावित हो गया जिसके चलते गांव के प्रीतम सिंह पुत्र गोरेलाल जागा के घर में रखे सभी विद्युत उपकरण जल गए उनमें आग लग गई। वहीं तार टूटकर कूलर के पास गिर गया था, वहीं परिवार के तीन बच्चे रघुनंदन, इन्द्रेश और दिव्यांश

एक ही परिवार के पीड़ित बच्चे।

खेल रहे थे जो अचानक तार टूटने व घर में आग लगने से घबरा गयो उनमें से किसी ने कूलर को छू लिया। कूलर को छूते ही बच्चे को करंट ने पकड़ लिया। एक-दूसरे को बचाने में तीनों बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। जैसे ही परिवार को पता चला तो पास ही खेतों में काम कर रहे परिजन वहां आए और बच्चों को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे लेकिन बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर रैफर कर दिया गया। इस बीच प्रीतम सिंह विद्युत विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने अकबरपुर थाने पहुंचे तो वहां मौजूद थानाधिकारी ने उन्हें कहा कि भाई एफआईआर तो हो जाएगी आप

■ बिजली विभाग आश्वासन के बाद मुआवजा देने से मुकरा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इंकार किया

बच्चों को सम्भालों। सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस और उमरैण जीएसएस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और परिवार को विद्युत विभाग की तरफ से आश्वासन दिया कि आपके सारे खर्चे एवं क्षतिपूर्ति विभाग करेगा। आप तो सिर्फ अभी बच्चों के उपचार पर ध्यान दो। अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिवार बच्चों की देखभाल में लग गया और वे ठीक होकर घर लोट आए इस बीच काफी समय गुजर गया।

वहीं तीनों बच्चों में से दो बच्चे घर पर मिले, जिसमें रघुनंदन की गर्दन टेढ़ी हो चुकी है। वह एक पैर से विकलांग एवं मानसिक संतुलन खो बैठा है। वहीं छोटी बच्ची इन्द्रेश जिसके सिर पर करंट ऐसा लगा कि आधे सिर की खाल (त्वचा) ही जला डाली, उसकी अन्य जगह की खाल को सिर पर लगाया गया जिससे उसके सिर पर बाल नहीं है।

वहीं तीसरा बच्चा दिव्यांशु कहीं बाहर गया था उसकी भी हालत इसी प्रकार बताई गई है। गरीब जागा परिवार जो मजदूरी करके पेट पालता है उसने पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों पर विश्वास कर लिया लेकिन अभी तक ना तो उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा विभाग ने दिया बल्कि गरीब परिवार अधिकारियों के आश्वासन के चलते कर्ज में और डूब गया और अब विभाग के अधिकारी मुआवजे के अपने वादे से मुकर गए हैं वहीं समय ज्यादा होने के बाद पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया।

एफएसटी टीम की कार में तस्करी कर ले जाई जा रही शराब पकड़ी

एफएसटी का स्टीकर लगी बोलेरो कार से शराब की पेटियां बरामद, चालक को पकड़ा

दौसा, (निसं)। जिला स्पेशल टीम एवं सदर पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त रुप से कार्रवाई करते हुये एफएसटी टीम की कार में तस्करी के लिए ले जाये जा रही अंग्रेजी एवं देशी शराब की दो दर्जन से अधिक शराब की पेटी बरामद की है। वहीं पुलिस ने कार चालक को पकड़ लिया

कार्रवाई से पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारियों में हड़कम्प मच गया तथा उपचुनाव को लेकर तैनात की गई एफएसटी टीम की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गया। उधर जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र कुमार ने त्वरित कार्रवाही करते हुये एफएसटी टीम के प्रभारी राजकीय पोलोटेक्नीकल कॉलेज के व्याख्याता मनोज कुमार मीणा को हटाते हुये उनका मुख्यालय निर्झरना तहसील पर किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक से उक्त प्रकरण की रिपोर्ट तलब करते हुये मुकदमा दर्ज कराये जाने के

जिला स्पेशल टीम एवं सदर पुलिस ने शराब की पेटियां बरामद कर एक जने को पकड़ा।

निर्देश दिये है।

उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने विधानसभा चुनाव को देखते हुये एफएसटी टीमों को गठन किया है। उक्त टीम विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने वाली प्रत्येक गाड़ियों की निगरानी एवं चैकिंग करती है। हाल ही में एफएसटी की टीम ने तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि भी बरामद की थी। बताया जाता है कि जिला स्पेशल टीम एवं सदर पुलिस ने खान भांकरी रोड पर नाकाबंदी कर रखी थी, इस दौरान एफएसटी का स्टीकर लगी एक बोलेरो कार सामने से आती हुई दिखाई दी, जिसे हैड कांस्टेबल भूपसिंह, कांस्टेबल सुनील कुमार मंदीप ने चालक को रुकने का इशारा किया। इस

- कार्रवाई से पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारियों में हड़कम्प मच गया

पर चालक घबरा गया तथा बोलेरो लेकर भागने लगा। टीम ने बोलेरो को रोक लिया तथा गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 12 कार्टन बीयर एवं 13 कार्टन देशी शराब के रखे हुये थे। पुलिस ने तत्काल गाड़ी को जब्त करते हुये बीयर एवं देशी शराब के कार्टन सहित चालक बिजेन्द्र मीणा निवासी सकट थाना टहला जिला अलवर को वहीं दबोच लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र कुमार ने पुलिस अधीक्ष रंजीता शर्मा से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है तथा व्याख्याता या अन्य कर्मचारी, अधिकारी की संलिप्तता पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। वहीं दूसरी ओर स्पेशल टीम उक्त प्रकरण की जांच में जुट गई हैं।

दो मंजिला मकान भरभरा कर गिरा, कोई हताहत नहीं

कोटा, (निसं)। शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में अटवाल नगर में सोमवार देर रात दो मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान परिवार के सदस्य कमरे में नहीं थे। मकान गिरने पर कॉलोनी के लोग इकठ्ठा हो गए। हादसे में मकान के बाड़े में बंधी 7-8 गायों के चोट लगी है। पुलिस मौके पर पहुंची।

भागचंद भड़ाना ने बताया कि उनका मकान वार्ड नंबर 19 के अटवाल नगर में है। घटना रात आठ बजे के आसपास की है। दो मंजिला मकान में नीचे व दूसरी मंजिल पर चार-चार कमर बने हैं। परिवार के आदमी दूध बेचने गए थे। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। महिलाएं घर के आंगन में खाना बना रही थी। मकान के कमरों में कोई भी नहीं था। उस दौरान मकान भरभराकर नीचे गिर गया। मकान के बाड़े में बंधी 7-8 गाय चोटिल हो गई। मकान के कमरों में रखा सामान टूट गया। भागचंद ने बताया कि कॉलोनी में नालियां नहीं है। जिस जगह है वहां जाम पड़ी है। इस समस्या से कॉलोनी के लोग परेशान है। कई बार नगर निगम को शिकायत कर चुके हैं। नालियां जाम होने से सीपेज के कारण मकान बैठ गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मकान गिरने की शिकायत बोरखेड़ा पुलिस को दी है।

दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। मदनगंज थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर फरारी काट रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी निखिल सिंह है। थाना इंचार्ज शम्भू सिंह शेखावत के अनुसार आरोपी निखिल ने पीड़िता को डरा-धमकाकर विभिन्न होटलों में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्जइसे धरदबोचा। इसे अदालत में पेश किया, जहां जेल भेजने का आदेश दिया।

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2024-25 / 14681 दिनांक 22.10.2024

ई- निविदा-सूचना सं0 65/2024-25

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web site www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
निविदा की कुल लागत :-26.15 लाख
UBN Number :- DLB2425WSOB10952

राज.संवाद / सी / 24 / 6891 आयुक्त नगर निगम, बीकानेर

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक-संक्षिप्त वि.सं.18/Exam/A.P./Med.Edu../RPSC/EP-1/2024-25 दिनांक- 22.10.2024

आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम, 1962 के अन्तर्गत सहायक आचार्य (Assistant Professor) की विभिन्न विशिष्टताओं के कुल 15 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है। आयु सीमा में छूट, शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी उक्त पदो हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है-

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2025 को अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से कम, सिवाय डी.एम./एम.सीएच. न्यूनतम अर्हता अपेक्षित करने वाले पदो के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।
आवेदन अवधि	दिनांक 24.10.2024 से दिनांक 22.11.2024 रात्रि 12.00 बजे तक।
परीक्षा का स्थान व माह	स्थान व तिथि के संबंध मे यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

अन्य बिन्दु व सूचना-एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध मे समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.-0145-2635212 एवं 2635200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

DIPR/C/10436/2024 राम निवास मेहता, सचिव

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सांचौर

क्रमांक- अअ/सांचौर/2024-25/1459 दिनांक-16.10.2024

अल्पकालिन निविदा सूचना संख्या- 11 वर्ष 2024-25
NIB NO. : PWD2425A2287

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से Mtc of various BT roads under Risk & Cost व अन्य सड़क मरम्मत कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनो/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में कार्य जिनकी लागत राशि रू. 117.90 लाख है के लिए ईटेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

ऑनलाईन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख	18 अक्टूम्बर 2024, 9.30 बजे से 24 अक्टूम्बर 2024, सायं 06.00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कार्यवाही यू.बी.एन संख्या निम्नानुसार है।

UBN NO. 1. PWD2425WSOB08495, PWD2425WSOB08498, PWD2425WSOB08499, PWD2425WSOB08500, PWD2425WSOB08501, PWD2425WSOB08502, PWD2425WSOB08503, PWD2425WSOB0804, PWD2425WSOB0805, PWD2425WSOB0807, PWD2425WSOB0809

(ओम प्रकाश)
अधिशाषी अभियन्ता,
DIPR/C/10271/2024 सा.नि.वि. खण्ड सांचौर

बिना मान्यता के फर्जी हॉल मार्किंग करने पर कार्रवाई

भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की

जयपुर। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर मंगलवार को बालोतरा ज़िले के भैरु बाज़ार में स्थित एसबीआर अस्सेइंग एण्ड हॉल मार्किंग सेंटर पर छापेमारी की कार्रवाई की। ज्ञात रहे कि किसी भी हॉल्मार्क सेंटर को हॉल मार्किंग करने के लिए बीआईएस से मान्यता प्राप्त करनी होती है और उपरोक्त सेंटर बिना मान्यता के फर्जी हॉल मार्किंग करता हुआ पाया गया।

छापेमारी के दौरान बीआईएस की टीम की तरफ से दीपक लोदवाल, संयुक्त निदेशक एवं सचिन गुप्ता, उपनिदेशक मौजूद थे जिनके द्वारा उक्त सेंटर द्वारा फर्जी हाल मार्किंग में प्रयुक्त लेज़र मार्किंग मशीन एवं कंप्यूटर जब्त किए गए। उक्त सेंटर के विरुद्ध बीआईएस अधिनियम 2016 के अन्तर्गत कड़ी क़ानूनी कार्यवाही की

भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने बालोतरा के भैरु बाज़ार में छापा मारा।

जाएगी। सोने के ज़ेवरातों की खरीदी करते समय ग्राहकों को पूर्ण हॉल्मार्क को जेवरात पर जांच लेना चाहिए। भारत सरकार के आदेशनुसार बिना हॉल्मार्क

- बीआईएस की टीम ने फर्जी हाल मार्किंग में प्रयुक्त लेज़र मार्किंग मशीन एवं कंप्यूटर जब्त किए

या गलत हॉल्मार्क के साथ जेवरातों को बेचना कानूनन जूर्म है।

सही हॉल्मार्क में बीआईएस का लोगो, कैरट में शुद्धता और कोड (6 अंकीय ऐल्फनूमेरिक कोड) होना आवशयक है। कोड (6 अंकीय ऐल्फनूमेरिक कोड) को बीआईएस केयर एप के माध्यम से सत्यापित कर जेवरात पर हुई हॉल मार्किंग की प्रामाणिकता जान सकते हैं। बीआईएस केयर एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है।

जालोर एसपी की पत्नी से ठगों ने फोन कर रकम मांगी

बेटे को ड्रग्स मामले में लिप्त बताते हुए रूपये मांगे

जालोर, (कासं)। मंगलवार को जालोर जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचन्द यादव की पत्नी को साइबर ठगों ने कॉल कर उनके बेटे को ड्रग्स मामले में लिप्त बताते हुए रूपये देने की डिमाण्ड कर दी। इसके बाद एसपी जालोर को उसकी पत्नी द्वारा सूचना देने पर साइबर ठगो के बारे में जानकारी दी।

जालोर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचन्द्र यादव ने बताया कि मंगलवार को दिन में उनकी पत्नी के पास एक कॉल आया, कॉल करने वाले ने उनकी पत्नी को कहा कि उनका बेटा बिट्स में पढ़ाई (एमबीबीएस) करता है और उनका एकाउंट उक्त बैंक में है। उनके बेटे को पुलिस ने ड्रग्स में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार कर लिया है। इसे छुडवाना है तो एकाउंट में जल्दी से पैसे जमा कराओ। जिस प्रकार से कॉल करने वाले ने बेटे के बारे में डिटेल बताई वो बिल्कुल सही थी, इस कारण एकबारगी तो एसपी की पत्नी स्वयं घबरा गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सूझबूझ से काम लेते हुए दूसरे कॉल से पत्नी ने उनके पति जालोर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचन्द्र यादव को कॉल कर यह बात बताई। एसपी यादव ने स्थिति को भांप लिया और पत्नी को कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये साइबर ठग है बेटे को ही कॉल लगाकर बात कर लो। ठगों को इस बारे में भनक लगते ही उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बाद में एसपी यादव ने उक्त नम्बरों का पता लगाया तो जानकारी में सामने आया कि यह नम्बर मध्यप्रदेश के किसी गांव के किसी गरीब मजदूर के नाम से सिम ली हुई बताई जा रही है, जो उसके बाद से बंद आ रहे हैं। एसपी यादव ने मध्यप्रदेश के सम्बंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को इस सम्बंध में अवगत करवाकर तलाश करने की गुजारिश की है।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-धौलपुर

क्रमांक-1674-86 दिनांक-17.10.2024

निविदा सूचना संख्या - 02/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला धौलपुर में वर्षा से क्षतिग्रस्त विभिन्न सड़कों एवं पुलियाओं का स्थाई पुनरूद्धार कार्य (दोष निवारण अवधि 5 वर्ष सहित) उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न सक्षम श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" एवं "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर करवाना आवश्यक है।

Package No.	NIB NO.	UBN NO.
RJ-13-01/SDRF/2024-25 Under Dn. Dholpur	PWD2425A2276	PWD2425WSOB08466
RJ-13-02/SDRF/2024-25 Under Dn. Dholpur	PWD2425A2276	PWD2425WSOB08467
RJ-13-03/SDRF/2024-25 Under Dn. Dholpur	PWD2425A2276	PWD2425WSOB08468
RJ-13-04/SDRF/2024-25 Under Dn. Dholpur	PWD2425A2276	PWD2425WSOB08469
RJ-13-05/SDRF/2024-25 Under Dn. Dholpur	PWD2425A2276	PWD2425WSOB08470
RJ-13-06/SDRF/2024-25 Under Dn. Bari	PWD2425A2276	PWD2425WSOB08471
RJ-13-07/SDRF/2024-25 Under Dn. Bari	PWD2425A2276	PWD2425WSOB08472
RJ-13-08/SDRF/2024-25 Under Dn. Bari	PWD2425A2276	PWD2425WSOB08473
RJ-13-09/SDRF/2024-25 Under Dn. Rajakhera	PWD2425A2276	PWD2425WSOB08474
RJ-13-10/SDRF/2024-25 Under Dn. Rajakhera	PWD2425A2276	PWD2425WSOB08475

अधीक्षण अभियन्ता
DIPR/C/10248/2024 सा.नि.वि. वृत्त धौलपुर

कार लूटकर फरार हुये दो लुटेरे गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों लुटेरों को बापर्दा गिरफ्तार किया।

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। मयूरा सिटी में अल सुबह बोलेरो में सवार लुटेरे ब्रेजा कार लूटकर फरार हो गये। मदनगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एक घंटे में पीछा कर दोनों लुटेरों को गिरफ्त में लेकर वारदात में प्रयुक्त बोलेरो कार जब्त की।

पुलिस की गिरफ्त में आये लुटेरे बड़गांव किशनगढ़ निवासी देवेंद्र गुर्जर (24) पुत्र सुखराम व गांव नोहरिया किशनगढ़ निवासी राजू गुर्जर (23) पुत्र जयदेव है। दरअसल जीवन दीप कॉलोनी खोड़ा गणेश रोड़ निवासी अशोक महनोत अल सुबह मॉर्निंग वॉक के लिये ब्रेजा कार से मयूरा सिटी पहुंचा, इसी दौरान पहले से ही मौके की तलाश में तत्पर बोलेरो सवार बदमाशों ने कार की चाबी छीनकर कार लूटकर फरार हो गये। पीड़ित ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कराकर दोनों आरोपियों को धरदबोचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा के सुपरविजन में पुलिस उपाधीक्षक महिपाल चौधरी के निर्देश पर थाना प्रभारी शंभूसिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई की। पुलिस दोनों बापर्दा लुटेरों से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है।

ट्रेलर-कैंपर की आमने-सामने की टक्कर में दो जनों की मौत

बीकानेर, (निसं) जिले के श्रीडूंगरगढ़ में ट्रेलर और कैम्पर की आमने-सामने की टक्कर में दो बिजनेसमैन की मौत हो गई। हादसा देर रात करीब 11 बजे सरदारशहर-श्रीडूंगरगढ़ स्टेट हाईवे पर हुआ। दोनों युवकों के शव कैंपर में बुरी तरह फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से शवों को गाड़ी से बाहर निकाला गया।

जानकारी के अनुसार ट्रेलर श्रीडूंगरगढ़ की ओर आ रहा था और कैंपर सरदारशहर की तरफ जा रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि कैंपर के परखच्चे उड़ गए। हादसा डूंगरगढ़ से एक किलोमीटर दूर राजस्थान होटल के पास हुआ, जिसकी सूचना श्रीडूंगरपुर पुलिस को दी गई। पुलिस से पहले आपणो गांव श्रीडूंगरगढ़ सेवा समिति व डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सोसायटी के सेवादार एंबुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे। इतने में पुलिस भी पहुंच गई। गाड़ियों के हालात देखकर पुलिस ने क्रेन मंगवाई। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद कैम्पर में सवार दो लोगों को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। दोनों को एंबुलेंस से उपजिला अस्पताल श्रीडूंगरगढ़ भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, हादसे में ऊपनी (सरदाहरशहर) निवासी अमरचंद (40) पुत्र सूरजमल सिद्ध और देवेश (35) उर्फ मोनू जाखड़ निवासी सरदारशहर के वार्ड 23 की मौत हो गई। देवेश की प्लास्टर (पुट्टी) की फैक्ट्री है। वह तारानगर के विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के साले का लड़का था। बताया जा रहा है कि टायर फटने से कैंपर अनियंत्रित होकर ट्रेलर से जा भिड़ी। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया और पुलिस ने क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को मौके से हटवाया। इसके बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई।

सरदारशहर के रहने वाले और अमरचंद के दोस्त रोहित पांडिया ने बताया कि अमरचंद सिद्ध पिछले 15 साल से सरदारशहर में खाद-बीज की दुकान चलाते थे। पिछले पांच साल से कृषि उपज मंडी में भी अनाज का कारोबार करते थे। अमरचंद और देवेश साथ मिलकर डूंगरगढ़ के आढसर गांव में एक और फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे। उसी सिलसिले में दोनों अक्सर साथ आया-जाया करते थे। मंगलवार को दोनों बीकानेर से बिजली का केबल लेकर डूंगरगढ़ आ रहे थे। तभी हादसे का शिकार हो गए।

अधूरे सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूटा

अजमेर, (कासं)। दौराई खानपुरा गांव से एनएच हाईवे जाने वाली सड़क निर्माण कार्य को ठेकेदार द्वारा अधूरा छोडे जाने पर मंगलवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक

- ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विधायक व एडीए के खिलाफ नाराजगी जताई, आंदोलन की चेतावनी दी

सहित एडीए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजती जताई। ग्रामीणों ने रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दीपावली से पूर्व सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो ग्रामीण आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

खानपुरा निवासी सुआसिंह रावत व बाबू भाई ने बताया कि बायपास से खानपुरा दौराई की ओर जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग पिछले दिनों हुई बरसात के कारण खानपुरा तालाब भरने से चादर चलने लगी, जिससे सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसे लेकर पूर्व में प्रशासन को अवगत कराया था, जिसके बाद सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी हुए। विधायक अनिता भदेल ने सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया। इसके बाद ठेकेदार ने चार दिन कार्य कर सड़क निर्माण को अधूरा छोड़ दिया। सड़क का निर्माण नहीं कराए जाने के कारण ग्रामीणों को कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, जिसे ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी का सामना पड़ रहा है। सड़क के अभाव में जहां राहगीरों का आवागमन बाधित हो रहा है। वहीं प्रसव पीड़ा के दौरान गांव की प्रसूताओं को अस्पताल में ले जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बनाने की मांग कई बार संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में रोष है।

सड़क निर्माण कार्य को ठेकेदार द्वारा अधूरा छोडे जाने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर ठेकेदार चला गया है। ग्रामीणों का कहना रहा कि सड़क निर्माण कार्य को पुनः शुरू कराने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से कई बार की जा चुकी है, लेकिन आज तक हल नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों ने कहा कि पत्र लिखकर कलेक्टर लोक बंधु को भी अवगत कराया गया है। यदि दीपावली से पूर्व सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया गया तो सभी ग्रामीण आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड राजाखेडा

क्रमांक-1083-96 दिनांक-17.10.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या- 03/2024-25
NIB CODE PWD2425A2266 and UBN IS: PWD2425WSOB08441, PWD2425WSOB08442

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड राजाखेडा जिला धौलपुर में सडक एवं पुलिया मरम्मत कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदको, राज्य सरकार के अन्य विभागों मे पंजीकृत "एए", "ए", "बी", "सी" एवं "डी" श्रेणी संवेदको एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदको, जो कि राजस्थान सरकार के "एए", "ए", "बी", "सी" एवं "डी" श्रेणी संवेदको के समकक्ष हो, से कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाई "www.eproc.dipronlineorg" व http://www.pwd.rajasthan.gov.in/, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं "www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	मुख्यालय का नाम	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड राजाखेडा
1	निविदा का कार्य	पुलिया स्थाई मरम्मत कार्य
2	निविदा की कुल लागत	रु. 77.70 लाख
3	निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि जाम कराने की प्रक्रिया	वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र प.(5)/वित्त/सावितेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई-ग्रास चालान पर ऑनलाईन एक ही चालान द्वारा निम्न बजट मद में जमा करानी है। 1. निविदा शुल्क 0075-00-800-52-01 2. प्रोसेसिंग शुल्क 8658-00-102-(16)-(02) (निर्माण विभाग) (RISL Fees) 3. धरोहर राशि 8443-00-108-00-00
4	निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की तारीख (वेबसाइट पर)	दिनांक 21.10.2024 प्रात 11.00 बजे दिनांक 04.11.2024 सायं 6.00 बजे तक
5	निविदा फार्म जमा कराने की तारीख (वेबसाइट पर)	दिनांक 21.10.2024 प्रात 11.00 बजे दिनांक 04.11.2024 सायं 6.00 बजे तक
6	निविदा खोलने की तारीख (वेबसाईट पर)	दिनांक 05.11.2024 सायं 04.00 बजे

(डी.के. गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
DIPR/C/10214/2024 सा.नि.वि. खण्ड राजाखेडा

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :- राजकाज 11297016 दिनांक :- 21/10/2024

निविदा सूचना संख्या :- जोन पीएचई/05/2024-25

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से निम्न कार्य से संबंधित संस्थान/फर्मो/व्यक्ति/विक्रेता से निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यो की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा, शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jodhpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

NIB CODE :- JOD2425A0089
Tender ID/UBN No. :- JOD2425WSOB00186

राज.संवाद/सी/24/6838 अधिशाषी अभियंता (पीएचई)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. MANDRAIL

File No. 720 Date: 17.10.2024

Notice Inviting Bid

Bid (E-NIT No. 03/2024-25) for "Remaining work of Rehabilitation of Rural Roads (MDR,ODR & VR) Under RIDF-26 Package No. RJ-22- 06/2020-21 in Distt. Karauli" are invited from Registard & Interested bidders up to 6.00 PM on 05.11.2024. procurement portal (http://eproc. rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state departmental website may be Visited for Other Details of Bid. The approximate value of the procurement is Rs. 45.04 lacs.
NIB CODE: PWD2425A2285
UBN CODE: PWD2425WSOB08494

(Neelam Kumari Meena)
Executive Engineer
PWD Division Mandrail
DIPR/C/10265/2024

संक्षिप्त

वाहन दुर्घटना में युवक की मौत

टोंक। थाना मेहन्दवास क्षेत्र के जयपुर-कोटा नेशल हाईवे-52 पर पर बीते दिन एक मोटरसाईकिल सवार को ट्रक ने कुचल दिया, जिसकी दौराने उपचार उसकी मौत हो गई। मेहन्दवास थाना प्रभारी रामजीलाल बैरवा ने बताया कि नेशल हाईवे-52 पर उस्मानपुरा कट के पास एक हादसे में ट्रक ने मोटरसाईकिल सवार युवक भागचन्द बैरागी पुत्र श्योकिशन उम्र 18 निवासी दाखिया को कुचल दिया। मौके पर थाना पुलिस पंहुची तथा युवक को एम्बुलेन्स से जिला चिकित्सालय टोंक में भर्ती कराया, जिसकी दौराने उपचार मौत हो गई। सूचना पर पंहुचे परिजनो को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव सौप दिया।

17 साल से फरार स्थाई वारंटी गिरफ्तार

मालपुरा । वांछित अपराधियों की धर पकड के लिए शुरू किये गये विशेष अभियान के तहत गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए 17 साल से फरार वांछित स्थाई वारंटी को किया गिरफ्तार। जिला टोंक से जारी सुदा स्थाई गिरफ्तारी वारंट मे वांछित एवं विगत 17 वर्षो से फरार चल रहे थाने के स्थाई वारंटी कैलाश मीणा पुत्र कल्याण मीणा निवासी दण्ड की ढाणी महाराजपुरा थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर को गिरफ्तार किया गया।

एकता दौड़ का आयोजन आज

फुलेरा । देशभर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 31अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष में बुधवार 23 अक्टूबर को एकता दौड़ का आयोजन नगरपालिका मंडल फुलेरा के तत्वाधान में किया जा रहा है। जानकारी देते हुए पालिका अधिशाषी अधिकारी शिवराज कृष्णा ने बताया की स्वच्छता और स्वास्थ्य थीम के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन 5 पालिका क्षेत्र में 23 अक्टूबर को नगरपालिका कार्यालय से एकता दौड़ का आयोजन रखा गया है जो की नगरपालिका के मुख्य मार्गो जोबनेर बालाजी बायपास, ज्योतिबा फुले सर्किल, इंद्रा बाजार, हलवाई बाजार, गणगौरी बाजार होते हुए गांधी चौक पहुंचेगी।

27 को होगा प्रतिभा सम्मान समारोह

निवाई। अखिल भारतीय रैगर महासभा के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर स्थित रैगर छात्रावास में रामगोपाल सेवलिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष शंकरलाल हाथीवाल ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में जिले की 700 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। भामाशाह गोपाल दबकिया व भामाशाह उमरावमल बांसीवाल द्वारा प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा होंगे।

अनुदान राशि जारी किये जाने की मांग

दौसा। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने मंगलवार को केन्द्रीय जनजाति मंत्री को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति छात्रो की छात्रवृत्ति हेते अनुदान राशि जारी किये जाने की मांग की है। सांसद मुरारीलाल मीणा ने अपने पत्र में बताया कि अनुसूचित जनजाति परिवार अधिकांश निर्धन वर्ग में आते हैं, जहां इनके परिवार के सदस्यों का पालन पोषण ही अर्थ के अभाव में मुश्किल होता है। छात्रवृत्ति हेतु पिछले पांच वर्ष से राज्य सरकार को केंद्र द्वारा मिलने वाले केंद्रीयांश कि राशि जो कि लगाग पांच सौ करोड़ है, उसे शीघ्र जारी करने की मांग की है

एडवोकेट महेश शर्मा नोटेरी पब्लिक नियुक्त

मालपुरा । भारत सरकार की और से जारी की गई नोटेरी की सुची मे एडवोकेट महेश शर्मा बने नोटेरी। शर्मा ने बताया कि जारी सुची मे युवा एडवोकेट महेश शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा को मालपुरा कोर्ट मे नोटेरी पब्लिक नियुक्त किये जाने पर अधिवक्ताओं ने दी बधाई।

एक उम्मीदवार ने भरा नामांकन

टोंक। देवली विधानसभा सीट के लिए एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया है।विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने के चौथे दिन देवली-उनियारा विधानसभा सीट के लिए राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी योगेश कुमार शर्मा ने नामांकन दाखिल किया।

लूटपाट के सात आरोपियों को मित्रपुरा पुलिस ने दबोचा

बौंली-बामनवास । क्षेत्र की सीमा के पास स्थित बनास की पुलिया पर रविवार को प्रात: करीब 9 बजे सवाई माधोपुर के व्यापारी कपिल राठी स्कूटी सवार से दो बाइक सवार चार लूटेरों ने स्कूटी से धक्का मार कर गिरा दिया एवं स्कूटी छीन कर फरार हो गए, व्यापारी भाड़ोती से उधारी के पैसे लेकर सवाई माधोपुर जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने स्कूटी व बाइक को कुछ देर बाद बरामद कर लिया था लेकिन लुटेरे फरार हो गए थे। मित्रपुरा थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि लुटेरों की गिरफ्तारी को लेकर भरतपुर पुलिस महानिरीक्षक एवं सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में गठित विशेष पुलिस टीम ने बनास नदी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया पुलिस सरकारी वाहन से बोरदा होते हुए लुटेरों का पीछा करने लगे दबंग पुलिस टीम को पीछा करता देखकर लुटेरों ने अपनी स्कॉर्पियो को उबड खाबड रास्ते से मोरल नदी की तरफ ले गए जहां पर मित्रपुरा थाना प्रभारी यशपाल सिंह एवं सहायक उप निरीक्षक बत्ती लाल के साथ साहसी पुलिस टीम ने लुटेरों को चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया स्कॉर्पियो वह लूट की 2लाख 35 हजार रुपए की राशि बरामद कर ली एवं सात लुटेरों को दबोच लिया जिनमें चार मुख्य लुटेरे एवं तीन सहयोगी शामिल है। पकड़े गए लुटेरों में तेज सिंह उर्फ तेजा गुर्जर उम्र 23 वर्ष निवासी चांदनहोली थाना बौंली, आसाराम गुर्जर उम्र 25 वर्ष निवासी जटवाड़ा थाना सुरवाल, हुकम सिंह गुर्जर उम्र 21 वर्ष निवासी बालोली थाना मलारना डूंगर, नितेश ब्राह्मण उम्र 20 वर्ष निवासी लोरवाडा थाना सुरवाल, सोमेंद्र गुर्जर उम्र 20 वर्ष निवासी रूपाडी थाना गढ़मोरा जिला करौली, राहुल मीणा उम्र 20 वर्ष निवासी जयसिंहपुरा थाना बसवा जिला दौसा एवं निखिल सिंह जाट उम्र 19 वर्ष निवासी बजडौली थाना शिवदासपुरा जयपुर को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस टीम ने सात लुटेरों को दबोचा।

- स्कॉर्पियो व लूट की 2 लाख 35 हजार रुपए की राशि बरामद की

पावटा कस्बे का निरीक्षण किया

पावटा। उपखंड पावटा क्षेत्र के कस्बे पावटा का सोमवार रात्रि उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय ने आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय ने उपखंड क्षेत्र के पावटा कस्बे के मुय बाजारों व मुय मार्गो का आकस्मिक निरीक्षण कर कस्बे मे पालिका द्वारा रात्रि मे की जा रही सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए सफाई कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। वही पालिका द्वारा कस्बे मे फैल रही बीमारियों के चलते हो रही फॉगिंग व्यवस्था का जायजा लिया।

वही कस्बे के सुभाष चौक पर अतिक्रमण के चलते पालिका ईओ फतेहसिंह मीणा द्वारा चिंहित जगहों को देखते हुए दिशा निर्देश दिये। वही पाव टाकस्बे कस्बे के मुय बाजार सुभाष चौक पर स्थित सुभाषचंद्र बोस स्मारक की मरमत हेतु आवश्यक निर्देश दिये। वही उन्होंने रात्रि मे रोशनी व्यवस्थाओ का जायजा लेते हुए दीपावली पर्व को देखते हुए बंद पडी लाईटो को शीघ्र चालू करवाने के निर्देश दिये।

सार-समाचार

एसडीएम को पार्षदों ने जलदाय विभाग के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई

सांभरझील। यहां की पुरानी देवयानी रोड पर कथित पेयजल लाइन बिछाने के लिए करीब 4 माह पहले खोदी गई सड़क का रहस्य और जलदाय विभाग की ओर से गुपचुप बिछाई जाने वाली पेयजल लाइन का मामला अंदरुनी रूप से अभी भी शांत नहीं हुआ है। सड़क किसने खोदी नगर पालिका को पता नहीं है और जलदाय विभाग के अधिकारी पहले ही मना कर चुके थे कि सड़क हमने नहीं तोड़ी है। दोनों ही विभाग एक दूसरे पर टोपी डाल रहे हैं और झूंठ का पुलिंदा सरकाने में लगे हुए हैं। कुछ प्रभावशाली लोगों को अवैध रूप से पेयजल सप्लाई पहुंचने के लिए वार्ड 20, 21,22 23 के सैकड़ो परिवारों तक की अनदेखी की जा रही है। वार्ड पार्षद ज्योति कुमावत की ओर से सर्वप्रथम इस मामले में पत्राचार किया जब विभाग ने तवज्जो नहीं दी तो आखिरकार पार्षद पति टीकमचंद कुमावत और पार्षद शकील ने इस मुहिम का बीड़ा अपने हाथों में लिया। चारों वार्ड के लोगों को भी इस अवैध रूप से बिछाए जाने वाली पेयजल लाइन का पता चला तो उन्होंने भी पार्षदों की हिम्मत बढाई और इस मुहिम का हिस्सा बने। बता दे की रविवार की सुबह गुपचुप तरीके से पेयजल लाइन बिछाने की योजना का वार्ड के लोगों और पार्षदों को पता चला तो दोनों पार्षदों के नेतृत्व में भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ जलदाय विभाग कार्यालय पहुंच गई। एक्सईएन गोपीचंद वर्मा ने भी मामले को हल्के में लेते हुए भीड़ को ही समझाने लगे कि हम तो पेयजल लाइन बिछाएंगे कनेक्शन नहीं करेंगे। उस वक्त कार्यालय में विभाग के सहायक अभियंता दयाराम और कनिष्ठ अभियंता ओपी वर्मा को भी बुला लिया गया था। पार्षदों को संदेह हुआ कि विभाग कभी भी पानी की लाइन डाल सकता है तो इसके बाद भीड़ का नेतृत्व कर रहे दोनों पार्षद एसडीएम कार्यालय में पहुंच गए। एसडीम को संपूर्ण तथ्यों की जानकारी से अवगत कराया तो वे भी आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने फोन करके दोनों अधिकारियों को अपने ऑफिस में बुला लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में एसडीएम ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से अलग से वार्ता कर उन्हें नियम अनुसार वार्ड के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश प्रदान किए। इस मामले में सोमवार को सहायक अभियंता दयाराम से बात करने पर बताया कि अभी कोई काम नहीं किया जाएगा। हमने काम को होल्ड पर रख लिया है। अमृत योजना में जो कार्य होंगे उसी अनुरूप पेयजल लाइन बिछाई जाएगी।

पांच बालिकाओं का राज्य स्तर पर चयन

सावरदा । पांचबालिकाओं का राज्य स्तर पर चयन , कस्बे में खुशी की लहर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बिलौंची में आयोजित हो रही संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय महेशपुरा की छात्राओं ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जिसके फल स्वरुप पांच छात्राओं का चयन राज्य स्तर पर चयन किया गया है । खेल कूद प्रतियोगिता जो कि अगले माह से गोगामेडी (हनुमानगढ़) में आयोजित होगी। आयोजित क्रिड़ा प्रतियोगिता में राजकिय प्रवेशिका विधालय महेशपुरा की पांच छात्राओं का चयन हुआ है। संस्था प्रधान राजेंद्र कुमार ने बताया कि टीम प्रभारी समुद्र पुरी गोस्वामी व सह टीम प्रभारी जीतू सिंह गौड के नेतृत्व में बिलौंची में छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताएं जीती ।जिसके फल स्वरुप कुसुम चौधरी को गोला फेंक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण राज्य स्तर पर चयन हुआ। इसके साथ निकिता चौधरी ने तस्तरी फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पर कब्जा कर राज्य स्तर के लिए चयनित की गई तथा मोनिका गुर्जर तथा अनीता चौधरी दोनों ने ऊंची कूद में प्रथम व द्वितीय स्थान के साथ राज्य स्तर की प्रतियोगिता में अपना मुकाम हासिल किया है ,तथा पार्वती कुलरिया ने 1500 मीटर में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके राज्य स्तर पर चयन की सार्थकता की।

5 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग दिया

शाहपुरा । स्थानीय श्री कृष्ण गोशाला में सौर ऊर्जा पैनल लगाने हेतु देकर 94 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक सूरजमल शिखवाल ने सामाजिक सेवा की एक अनोखी मिसाल पेश की है। इस अवसर पर शिक्षक सूरजमल शिखवाल ने कहा, "मैंने अपना जीवन शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिए समर्पित किया है। इस अवसर पर गोशाला प्रबंधन ने कहा, "सूरजमल शिखवाल की यह पहल हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की पहल से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है।" इस मौके पर गोशाला अध्यक्ष चैतन्य मीणा, सचिव मूलशंकर शर्मा, प्रबंधक महेश दीवान, कोषाध्यक्ष मोहन लाल पारीक, कार्यकारिणी सदस्य नीलकमल शिखवाल समेत अनेक पदाधिकारी, सदस्य मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि गोशाला प्रबंधन को गत दिनों मोहन लाल बड़सीवाल द्वारा एक नया ट्रेक्टर, स्वर्गीय बनवारी लाल नरेड़ी के परिजनों द्वारा 2 लाख रुपए की लागत के कृषि उपकरण, ट्राली तथा एयू बैंक की ओर से एक गौ ग्रास संग्रहण हेतु ई रिक्शा प्रदान किया था।

राजपूत समाज की हुई बैठक

निवाई। ग्राम पंचायत पलेई में जुझार जी महाराज के स्थान पर सती माता के मंदिर पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर राजपूत समाज की बैठक आयोजित हुई। दशरथसिंह चौहान ने बताया कि निवाई स्थित सती माता मंदिर पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिससे राजपूत समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि उक्त मामले को लेकर सर्वसम्मत से 6 नवंबर को विशाल आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन को लेकर गांव गांव में राजपूत समाज द्वारा बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में राजपूत समाज की महिला व पुरुषों ने निर्णय लेते हुए राजपूत समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर आंदोलन में भाग लेंगे और सती माता के मंदिर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि उप चुनाव में राजपूत समाज का साथ देने वाले को ही मतदान करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर गोपालसिंह चौहान, गोविंदसिंह चौहान, हितेशसिंह चौहान, दीपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, कन्नू बना, जयसिंह चौहान, आशुतोष सिंह, राजवीर सिंह, भंवर सिंह व भूपेंद्र सहित कई लोग मौजूद थे।

रेलवे में यूनियन के मान्यता के लिए चुनाव 4 से

जयपुर । रेलवे के मान्यता चुनाव में शामिल होने के लिए 21 अक्टूबर 2024 को उत्तर पश्चिम रेलवे जोनल कमेटी द्वारा पूरे भारतीय रेलवे से आए सैकड़ों कर्मचारियों की उपस्थिति में नामांकन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 4 से 6 दिसंबर को होने वाले रेलवे में यूनियन के मान्यता के लिए चुनाव होने जा रहे है जो पहले 2007 और 2013 में हुए थे उसके ठीक 11साल बाद चुनाव रेलवे द्वारा करवाए जा रहे है जिससे रेल कर्मचारियों में उत्साह व्याप्त है। इन चुनावों में जो भी यूनियन मतदान का 35 प्रतिशत या कुल वोटर्स का 30 प्रतिशत वोट जिनको प्राप्त होगा वो यूनियन मान्यता में आएगी। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोनल अध्यक्ष अजय गुर्जर एवं महामंत्री मनोज कटारिया के नेतृत्व में सैकड़ो कर्मचारियों द्वारा जवाहर सर्किल से चलकर महाप्रबंधक महोदय कार्यालय शांतिपूर्वक ढंग से पहुंचते हुए नामांकन किया गया। नामांकन के दौरान सुरेन्द्र नरूका ,जयपुर मण्डल अध्यक्ष मदन लाल योगी ,सचिव रामखिलाडी मीना जी, हेमराज गुर्जर हरिओम पांचाल जी, बांदीकुई बैंक के डायरेक्टर सोहन लाल कसाना ,जोनल पदाधिकारी सोनू शर्मा, हीरालाल मीना, संजय गोतम मोहन यादव,बीकानेर डिविजन से मुकेश जोनल कोषाध्यक्ष , वेद स्वामी, धर्मेंद्र बीकानेर से , रणवीर नेहरा , अजमेर से बजरंग जाट, संजय नीठरवाल, जोधपुर से राजेंद्र मीना , विकास जोधपुर , मंडल सचिव सतीश गुर्जर आदि सैकड़ों कर्मचारियों ने नॉमिनेशन में भाग लिया।

समर्थन मुल्य पर मुंग की खरीद शुरू

मालपुरा । सरकारी समर्थन मुल्य पर मुंग की खरीद के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा मंगलवार को कृषि मण्डी प्लेट फार्म पर सरकारी कांटे का विधिवत शुभारम्भ किया गया। उपखण्ड अधिकारी अमित चौधरी ने पुजा अर्चना कर सरकारी खरीद केन्द्र का शुभारम्भ करते हुए मोजूद किसानो को संबोधित करने हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज का पुरा दाम देने के उद्देश्य को लेकर सरकार ने समर्थन मुल्य पर प्रदेश में खरीद केन्द्र शुरू किये है।

'खिलाडी आगे बढ़ने के लिए रहें प्रयत्नशील'

दूदू । उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचन्द बैरवा मंगलवार को दूदू जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिले के साखुन उपतहसील मुख्यालय स्थित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम सहित क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की।

उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचन्द बैरवा ने जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाडियों की प्रतिभा को निखारने, उनको प्रोत्साहित करने का कार्य व दायित्व हमारा है। वर्तमान की प्रतिभाएँ विकसित भारत की बुनियाद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में युवा प्रतिभाओं की भागीदारी आवश्यक है।

खिलाडी अपने लक्ष्य को ध्यान में रख कर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता की विजेता टीमों व खिलाडियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह के पश्चात उपमुख्यमंत्री डॉ बैरवा कार्यक्रम स्थल से निकलने लगे तो ग्रामीणों ने चाय पीने का आग्रह उपमुख्यमंत्री से किया, इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर गोपाल परिहार, मौजमाबाद उपखंड अधिकारी बलवीर सिंह, तहसीलदार मदन परमार सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

- एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन पर खिलाडियों को किया सम्मानित

आहूजा नहीं लड़ेंगे चुनाव, वे रामगढ़ के नहीं, राजस्थान के नेता हैं : बेढ़म

अलवर। जय आहूजा को मनाने आए मंत्रीने जब कहा कि जय चुनाव नही लडेगे वे रामगढ़ नहीं राजस्थान के नेता है वे राजस्थान की राजनीति करेंगे इन शब्दों का अर्थ यही लगाया जा रहा है कि भाजपा ने जय आहूजा को किसी बड़े पद का आश्वासन की लालीपॉप दे दी है यह समाचार अधिसूचना लगने से एक दिन पूर्व हम प्रकाशित कर चुके है लेकिन पार्टी के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलने से आहूजा माने नहीं और उन्होंने बागी होने का यह प्रोग्राम बनाया ताकि पार्टी के बडे नेता आकर उन्हें मानाए और उनका कद बढ़ जाए आखिर पार्टी ने रूठे जय आहूजा को आश्वासन का खिलोना देकर मना ही लिया।

ये जय और जवाहर की जोड़ी है। मेरा झोली फैलाकर निवेदन है। मैं कोई बात कहूं तो उसका पालन करेंगे या नहीं। जय रामगढ़ का नेता नहीं है, राजस्थान का नेता हैं। मैं जय का भाई होने के नाते, बीजेपी का कार्यकर्ता व भजनलाल के मंत्रिमंडल का हिस्सा होने के नाते कह रहा हूं- जय भाई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा।

यह बात गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मंगलवार को रामगढ़ में बीजेपी नेता जय आहूजा के घर आए समर्थकों को संबोधित करते हुए कहीं।

असल में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जय आहूजा ने अपने घर पर समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी। उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के नेतृत्व में रामगढ़ टीम भेजी थी। जिन्होंने समर्थकों के बीच में अपनी बात रखी। इसके बाद जय आहूजा के चुनाव नहीं लडने का ऐलान कर दिया गया।

इससे पहले जय आहूजा ने कहा- राजनीति आएगी चली जाएगी। एक लाइन में कहना चाहूंगा। तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे... कहकर रोने लगे। इससे पहले जय आहूजा ने समर्थकों को संबोधित किया। अपनी बात अलग-अलग तरीके से कही। कई बार अपनी बात कहते हुए भावुक भी हो गए थे। उनके पास बेचारगी के आंसू नहीं हैं केवल भावना के हैं।

जयपुर से सीएम से मिलकर रामगढ़ में जय आहूजा को मनाने आए विराट नगर के विधायक कुलदीप धनकड़ ने कहा- मैं एक वचन देकर जाना चाहता हूं कि जय भइया एक विधानसभा नहीं, एक जिला नहीं बल्कि राजस्थान में बीजेपी के साथ-साथ सरकार में रहकर सेवा करेंगे।

सार्वजनिक स्थल पर मुर्गियों के दभड़े हटवाने की मांग

कोटपूतली। हिन्दू जागरण मंच कोटपूतली ईकाई ने आम रास्ते पर अवैध मांस के खोके और सार्वजनिक स्थल पर मुर्गियों के दभड़े हटवाने को लेकर मंगलवार को जिला एसपी राजन दुष्यंत को ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि कस्बे में राठौड़ पार्क, दिल्ली दरवाजा, पॉवर हाऊस के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने वाले आम रास्ते पर अवैध रूप से बिना लाईसेंस के मांस विक्रेताओं के अवैध खोके रखे है। जिनमें रोड़ पर रखकर पशुओं को काटा जाता है जो कि अवैध है और अतिक्रमण में है। वहां दिन भर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और रोड़ पर ही मांस का कचरा डाला जाता है। जिससे रोड़ पर आवारा कुत्तों का झुंड भी मंडराता रहता है। जिससे आये दिन दुर्घटनायें एवं जाम की स्थिति भी बनी रहती है। आसपास कॉलोनियों और पास में स्थित विद्यालयों का आम रास्ता भी यही है। महिलाओं को दैनिक कार्य और बच्चों को स्कूल भी इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इन अवैध मांस के खोकों के कारण वातावरण दूषित रहता है और आने जाने वाले बच्चों को कुत्ते काटने की घटनायें प्रतिदिन होती है। पूर्व में भी आम नागरिक, व्यापार मंडल, अनेक हिन्दू संगठनों द्वारा प्रशासन को अवगत करवाया गया था। जिस पर इनको हटा दिया गया था। अब पिछले दिनों से पुनरू स्थापित कर दिया गया। हिन्दू जागरण मंच नगर संयोजक जितेन्द्र जोशी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटवाया जायें अन्यथा कोटपूतली की जनता, व्यापारिक संगठन व सभी हिन्दू संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान नगर संयोजक विक्रम कसाना, प्रहलाद दास, विनोद गुप्ता, जितेन्द्र चौधरी, हेमंत अग्रवाल, शिवकुमार गुप्ता, प्रवीण बंसल, एड. चेतराम रावत, अरविंद वर्मा, प्रफुल्ल रमन, अमरजीत सोनी व सुनील पहलवान,चीनू ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

- हिन्दू जागरण मंच जिला कार्यकारिणी ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

हिन्दू जागरण मंच जिला कार्यकारिणी ने एसपी को ज्ञापन सौंपा।

कचरा निस्तारण की समस्या को लेकर सौपा ज्ञापन

गौरक्षक ज्ञापन सौपते हुए।

पावटा। कस्बा क्षेत्र के नदी बहाव क्षेत्र में खुले में विचरण कर रहे गौ वंश के चारे पानी की व्यवस्था व कचरा निस्तारण की समस्या को लेकर गौ रक्षको ने मंगलवार को पावटा उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौपा। गौरक्षको ने ज्ञापन सौपते हुए बताया कि पावटा कस्बे मे स्थाई डंपिंग यार्ड के लिए भूमि चिंहित करने के एक वर्ष बाद भी पावटा प्रागपुरा नगरपालिका द्वारा क्षेत्र का कचरा अस्थाई रूप से खुले मे नदी बहाव क्षेत्र मे ही डाला जा रहा है।

आस पास मवेशी मर जाने के बाद भी उसी जगह फैंक दिया जाता है। जिसका ग्रामीणों व बेजुबान जीवो पर घातक असर पड रहा है। वही कई तरह की संक्रमित बिमारियाँ फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। जहाँ इसकी बद्बु से लोगो का जीना दुश्वार है वही कचरे मे पडी पॉलीथीन व प्लास्टिक खाकर गौ वंश काल का ग्रास बन रहा है। नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते शहरवासी बद से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर है। कस्बे के नदी बहाव क्षेत्र मे खुले मे पडा कचरा कस्बे की शोभा को ठेंगा दिखा रहा है।

शहर मे असुविधाओ के लिए नगरपालिका को जिमेदार ठहराते हुए गौरक्षकों ने उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय से समस्याओ के निस्तारण की मांग की है। इस दौरान गौ रक्षक प्रह्लाद सैन, नितेश शर्मा, वार्ड पार्षद लोकेश शर्मा, बीएल आर्य, सूरज, मालीराम, हनुमान, कपिल, बलराम सहित गौ सेवा दल के सदस्य मौजूद रहे।

अस्पतालों में दवाइयां की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

खैरथल। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरथल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने खनन विभाग से कोई के नहीं आने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा अधिकारी दो टूक शब्दों में सुन ले और बिना सूचना के दिए बैठको में अनुपस्थित नहीं रहे।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सम्भावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सूचारू रूप से आपूर्ति एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट, सम्पर्क पोर्टल, सीएमओ आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। क्षितग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने की प्रगति की समीक्षा की।

मौसमी बीमारियों की जानकारी प्राप्त कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पतालों में दवाइयां की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने घोषणा एवं जेजेएम प्रगति की समीक्षा कर लंबित विद्युत कनेक्शन को जल्दी पूरा करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि जिले में जल जीवन मिशन योजना में प्रगति आ सके। खनन विभाग से कोई अधिकारी प्रतिनिधि के नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले जिला कलेक्टर की वीसी बैठक में किशनगढ़ बास नगर पालिका ईओ को बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर कारण बताओं नोटिस दिया जा चुका है।

- खनन विभाग से कोई अधिकारी प्रतिनिधि के नहीं पहुंचने पर नाराज हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने दिए कारण बताओं नोटिस जारी के निर्देश

खैरथल जिला सचिवालय पर समीक्षा बैठक लेते अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट।

बैठक के दौरान कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन, अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग विकास यादव, अधीक्षण अभियंता पीएचईडी धर्मवीर यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट, जिला परिषद अधिकारी राकेश सोनी , विद्युत विभाग, नगर परिषद कनिष्क अभियंता मोतीलाल वर्मा सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

3 दिवसीय वार्षिक उर्स कूल की रस्म के साथ सम्पन्न

मनोहरपुर । जयपुर के शास्त्री नगर पुलिस थाने के पास वाले मुस्लिम कब्रस्तान में स्थित हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिक हजरत मद्रासी बाबा रहमतुल्ला अलेह का 3 दिवसीय वार्षिक उर्स 22 अक्टूबर मंगलवार को कूल की रस्म के साथ में विधिवत संपन्न होगया। मुतवली व सज्जादा नशीन खलीफा मोहम्मद सलीम ने बताया कि 20 अक्टूबर रविवार को सुबह 9 बजे कुरानख्वानी हुई रात्रि 9 बजे बाद में मिलादुन्नबी कमेटी द्वारा मिलाद शरीफ की गई जिसमें खुदा के हुकम व मोहम्मद साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कही गई। ईसी प्रकार सोमवार 21 अक्टूबर की शाम को खादिमो की उपस्तिथि में चादर पेश की गई इस दौरान उपस्तिथ जायरीनों के मुख पर यही स्वर फुट रहे थे कि "निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई रोज हजारो की तकदीर देखी" रात्रि 9 बजे बाद में राजस्थानी प्रसिद्ध कव्वाल पार्टी द्वारा बाबा की मान मनुहार की गई । मंगलवार 22 अक्टूबर को सुबह 9 बजे रंग व कूल 10 बजे फातेहा, लंगर व दुआ हुई।

महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और मामला दिल्ली की अदालत में चल रहा है।
– विनेश फोगाट

भारतीय पहलवान, यह साक्षी मलिका की निजी राय है, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी

केन विलियम्सन

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन चोट के कारण भारत के खिलाफ गुरुवार को होने वाले दूसरे टेस्ट में भी नहीं खलेंगे। विलियमसन को यह चोट पिछले महीने श्रीलंका दौरे के दौरान लगी थी। उनकी जगह बेंगलुरु टेस्ट में विल यंग ने लिया था। न्यूजीलैंड टीम के कोच गैरी स्टीड ने कहा कि केन पूरी तरह फिट रहने पर तीसरे टेस्ट में खेल सकते हैं। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने कहा, हम केन की चोट पर नजर बनाये हुये हैं। वह सही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। हम उनके तीसरे मैच तक पूरी तरह से फिट होने की उम्मीद कर रहे हैं।

क्या आप जानते हैं ?... मैक्सिको में हुए 1970 के विश्वकप फुटबॉल में सबसे पहली बार स्थानापन्न खिलाड़ियों और लाल व पीले कार्ड शुरू किये गये।

पुणे में भारत चाहेगा कि उनके स्पिनर कीवी टीम पर हावी रहे

पुणे, 22 अक्टूबर। बेंगलुरू टेस्ट गंवाने के बाद अब भारतीय टीम की पुणे में अग्निपरीक्षा होगी। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड पुणे के मैदान में आमने-सामने होंगी। हालांकि, पुणे की पिच कैसी होगी ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच वैसी नहीं थी, जैसी टीम इंडिया ने चाही थी।

हालांकि, इसमें पिच क्यूरेटर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बारिश और मौसम की वजह से पिच का मिजाज बदल गया था। लेकिन दूसरे टेस्ट में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।क्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो पुणे में काली मिट्टी की पिच का इस्तेमाल होने वाला है, जहां पर स्पिनरों को खूब मदद मिलेगी, क्योंकि पिच पर घास नहीं होगी। पिच को फ्लैट और स्लोअर तैयार कराया जा रहा है। बाउंस भी गेंद को यहां कम मिलेगा, लेकिन बेंगुलरु की पिच में तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद थी। मैच के पांचवें और खेल के चौथे दिन तक स्पिनरों के लिए कोई खास मदद पिच से नहीं मिली थी, लेकिन पुणे और फिर मुंबई में स्पिनरों को मदद करने वाली पिचों का इस्तेमाल होगा। हालांकि, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लाल मिट्टी की पिच तैयार की जाएगी। वह मुकाबला 1 नवंबर से शुरू होगा।

बेंगलुरु की पिच ने टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाला गम दिया, क्योंकि टीम 46 रनों पर ढेर हो गई थी। भारतीय टीम के इतिहास में घर पर ये सबसे कम स्कोर था। इससे पहले टीम ने 75 रन पर अपने सभी विकेट खोए थे लेकिन पहली बार टीम 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। यहां तक कि टीम को 8 विकेट से हार मिली। 36 साल के बाद न्यूजीलैंड के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस हार का बदला और सीरीज में 1-1 की बराबरी के लिए भारतीय टीम पुणे में भी 3 स्पिनरों के साथ उतरेगी। पिच से भी मदद होगी तो भारत चाहेगा कि उनके स्पिनर यहां कीवी टीम पर हावी रहें।

ऋषभ पंत पुणे टेस्ट खेलेंगे और विकेटकीपिंग भी करेंगे

पुणे, 22 अक्टूबर। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएशे ने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया है। रेयान को उम्मीद है कि पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे और विकेटकीपिंग भी करेंगे। पंत को पहले टेस्ट में घुटने में चोट लगी थी। फिलहाल भारत तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे है, भारत को मेहमान टीम ने बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हराया थारेयान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऋषभ पंत काफी अच्छा है। घुटने की वजह से थोड़ा असहज लग रहा था लेकिन अब ठीक है। उम्मीद है कि वह पुणे टेस्टे विकेटकीपिंग करेगा।

बता दें कि, पंत बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन विकेटकीपिंग करते समय चोटिल हुए थे। रविंद्र जडेजा की गेंद उनके ऑपरेशन वाले घुटने पर लगी, जिसके बाद मैदान से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने फिर मैच के दौरान अधिकतर हिस्से में विकेटकीपिंग नहीं की। हालांकि, 27 वर्षीय पंत बेंगलुरु में चौथे दिन बल्लेबाजी के लिए उतरे और शानदार पारी खेली। उन्होंने 105 गेंदों में 9 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 99 रन बनाए। उन्होंने सरफराज खान के साथ चौथे विकेट के लिए 177 रनों की दमदार साझेदारी की। असिस्टेंट कोच ने बल्लेबाज शुभमन गिल को लेकर भी अपडेट दिया, जो पहले टेस्ट में गर्दन में जकड़न के कारण नहीं खेले। रेयान ने कहा कि गिल भी पुणे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे।

जय शाह बन सकते हैं तीन साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन

दुबई, 22 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बोर्ड ने अपने चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल दो साल के बजाय तीन साल करने की सिफारिश की है। आईसीसी के सदस्य देश अगर इन सिफारिश को मंजूर कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह तीन साल के लिए विश्व क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था के चेयरमैन बनेंगे। शाह इस साल एक दिसंबर को आईसीसी के सर्वोच्च पद का कार्यभार संभालेंगे। आईसीसी बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद वह अपने दूसरे कार्यकाल में अगले तीन साल के लिए भी इस पद पर आसीन हो सकते हैं।शाह के पहले कार्यकाल का बड़ा हिस्सा बीसीसीआई में उनके अगले साल सितंबर में शुरू होने वाले तीन साल के 'कूलिंग ऑफ पीरियड' के साथ चलेगा। आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ फैसले किए गए। वैश्विक संस्था ने महिला एसोसिएट सदस्य टी20 प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला को भी मंजूरी दी। आईसीसी ने बयान में कहा,"हमारी योजना 2025 और 2028 के बीच दो वार्षिक टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की शुरुआत करना है जिससे कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में टीमों की संख्या बढ़ाई जा सके।" आईसीसी बोर्ड ने 2025 से लेकर 2029 तक महिलाओं के भविष्य के दौरा कार्यक्रम को भी मंजूरी दी जिसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। बयान के अनुसार, "आईसीसी मुख्य कार्यकारी समिति ने इसे भी मंजूरी दे दी है कि महिलाओं की रैंकिंग का वार्षिक अपडेट अब प्रत्येक वर्ष एक अक्टूबर से एक मई तक चलेगा और टीमों को अब कम से कम आठ मैच खेलने होंगे जो महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

जेमिमा रोड्रिग्स के पिता पर लगा धर्मांतरण का आरोप, खार जिमखाना की मेंबरशिप हुई रद्द

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स के पिता पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पिता ने मुंबई के खार जिमखाना क्लब के कुछ हिस्से को बुक किया और फिर उसमें कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। इस वजह से जेमिमा रोड्रिग्स की सबसे पुराने क्लब में शामिल खार जिमखाना की मेंबरशिप रद्द कर दी गई।

चोटिल ओसाका हांगकांग ओपन से हटी

हांगकांग, 22 अक्टूबर। चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने चोट के कारण हांगकांग ओपन टेनिस चैंपियनशिप से हटने की घोषणा की है। हांगकांग, चीन टेनिस संघ (एचकेसीटीए) ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि पूर्व

विश्व नंबर वन ओसाका टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगी। उन्होंने कहा, ओसाका ने पुष्टि की है कि वह अभी भी टूर्नामेंट में भाग लेंगी और इस आयोजन के दौरान अपने हांगकांग टेनिस प्रशंसकों से मिलने सहित कई गतिविधियों में भाग लेंगी। बयान में नाओमी के हवाले से कहा गया, मुझे वास्तव में खेद है कि मुझे प्रूडेंशियल हांगकांग टेनिस ओपन और इस टेनिस सत्र के बाकी हिस्सों में प्रतिस्पर्धा करने से हटना पड़ा है। उन्होंने कहा मुझे टूर्नामेंट में जाना बहुत पसंद है और खेलने में असमर्थ होने की निराश होने के बावजूद मैं अपने सभी अद्भुत हांगकांग प्रशंसकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं अभी भी इस कार्यक्रम में भाग लूँगी। मैं आप सभी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ।

जनरल अमर सिंह कानोता कप टूर्नामेंट आज से

आरपीसी और कानोता पोलो / स्पेक्ट्रम पोलो के बीच मुकाबला

जयपुर, 22 अक्टूबर। जनरल अमर सिंह कानोता कप (04 गोल) टूर्नामेंट का पहला मैच आरपीसी ओर कानोता पोलो/स्पेक्ट्रम पोलो के बीच शाम 5.00 बजे मैच खेला जाएगा जिसमें आरपीसी की ओर से सिद्धार्थ सिंह, लोकेन्द्र सिंह धिरावत, रणशेय पुरोहित, रणशेर सिंह राठौड़ ओर कानोता पोलो/स्पेक्ट्रम पोलो की ओर से डॉ. शिवांगी सिंह, प्रताप सिंह कानोता, कुलदीप सिंह राठौड़, मजीनि खेलेंगे। टूर्नामेंट में चार टीमें खेलेगी जिन्हें दो पूल में बांटा गया है, पूल ए में आरपीसी ओर कानोता पोलो/स्पेक्ट्रम पोलो और पूल बी में जयपुर टीम ओर वी पोलो को रखा गया है। मैच के एम्पायर मार्टिन स्कोर्टीचीनी ओर आर्यन सिंह ओर रेफ्री यनजोन होंगे।

बांग्लादेश के तीन विकेट झटक कर दक्षिण अफ्रीका ने मैच पर बनाई मजबूत पकड़

मीरपुर, 22 अक्टूबर। काइल वेरेन (114) और वियान मुल्डर (54) रनों की शानदार पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन मंगलवार को पहली पारी में 308 के स्कोर के साथ 202 रन की बढ़त साथ बंगलादेश के दूसरी पारी में 101 रन पर तीन विकेट झटक कर मैच पर अपनी पकड़ बना ली हैं।

दक्षिण अफ्रीका 308 के स्कोर पर रोकने के बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी बंगलादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तीसरे ही ओवर में कगिसो रबड़ा ने शादमान इस्लाम (एक) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद मोमिनुल हक (शून्य) को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान नजमुल शान्तो ने पारी को संभालने का प्रयास किया। 19वें ओवर में केशव महाराज ने शांन्तो को (23) रन पर पगबाधा आउट कर दिया।

दिन का खेल खराब रोशनी के कारण रोके जाने पर बंगलादेश ने दूसरी पारी में तीन विकेट पर 101 रन बना लिये है। हालांकि वह अभी पहली पारी के आधार 101 रन पीछे है। महमुदुल हसन जॉय (नाबाद 38) और मुशफिकुर रहीम (नाबाद 31) क्रीज पर मौजूद थे। दक्षिण अफ्रीका की ओर कगिसो रबाडा ने दो विकेट लिये। केशव महाराज को एक विकेट मिला।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने आज कल के छह विकेट पर 140 के स्कोर से आगे खेलना शुरु किया। 227 के स्कोर पर वियान मुल्डर के रूप में दक्षिण अफ्रीका का सातवां विकेट गिरा। इसी स्कोर पर केशव महाराज भी आउट कर पवेलियन लौट गये। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी की शुरुआत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। मेहमान टीम ने भी 108 रन पर अपने आठ विकेट गवा दिए थे। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज काइल वेरेन (114) और वियान मुडलर (54) के बीच हुई 119 रनों की साझेदारी की। इसके बाद वेरेन और डेन पीट के बीच नौवें विकेट के लिये हुए 63 रन की साझेदारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 300 रन का आंकड़ा पार किया।

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 88.4ओवर में 308 रन पर सिमट गई। बंगलादेश की ओर से तैजुल इस्लाम ने पांच विकेट लिये। हसन महमूद को तीन विकेट मिले। मेहदी हसन मिराज ने दो बल्लेबाजों को आउट किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने बंगलादेश की पहली पारी को 106 रन के स्कोर पर समेट दिया था।

फिटनेस और ताकत को बेहतर करने के लिए कराटे का सहारा ले रही है गोल्फर दीक्षा डागर

गुरुग्राम, 22 अक्टूबर। ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी गोल्फ खिलाडी दीक्षा डागर ने कहा कि वह अपने खेल के शीर्ष पर पहुंचने के लिए ताइक्वांडो और कराटे का सहारा लेकर अपनी फिटनेस और ताकत को बढ़ा रही है। गुरुवार से यहां शुरू हो रहे हीरो वुमेंस इंडियन ओपन गोल्फ में भाग ले रही 23 साल की खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक मे अपनी स्पर्धा से पहले सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी और इसका असर उनके खेल पर भी पड़ा था। इंडियन वुमेंस ओपन गोल्फ के पिछले आयोजन मे तीसरे स्थान पर रही दीक्षा ने यहां से बातचीत में कहा, "मैं अपनी फिटनेस के साथ ताकत हासिल करने पर काम कर रही हूं। मैं इसके लिए कराटे सीख रही हूं और नियमित तौर पर जिम जा रही हूं।"अपने पेशेवर करियर में तीन खिताब जीतने वाली दीक्षा ने कहा, "मैंने एक सुबह पार्क में जॉगिंग करते समय कुछ बच्चों को कराटे करते हुए देखा और फिर मैंने भी इसे सीखना शुरू कर दिया। इस युवा खिलाडी ने कहा कि पेरिस में सड़क दुर्घटना का उनके खेल पर नकारात्मक असर पड़ा था।

ओलंपिक में साथ डेफलंपिक्स हिस्सा लेने वाली देश की इस इकलौती खिलाड़ी ने कहा, " ओलंपिक में हिस्सा लेना मेरे लिये एक अनुभव था। दुर्घटना में मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी लेकिन मेरी मां अब भी उस चोट से उबर रही है।" हादसे से हालांकि मेरा खेल प्रभावित हुआ था। मेरी मां वहां अस्पताल में थी और अभ्यास सत्र के दौरान मुझे मेरे पिता का साथ नहीं मिला।

2026 के राष्ट्रमंडल खेल से क्रिकेट, हॉकी सहित नौ खेल हुए बाहर

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। स्कॉटलैंड के ग्लासगो 23 जुलाई से दो अगस्त 2026 के बीच होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, निशानेबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, स्क्वॉश, ट्रॉयथलन और टेबल टेनिस को बाहर कर दिया गया है। हालांकि क्रिकेट को हटाने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। 2026 में कुल मिलाकर केवल 10 खेल होंगे।

पहले यह राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले थे। लेकिन पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आयोजन से इनकार कर दिया। इसके बाद गेम्स को ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में कराने का फैसला लिया गया। राष्ट्रमंडल खेल संघ की मुख्यकारी केटी सडलिएर ने एक बयान जारी करते हुए कहा, हम राष्ट्रमंडल खेलों को फिर से स्थापित और परिभाषित करना चाहते हैं। 2026 का आयोजन इसी दिशा में पहला कदम होगा। हम भविष्य में एक लचीला और टिकाऊ खेल आयोजन चाहते हैं, जो पर्यावरण के लिए सहायक होने के साथ-साथ एक सामाजिक प्रभाव भी डाले। हमने खेलों की संख्या को इसलिए भी कम किया है, ताकि भविष्य में छोटे देश भी इन खेलों की मेजबानी कर सके। ये बजट फ्रेंडली खेल भी होंगे।

राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतना लक्ष्य था, हॉकी का हटना दुर्भाग्यपूर्ण : हरमनप्रीत सिंह

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 से हॉकी को हटाये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतना उनकी टीम का लक्ष्य था। भारत की राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है क्योंकि मेजबान शहर ग्लासगो ने हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी जैसे प्रमुख खेलों को 2026 में होने वाले खेलों के कार्यक्रम हटा दिया है तथा केवल 10 खेलों को इसमें जगह दी गई है। लागत को सीमित करने के लिए टेबल टेनिस, स्क्वाश और ट्रायथलॉन को भी हटा दिया गया है। जर्मनी के खिलाफ यहां मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर 23 और 24 अक्टूबर को होने वाले टेस्ट मैचों से पहले प्रेस कांफ्रेंस में हरमनप्रीत से जब इस फैसले पर प्रतिक्रिया के लिये पूछा गया तो उन्होंने कहा ," मुझे अभी पता चला है कि यह फैसला लिया गया है। यह अच्छा टूर्नामेंट था। हमारा लक्ष्य इस बार उसमें स्वर्ण पदक जीतना था।" भारतीय टीम 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में आस्ट्रेलिया से 0 . 7 से हार गई थी जबकि 2018 में गोल्ड कोस्ट खेलों में इंग्लैंड से 1 . 2 से हारकर चौथे स्थान पर रही थी।

हांगकांग ने अफगानिस्तान-ए को पांच विकेट से हराया

अल अमीरात, 22 अक्टूबर। अनस खान (छह विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद कप्तान निजाकत खान (61) और बाबर हयात (39) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर हांगकांग ने मंगलवार को इमर्जिंग एशिया कप के नौवें मुकाबले में अफगानिस्तान ए को पांच विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ए 131 के स्कोर के जवाब में हांगकांग ने कप्तान निजाकत खान (61),बाबर हयात (39) की शानदार पारियों की बदौलत 19.3 ओवर में पांच विकेट पर 133 रन बनाकर पांच विकेट से मकाबला जीत लिया। जीशान अली (12) रन बनाकर आउट हुये। मार्टिन कट्जी ने (नाबाद 15) रनों की पारी खेली।

अफगानिस्तान ए की ओर से अब्दुल रहमान ने तीन और क्वैस अहमद ने दो विकेट लिये। इससे पहले आज यहां टॉस जीतकर अफगानिस्तान ए ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले ही ओवर में वाफीउल्लाह तराखिल (शून्य) का विकेट गवां दिया। उसके बाद नुमान शाह ने सेदिकुल्लाह अटल के साथ दूसरे विकेट लिये 49 रन जोड़े। नुमान शाह (20) को अतीक इकबाल ने आउट किया।

वार्नर भारत के खिलाफ खेलने के लिए संन्यास से वापसी करने को तैयार

सिडनी, 22 अक्टूबर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा कि अगर उनकी टीम को जरूरत होगी तो वह संन्यास से वापस आकर आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत के खिलाफ खेलने को तैयार हैं। इस 37 साल के पूर्व खिलाड़ी ने इस साल पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के बाद संन्यास की घोषणा की थी। वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट में 34 और 57 रन की पारी खेली थी। इस वामहस्त बल्लेबाज ने 'कोड स्पोर्ट्स' से कहा, "मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूं, बस फोन उठाना बाकी है।

जर्मनी को हराकर प्रशंसकों का दिल जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा भारत

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय हॉकी टीम जर्मनी के साथ बुधवार से शुरु होने जा रही द्विपक्षीय सीरीज के पहले मुकाबले में मेहनमान टीम को हराकर प्रशंसकों का दिल जीतने के लिए इरादे से मैदान में उतरेगी। कल होने वाला यह मुकाबला भारतीय हॉकी टीम के लिए ही नहीं उनके दक्षिण अफ्रीकी कोच क्रेग फुल्टन के लिए 29 वर्ष बाद एक विशेष एहसास लेकर आयेगा। फुल्टन का 21 साल की उम्र में 1995 में इंदिरा गांधी गोल्ड कप में अंतरराष्ट्रीय हॉकी का पदार्पण मैच इसी स्टेडियम में आयोजित हुआ था।

आर.के. चतुर्वेदी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट

जयपुरिया क्रिकेट अकादमी व आर.के. स्पोर्ट्स क्रिकेट अकादमी के बीच फाइनल

जयपुर, 22 अक्टूबर। आर के चतुर्वेदी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला जी आर अकादमी व आर के स्पोर्ट्स अकादमी के बीच खेला गया। जिसमें आर के स्पोर्ट्स अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 210/6 रन बनाए। जिसमें अरजीत गुप्ता ने 58 व सचिन काकोड़िया ने 40 और मनीष टॉक ने नाबाद 35 रनों का योगदान दिया। जी आर अकादमी की ओर से गेंदबाजी में शुभम पटवाल को 2 विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जी आर क्रिकेट अकादमी 19.2 औवर में 185 रन पर ऑल आउट हो गई। जिसमें प्रवीण कुमार ने 75 व रजत कुमार ने 27 रन का योगदान दिया। आर के स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से गेंदबाजी में हितेश को 3 विकेट व महेंद्र महला और आयुष गुर्जर को 2 - 2 विकेट मिले। मैन ऑफ द मैच-हितेश।

आर के चतुर्वेदी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल जयपुरिया क्रिकेट अकादमी व सुराणा क्रिकेट अकादमी के बीच खेला गया।जिसमें जयपुरिया क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 187/8 रन बनाए। जिसमें जुबेर अली खान ने 82 व आफ़्ताबुद्दीन ने 46 रनों का योगदान दिया। सुराणा क्रिकेट अकादमी की ओर से प्रशांत यादव को 3 विकेट व विकास मीना और विनय शर्मा को 2 -2 विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुराणा क्रिकेट अकादमी 122/7 रन ही बना सकी जिसमें भगवत सिंह ने 47 रन व विकास मीणा ने 30 रन का योगदान दिया। जयपुरिया क्रिकेट अकादमी की ओर से गेंदबाजी में नवीन चौधरी को 3 विकेट और हेमन्य भारद्वाज को 2 विकेट मिले। मैन ऑफ द मैच-जुबेर अली खान।

सीनियर पुरूष फुटबॉल चैम्पियनशिप का फाइनल आज

राजस्थान पुलिस का गंगानगर से, जैसलमेर का हनुमानगढ़ से सेमीफाइनल मुकाबला होगा

जयपुर, 22 अक्टूबर। जयपुर के विद्याधरनगर फुटबॉल स्टेडियम में चैंपियनशिप के चौथे दिन सात मैच खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में कड़ी टक्कर देखने को मिली। राजस्थान फुटबॉल एशोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि आज तीन प्री क्वार्टर फाइनल और चार क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। आज का पहला मैच राजस्थान पुलिस और जयपुर के बीच हुआ एक कड़े संघर्षपुर्ण मुकाबले में राजस्थान पुलिस ने जयपुर को पैनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। दूसरे मैच झुंझुनूं और राजसमंद के मध्य खेला गया जिसमें राजसमंद ने झुंझुनूं को 2-0 से हराया।

तीसरा मैच अजमेर और श्री गंगानगर और अजमेर के बीच खेला गया एक कड़ी टक्कर के मुकाबले में श्री गंगानगर ने अजमेर को 1-0 से हराया। चौथा मैच कोटा और दौसा के बीच खेला गया जिसमें कोटा ने दौसा को एक आसान मुकाबले में 10-3 से हराया। पांचवा मैच टूर्नामेंट का पहला

क्वार्टर फाइनल जो हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा के बीच खेला गया जिसमें एकतरफा मुकाबले में हनुमानगढ़ ने भीलवाड़ा को 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरा क्वार्टर फाइनल अलवर और जैसलमेर के बीच खेला गया एक हाइवोल्टेज मैच में जैसलमेर के गोलकीपर प्रवीण भाटी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत जैसलमेर ने अलवर को पैनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच राजस्थान पुलिस और राजसमंद के बीच खेला गया जिसमें राजस्थान पुलिस ने राजसमंद को 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

आज का आखिरी मुकाबला और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच श्रीगंगानगर और कोटा के मध्य खेला गया जिसमें श्रीगंगानगर ने कोटा को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। श्री गंगानगर के खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल और उम्दा खेल दिखाया। आज मैचों के दौरान डी वाई के निदेशक ऋषि भाटिया, चेतन, सीकर फुटबॉल संघ के सचिव सुरेंद्र सिंह मील, शिवलाल, दौसा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कृष्णावतार कई भूतपर्व फुटबॉलर और खेलप्रेमी मौजूद रहे।

अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी
राजस्थान-बंगाल मैच

राजस्थान के गेंदबाज मोहित चांगरा, चेतन शर्मा व हिमांशु नेहरा की शानदार गेंदबाजी

जयपुर, 22 अक्टूबर। राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में जयपुर में के एल सैनी स्टेडियम मानसरोवर पर खेले जा रहे राजस्थान-बंगाल अंडर 23 सी के नायुडु ट्रॉफी (मल्टी डेज) मैच के तीसरे दिन राजस्थान के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन।

राजस्थान पहली पारी 276 आल आउट

राजस्थान टीम के लिए सचिन यादव 76, मुकुल चौधरी 71, राज शर्मा 50, करण लाम्बा 20, हिमान्शु नेहरा 20, सुमित गोदारा 14 रनो का योगदान दिया।

बंगाल पहली पारी 352 आल आउट

राजस्थान के गेंदबाज मोहित चांगरा 50/4, चेतन शर्मा 60/3 व हिमांशु नेहरा 88/3 विकेट प्राप्त किये।

राजस्थान दूसरी पारी 48/4

मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक राजस्थान ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना लिए थे।

सतीश पूनिया दो दिन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर रहेंगे

जयपुर, 22 अक्टूबर। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं राजस्थान के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया 23 और 24 अक्टूबर को जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे।

सतीश पूनिया मारवाड़ के दो दिवसीय प्रवास पर मारवाड़ क्षेत्र के दिवंगत नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के यहां शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे तथा रामदेवरा में रामदेव महाराज और जैसलमेर में तनोट माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। इस दौरान सतीश पूनिया नवजात कन्याओं के, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाने का शुभारंभ करेंगे, इसके अलावा वे वृक्षारोपण इत्यादि सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे।

- **वे रामदेवरा तथा तनोट माता के दर्शन करेंगे व सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने का शुभारम्भ करेंगे।**

डॉ. पूनिया 23 अक्टूबर को प्रात: जोधपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जिसके बाद वे, ओसियां, लोहावट, फलौदी, रामदेवरा व कश्मीर (शिव) जाएंगे, फिर बाड़मेर के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे।

डॉ. पूनिया बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में नवजात कन्याओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बी.एस.एफ. के सहयोग में गडरा रोड में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद श्री भगवान गौशाला जाएंगे और शाम को तनोट माता मंदिर की आरती में शामिल होंगे।

पिछले वर्ष भी सतीश पूनिया ने 24 अक्टूबर को बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुंदरी माताजी मंदिर से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत नौ कन्याओं के खाते खुलवाने का शुभारंभ किया था, जो पूरे प्रदेश में एक बड़ा सामाजिक अभियान बना, जिसमें प्रदेशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने 60 हजार से अधिक कन्याओं के सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाए थे।

झारखंड में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महत्वाकांक्षी रुख अपनाया हुआ है।

इण्डिया ब्लॉक पार्टियाँ यदि एक सर्वमान्य सीट शेयरिंग फॉर्मूला को अंतिम रुप देने में असफल रहीं तो स्वाभाविक रुप से इसका लाभ भाजपा को होगा। जिसकी राज्य में जड़ें काफी गहरी हैं। चम्पई सोरेन के जाने के बाद झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आंतरिक संकट से जूझ रहा है और पर्यवेक्षक मानते हैं कि हेमंत सोरेन का "सिम्पैथी फैक्टर" ही पार्टी को जीत दिलाने में सक्षम नहीं होगा। सिर्फ इसी के भरोसे पार्टी बहुमत आंकड़े तक नहीं पहुँच सकती है, खासकर सहयोगियों के असहयोगी रवैये के कारण। सीटों के बंटवारे पर इण्डिया गठबंधन में वार्ता चल रही है। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आशन्वित नहीं लग रहे हैं।

जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण के बच्चा हुआ

ऐसा करने वाला भारत विश्व में पहला देश, लुप्त होती दुर्लभ प्रजाति को बचाने की आस जगी

जैसलमर, 22 अक्टूबर (नि.सं.)। जैसलमेर जिले के सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में कृत्रिम गर्भाधान (आर्टिफिशल इनसेमिनेशन) से गोडावण के बच्चा पैदा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। अब इस प्रक्रिया से लुप्त होने जा रही इस दुर्लभ प्रजाति को बचाया जा सकेगा।

प्रभागीय वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) आशीष व्यास ने बताया कि पहली बार गोडावण को कृत्रिम गर्भाधान की मदद से प्रजनन करवाकर पैदा किया गया है। अब गोडावण का स्पर्म बैंक बनाने और उसकी जनसंख्या बढ़ाने में मदद मिल सकेगी।

व्यास ने बताया कि 'इंटरनेशनल फंड फॉर हुबारा कंजर्वेशन फाउंडेशन, अबू धाबी' में तिलोर पक्षी पर इस तरह का परीक्षण किया गया और वो सफल रहा। भारत के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक भी पिछले साल वहां गए और इस तकनीक को सीखा। इसके बाद गोडावण पर इस तरह के परीक्षण के प्रयास शुरू किए। रामदेवरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में स्थित सुदा नामक मेल गोडावण को कृत्रिम मेटिंग के लिए ट्रेनिंग दी। उसके स्पर्म इकट्ठे करके सुदासरी स्थित ब्रीडिंग सेंटर ले जाया गया। बीस सितंबर को टोनी नामक मादा गोडावण को कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया।

टोनी ने 24 सितंबर को अंडा दिया। अंडे की देखभाल की गई। आखिरकार वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा निकला और 16 अक्टूबर को अंडे से गोडावण का चूजा बाहर आया। करीब एक हफ्ते तक चूजे को ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उसके सभी मेडिकल टेस्ट किए गए, अब चूजा स्वस्थ है।

- **रामदेवरा ब्रीडिंग सेन्टर में सुदा नामक मेल गोदावण के स्पर्म इकट्ठे किये गये। स्पर्म सुदासरी ब्रीडिंग सेन्टर ले जाकर 20 सितम्बर को टोनी नामक मादा गोडावण को कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। टोनी ने 24 सितम्बर को अंडा दिया, 16 अक्टूबर को गोडावण का चूज़ा बाहर आया। एक हफ्ते आब्ज़र्वेशन में रख कर मेडिकल टेस्ट किये गये, चूज़ा स्वस्थ है।**

व्यास ने बताया कि गोडावण में आर्टिफिशल इनसैमिनेशन (ए.आई.) का यह पहला परीक्षण है। कहा जा रहा है कि बड़ा होने के बाद इस चूज़े का नाम ए.आई. रखा जा सकता है।

डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की तीन हजार 162 किमी भूमि पर स्थित पार्क का लगभग 44 फीसदी हिस्सा रेत के टीलों के रूप में है। जैसलमेर जिले के म्याजलार सहित, अन्य गांव डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र में होने की वजह से वहां के रहवासियों को मूलभूत सुविधा देने में प्रशासन को अड़चन आ रही है

व्यास ने बताया कि जैसलमेर में वर्तमान में गोडावण की संख्या 173 है, जिनमें से 128 गोडावण तो फील्ड में घूम रहे हैं। वहीं 45 गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में हैं।

जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क गोडावण का सबसे संरक्षित इलाका माना जाता है। यहां पर 70 के करीब एन्क्लोज़र हैं, जिसके कारण यहां पर गोडावण के प्रजनन की अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। पार्क में बनाए गए हैचरी सेंटर में अंडों को वैज्ञानिक तरीके से सेते हैं।

जैसलमेर जिले के सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशल इनसैमिनेशन पद्धति से गोडावण चूज़े का जन्म हुआ।

द्रव्यवती नदी रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए टाटा को भुगतान देने पर फैसला सुरक्षित

जयपुर, 22 अक्टूबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड-एस.यू.सी.जी. कंपनी को दृव्यवती नदी को पुनर्जीवित करने और आधारभूत ढांचा बनाने के संबंध में 52 करोड़ के शेष भुगतान की राशि नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है। न्यायाधीश सुदेश बंसल की एकल पीठ ने जे.डी.ए. की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में जे.डी.ए. की ओर से अधिवक्ता अनुरूप सिंघी पैरवी के लिये पेश हुए थे, वहीं टाटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता शिवांशु नवल पैरवी के लिये पेश हुए थे।

- **हाईकोर्ट ने जे.डी.ए. की याचिका पर इस 1400 करोड़ रुपये के टैंडर में से शेष 52 करोड़ रुपये के विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा।**
- **जे.डी.ए. इस प्रोजैक्ट के लिए टाटा कम्पनी को 1365 करोड़ रु. का भुगतान पहले ही कर चुका है।**

मामले के तथ्यों के अनुसार, जे.डी.ए., दृव्यवती नदी को पुनर्जीवित करने के लिये किये गये टैंडर में टाटा को 1365 करोड़ का भुगतान पहले ही कर चुका है, परंतु 52 करोड़ रुपये का भुगतान इसलिये रोका गया है क्योंकि जे.डी.ए. का आरोप है कि टाटा ने 47.5 किलोमीटर लंबी नदी के तीन हिस्सों में तल को समतल कर पक्का बनाने का काम नहीं किया। हालांकि जब यह मामला आर्बिट्रेशन में गया था तो टाटा के पक्ष में ही अवॉर्ड आया था। इसके बाद जे.डी.ए. ने आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को कमर्शियल कोर्ट में चुनौती दी थी। कमर्शियल कोर्ट ने जे.डी.ए. को अवॉर्ड के आधार पर 52 करोड़ की 50 प्रतिशत की राशि को जमा करने के आदेश दिये थे। इसके खिलाफ जे.डी.ए. ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

उपभोक्ता आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से मेडिकल बीमा लिया था। उसके हृदय रोग होने के चलते इलाज पर लाखों रुपए खर्च हुए।

जब बैंक ने बीमा राशि देने से इनकार किया तो परिवादी ने वर्ष 2012 में आयोग के समक्ष परिवाद पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने 1 फरवरी, 2012 को बैंक को आदेश देते हुए परिवादी को 9.50 लाख रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा। इसके साथ ही आयोग ने बैंक पर दस हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया।

इस आदेश के खिलाफ बैंक ने राज्य आयोग में अपील की, जिसे आयोग ने 17 अप्रैल, 2015 को खारिज कर दिया। वहीं, बाद में राष्ट्रीय आयोग ने भी मई, 2018 में बैंक की अपील को निरस्त कर दिया। इसके बावजूद, अब तक आदेश की पालना नहीं हुई। प्रार्थना पत्र में गुहार की गई कि बैंक की संपत्ति को नीलाम कर परिवादी को भुगतान दिलाया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बैंक की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

वन विभाग की लापरवाही से सज्जनगढ़ पार्क से मादा पैंथर पिंजरा तोड़ भागी

मादा पैंथर सोमवार को लखावली में पिंजरे में कैद हुई थी, रात 8.30 बजे उसे सज्जनगढ़ लाया गया

उदयपुर, 22 अक्टूबर (कासं)। शहर और ग्रामीण इलाकों में पैंथर के खौफ के बीच मंगलवार को वन विभाग की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक मादा पैंथर पिंजरा तोड़कर भाग गई। यह मादा पैंथर सोमवार को बेदला के समीप लखावली क्षेत्र में लगाए गए वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गयी थी, जिसे वन विभाग की टीम रात 8:30 बजे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर पहुंची थी।

मादा पैंथर के भागने की जानकारी वन विभाग के कर्मचारियों को सुबह 8 बजे मिली। इसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए कई टीमें लगा दी हैं।

लखावली से लाई गई मादा पैंथर को उसी पिंजरे में रखा था, जिसमें वह आयी थी, पैंथर परेशान न हो, इसलिए पिंजरे पर कपड़ा डालकर उसे चारों ओर से ढ़क दिया गया था। रात को पैंथर ने पिंजरे की जाली पर पड़े कपड़े को खींच कर जाली ऊंची की और जगह बनाकर पिंजरे से निकलकर बायोलॉजिकल पार्क से भाग गयी। सुबह जब स्टाफ पिंजरे के पास पहुंचा तो पैंथर के भाग जाने का पता चला। सज्जनगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में जगह-जगह वन विभाग की टीमें इस मादा पैंथर की तलाश कर रही हैं।

- **वन विभाग की लापरवाही तब सामने आई जब पैंथर के रात में भाग निकलने की सूचना कर्मचारियों को सुबह 8 बजे मिली।**

सज्जनगढ़ की पहाड़ी और बायो पार्क में दिन भर तलाश जारी रही, लेकिन पैंथर का पता नहीं चला है। खतरे को देखते हुए, सज्जनगढ़ पर पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई है। हालांकि प्रत्येक मंगलवार को बायो पार्क पर्यटकों के लिए बंद रहता है, पर वहां काम करने वाले मजदूरों को भी अब सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है।

जहां पर यह मादा पैंथर पिंजरे में कैद हुई थी, उस जगह से करीब 15 किमी दूर 18 अक्टूबर को एक पैंथर को गोली मारी गई थी। आशंका जताई जा रही थी कि 10 लोगों का शिकार करने वाला पैंथर वही था, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

एक पैंथर को शूट करने के बाद भी यहां सर्च टीमें तैनात हैं। इस समय मदार में 5 और राठौड़ों का गुड़ा में 13 पिंजरे सहित उस इलाके में कुल 18 पिंजरे लगा रखे हैं। अब ज्यादा टीमों की भीड़ के बजाय, छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर सर्च की जा रही है। मदार, बड़ी पंचायत, सज्जनगढ़ सेंचुरी और बड़ी तालाब के पास स्थित है। पैंथर इन तालाबों में प्यास बुझाने आते रहते हैं। इसलिए इनका मूवमेंट आसपास के इलाकों में भी रहता है।

यू.ए.ई. ने राजस्थान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक कदम आगे बढ़कर 'संयुक्त अरब अमीरात सरकार' द्वारा सरकारी फंड से प्रदेश में निवेश के लिए यह महत्वपूर्ण एम.ओ.यू. किया गया है। इसके तहत राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन लाख करोड रुपए का निवेश आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं। केन्द्र सरकार ने देश में 500 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान को 250 गीगावॉट के सोलर प्लांट लगाने होंगे। यू.ए.ई. के साथ यह साझेदारी इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और यू.ए.ई. के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक साझेदारी और गहरी हुई है। यू.ए.ई., भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत से होने वाले निर्यात में यू.ए.ई. दूसरे पायदान पर है। यू.ए.ई. के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी ने कहा कि नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पारंपरिक ऊर्जा से अक्षय ऊर्जा की ओर इस बदलाव में यू.ए.ई. महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजस्थान की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं।

मुलाकात के दौरान, शर्मा ने आगामी 9 से 11 दिसम्बर तक जयपुर में आयोजित होने जा रहे "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024" में सुवैदी को आमंत्रित किया। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के के बिश्नोई, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित, विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

लॉरेंस विश्नोई के एनकाउन्टर करने पर एक करोड़ देगी करणी सेना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। एन.सी.पी. नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी के बाद से ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में है। अब करणी सेना ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को ईनाम देने की घोषणा की है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत ने 1 करोड़ 11 लाख 11 हजार 1 सौ 11 रुपये देने का ऐलान किया है। बता दें कि राजस्थान में पिछले साल करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई थी, इस मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। राज शेखावत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को 1,11,11,111 रुपये का इनाम देंगे। इस वीडियो में वे आगे कहते हैं कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उसको यह इनाम की राशि दी जाएगी।

शिवसेना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हटाना पड़ता है।"

कांग्रेस पर खुला कटाक्ष करते हुये, राउत ने कहा, "कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। यह पार्टी भाजपा से भी बड़ी है। ..... उनकी हाई कमान दिल्ली में है, उनकी बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं।" लेकिन, उन्होंने अपने मित्र दल कांग्रेस को विशिष्ट परामर्श देने से बचते हुये कहा, "मैं उन्हें क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ? उनका मार्गदर्शन करने वाले बहुत से लोग हैं।"

दो सौ अठासी सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिये मतदान 20 नवम्बर को, तथा मतगणना 23 नवम्बर को होनी है।

केन्द्रीय गृह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में सी.आर.पी.एफ. ने उसे सेवा में बहाल तो कर दिया, लेकिन उसे सेवा परिलाभ नहीं दिए। सी.आर.पी.एफ. का यह कृत्य अदालती आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है।

ऐसे में उसे सेवा परिलाभ दिलाए जाएं और दोषी अवमाननाकर्ता अफसरों पर कार्रवाई की जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

बजरंग पूनिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को एकजुट करेंगे और किसानों के संघर्ष के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कई गैर राजनैतिक किसान संगठन हैं। देश की कुल आबादी के 52 प्रतिशत किसान हैं और अगर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी गया तो भी इससे किसानों को लाभ नहीं होगा।

सेबी चीफ माधबी पुरी बुच को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस प्रकरण की समीक्षा में, सरकार को कोई पैसों का कोई अवैध लेन-देन नहीं पाया गया, तथा इस बात की पुष्टि की गई कि बुच ने सभी जरूरी ड्यूज अदा कर दिये थे। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने स्पष्ट किया कि अक्टूबर 2013 में हुई उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, बुच ने कोई वेतन या ई.एस.ओ.पी. नहीं लिया, उद्योग क्षेत्र के नियमों के अनुसार केवल मान्य सेवानिवृत्ति लाभ ही लिये थे।

बुच ने 12 साल तक आई.सी.आई.सी.आई को अपनी सेवाएं दी। इनमें से दो वर्ष वे आई.सी.आई.सी.आई. सिक्यूरिटीज की सी.ई.ओ. रहीं।

बुच के खिलाफ तीसरा मोर्चा उस समय खोला गया, जब सेबी के कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को पत्र भेजकर, उन पर, उनके नेतृत्व में जहरीली कार्य-संस्कृति का आरोप लगाया।

इन शिकायतों से सेबी तथा राजनैतिक हल्कों में चिन्ता पैदा हो गई थी। कर्मचारियों ने नेतृत्व पर कर्मचारियों से गाली-गलोच करने तथा डांटने-फटकारने का आरोप लगाया था, जिसके चलते प्रबन्धन के बारे में कर्मचारियों को बहुत शिकायतें थी।

सरकार ने इस मामले की छान-बीन की तथा कर्मचारियों से बातचीत की। इस मुद्दे का समाधान तब हुआ, जब सेबी के शीर्ष नेतृत्व से कहा गया कि वह स्टाफ के प्रति ज्यादा संवेदनशील बने। सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह भी सम्भव है कि यह असंतोष बुच द्वारा सेबी में किये गये सुधारों के कारण पैदा हुआ हो, क्योंकि व्यवस्था की सफाई के बुच के प्रयासों का प्रतिरोध हुआ था।

सारे बिन्दुओं पर विचार करने के बाद, सरकार ने निर्णय लिया है कि बुच अपना कार्यकाल पूरी करेंगी, जो 28 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा।

जे.पी.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कारण पूरी मीटिंग पटरी से उतर गई।

कल्याण बनर्जी को जे.पी.सी. चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर काँच की बोतल फैंकने की कोशिश के आरोप पर निलम्बित कर दिया गया है।

देश के सभी सीआरपीएफ स्कूलों को बम ब्लास्ट की धमकी

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। सीआरपीएफ के दिल्ली समेत देशभर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक देश के सभी सीआरपीएफ के स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ईमेल आया है। सोमवार रात ये मेल देश के कई स्कूलों को आया। जांच के बाद स्कूलों में कुछ नहीं मिला। मेल भेजने वाले ने सुबह 11 बजे तक सभी सीआरपीएफ स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मेल भेजने वाले ने पूर्व डीएमके लीडर जफर सादिक की अरेस्ट का जिक्र किया था जिसको एनसीबी और फिर ईडी ने अरेस्ट किया था। दिल्ली के जिन दो सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी उनमें से एक रोहिणी और एक द्वारका में है। इस मेल का रोहिणी के प्रशांत विहार में हुए धमाके से कोई लिंक नही है। सूत्रों के मुताबिक, यह धमकी सोमवार देर रात इन स्कूलों के प्रबंधन को भेजे गए एक ईमेल के जरिए दी गई। सीआरपीएफ ने इस धमकी के बाद अपने सभी स्कूलों को अलर्ट पर रहने के लिए बोला है। दिल्ली पुलिस ने भी सीआरपीएफ स्कूलों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चार अक्टूबर को बेंगलुरु के तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली थी। इससे परिसरों में दहशत फैल गयी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बसवनगुड़ी में बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और सदाशिवनगर में एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दोपहर करीब 1 बजे ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। पुलिस ने बताया कि इससे एक दिन पहले नौ शैक्षिणक संस्थानों को एक ईमेल मिला था जिसमें दावा किया गया था कि उनके परिसरों में बम लगाए गए हैं और तलाशी के बाद यह धमकी अफवाह निकली।

- **सोमवार की रात देश के कई स्कूलों में यह ईमेल आया था, स्कूलों में सुरक्षा बढी।**
- **मेल में मंगलवार को सुबह 11 बजे तक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी थी। जांच में यह धमकी अफवाह निकली।**

सांसद नारायण राणे के पुत्र भाजपा छोड़ शिन्दे के साथ जायेंगे

मुंबई, 22 अक्टूबर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। महायुति और महा विकास अघाड़ी, दोनों गठबंधन जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने जा रहे हैं। हालांकि, चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह भाजपा छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं।

नीलेश राणे ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी कि वे एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। नीलेश ने बताया है कि वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुदाल सीट से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक, महायुति गठबंधन में हुए सीट बंटवारे के तहत, कुदाल सीट शिवसेना के खाते में जाएगी। यही कारण है कि नीलेश भाजपा से शिवसेना में शामिल होंगे। महाराष्ट्र की कुदाल विधानसभा सीट रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। इस सीट से वर्तमान में भाजपा के नारायण राणे सांसद हैं। कुदाल से सटी हुई कंकावली विधानसभा सीट है जहां से नीलेश राणे के छोटे भाई और भाजपा नेता नीतेश राणे विधायक हैं। कुदाल विधानसभा सीट से शिवसेना (यूबीटी) के नेता वैभव नायक वर्तमान में विधायक हैं।

- **कहते हैं कि कुदाल विधानसभा सीट बंटवारे में शिवसेना (शिन्दे) को मिलेगी। इस सीट से चुनाव लड़ने के लिये नारायण राणे के पुत्र नीलेश राणे शिवसेना (शिन्दे) में शामिल होंगे।**

नीलेश राणे पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने साल 2009 में रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट से लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 में वे भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके कुछ समय बाद, नीलेश राणे ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। हालांकि, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेन्द्र फड़णवीस ने उनसे मुलाकात की थी और इसके बाद नीलेश राणे ने पार्टी के लिए काम करना जारी रखने की बात कही थी।

इंडिगो-विस्तारा और एयर इंडिया की 30 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। देश भर की तमाम एयरलाइन कंपनियों के विमानों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला कई दिनों से जारी है। सोमवार रात को भी इंडिगो, विस्तारा, अकासा और एयर इंडिया की 35 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, और मंगलवार को भारतीय एयरलाइन्स द्वारा संचालित 30 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मामले से जुड़े सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि बम से उड़ाने की धमकी पाने वालों में इंडिगो, विस्तारा, अकासा और एयर इंडिया की उड़ानें शामिल हैं। बता दें कि पिछले 8 दिन में अब तक 120 से ज्यादा विमानों को बम हमले की धमकी मिल चुकी है।

- **गत आठ दिन में 120 से अधिक विमानों को बम हमले की धमकी मिली है।**

विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा, हम पुष्टि करते हैं कि 21 अक्टूबर 2024 को संचालित होने वाली विस्तारा की कुछ उड़ानों को सोशल मीडिया पर सुरक्षा संबंधी धमकियां मिली हैं। हमने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उनके द्वारा बताए गए सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया। पिछले एक हफ्ते में भारतीय विमानन कंपनियों की 120 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908